


उसे देख कर यही बोध होता कि मानो किसी देव-कन्या ने धरातल पर अवतार लिया है । बाहरी सुन्दरता की अपेक्षा उसकी मानसिक सुन्दरता और भी बढ़ कर थी । वह अपने गुरुजनों पर भक्ति रखती, देव ब्राह्मणों को श्रद्धा की दृष्टि से देखती और आश्रितजनों पर दया करती थी । उसकी सुशीलता के कारण नगरवासी उसे आदर की दृष्टि से देखते और वह उनके स्नेह और प्रशंसा की पात्री थी । शील ही उसका परम भूषण था और इसी शील की बदौलत वह सबको परम प्रिय थी । राज-कुमार शकुनि के अत्याचारों से पीड़ित लोगों को भी वह ऐसे मधुर शब्दों में सान्त्वना देती कि वे अपना दुःख भूल जाते और उनके हृदय से निकली हुई आहें गान्धार राज्य का अमङ्गल न करतीं ।

जैसे शरद्ऋतु के आते ही हंसों की पंक्ति गङ्गाजी के किनारे पहुँच जाती है, रात्रि के आते ही पर्वतों पर वनौषधियाँ आत्म-प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं, उसी भाँति जिस समय उसे शिक्षा प्राप्त होने लगी उस समय अगले जन्म में पढ़ी हुई विद्याएँ उसका समाश्रय लेने लगीं और थोड़े ही दिनों में वह पढ़ने लिखने में प्रवीण हो गई । उसकी बुद्धि स्फुरित हुई और उसकी प्रतिभा ने भी विकास पाया ।

वचन ही से उसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर अधिक थी । युवावस्था प्राप्त होने पर वह प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी । देवी-देवताओं पर उसका विश्वास अटल तो था ही; वह अपनी



लेखक के परम श्रद्धास्पद स्वामी आनरेबिल राजा सर रामपाल-
सिंह साहव बहादुर के० सी० आई० ई० के हार्दिक
मित्र, अनेक अनुपम गुणों के आधार, रियासत
वसई डीह (कसमंडा) ज़िला सीतापुर के
सुप्रसिद्ध ताल्लुकदार श्रीमान् राजा
सूर्यबख्शसिंहजी महोदय


की

सेवा में,

कमला और गिरा दोनों ही जिनका आश्रय लेती हैं ।
एकाश्रित हो कर भी पर-हित बंधुतों को सुख देती हैं ॥
जिनको मातृ-भूमि ही के सम हिन्दी भाषा प्यारी है ।
उनके कर-कमलों में अर्पित श्रद्धायुत “गान्धारी” है ॥

कात्यायनीदत्त त्रिवेदी ।

तीसरा परिच्छेद ।



धर हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज विचित्रवीर्य भीष्म की अनुमति से बिना किसी बाधा के सात आठ बरस तक राजकाज चलाते रहे । इसके अनन्तर उन्हें राजयक्ष्मा अर्थात् क्षयी का रोग हुआ । उसने युवावस्था में ही उनकी जान ले ली । उनकी माता सत्यवती को अपने पुत्र की इस अचानक मृत्यु से बड़ा भारी शोक हुआ । शोक होने की बात ही थी । महाराज विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों को सन्तान का मुँह देखना नसीब न हुआ था । अम्बिका और अम्बालिका दोनों पुत्र-रहित थीं । इधर भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का कठोर प्रण करके यह भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं राजसिंहासन पर कभी न बैठूँगा । कुरुवंश के शिरोमणि महात्मा शान्तनु के सिंहासन का अब कोई अधिकारी ही न रह गया; शान्तनु के चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य नामक सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्रों ने तो परलोक का रास्ता लिया, और गङ्गा-सुत भीष्म राज-दण्ड ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा में बँध गये । अब उत्तराधिकारी के बिना राज्य की रक्षा कैसे हो ? यह सोच कर सब लोग बड़े असमंजस में पड़े ।

मुकाबला नहीं कर सकता । हमने जहाँ तक सुना है उनके बराबर बलशाली राजकुमार बहुत कम हैं ।

शकुनि—उन्हें शास्त्र-ज्ञान कितना है ?

मन्त्री—सुना जाता है, समस्त वेद-वेदाङ्ग उन्हें कण्ठस्थ हैं ।

शकुनि—उनके वंश-गौरव के सम्बन्ध में भी आप कुछ जानते हैं ?

मन्त्री—उस वंश के गौरव का परिचय देना निष्प्रयोजन है, ययाति, पुरु, दुष्यन्त आदिक राजर्षियों ने उसी वंश में जन्म ग्रहण किया है । उससे बढ़ कर गौरव में और कौन राजकुल हो सकता है ?

शकुनि—मन्त्रिवर ! फिर इस विवाह में दोष वाली बात क्या है ?

मन्त्री—दोष कुछ भी नहीं, युवराज ! पर सबसे बड़ा और सब गुणों पर पानी फेरने वाला दोष यही है कि राजकुमार धृतराष्ट्र जन्म के अन्धे हैं ।

शकुनि—तब “ज्ञानी लोग शास्त्र-ज्ञान को ही चक्षु मानते हैं” क्या यह बात बिलकुल ही निस्सार है ?

मन्त्री—युवराज ! हमारी समझ में जो कुछ आया, हमने आपके और महाराज के सामने साफ़ साफ़ कह दिया; अब कर्तव्य के निर्णय करने का भार आप ही पर है ।

राजा—हाय ! हाय ! इतने दिनों के बाद कुल, शील और बल में यदि एक सुपात्र जुटा तो वह भी विकृताङ्ग । शकुनि !



भूमिका



कर्तव्य-पथ में अग्रसर होने के लिए भारतीयों को आदर्श के अनुकरण की आवश्यकता स्वयम् सिद्ध है। भारतीय-महिलाओं के लिए यह आवश्यकता उससे भी अधिक है। आदर्श का ज्ञान कराने के लिए साहित्य में जीवन-चरितों का बाहुल्य ही एक मात्र साधन है; पर हमारा हिन्दी-साहित्य क़रीब क़रीब इस विषय में कोरा ही है। हर्ष की बात है कि अब प्रकाशकों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित हुआ है। इंडियन प्रेस ने भी अभी अभी ईश्वर-चन्द्र विद्यासागर का जीवन-चरित हिन्दी में प्रकाशित करके बड़े उपकार का काम किया है। उन्नति के ये शुभ लक्षण हैं।

प्रस्तुत पुस्तिका भी उसी ढंग की है और उसी उद्देश्य को लक्ष्य करके लिखी गई है। गान्धारी का चरित सचमुच ही स्त्रियों के लिए आदर्श है। पति के नेत्रहीन होने पर गान्धारी ने आँखें रहते भी दृष्टि-सुख के उपभोग की परवाह न की; उसने अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली। स्वार्थ-त्याग की हद कर दी और पति-भक्ति की हद कर दी। हमारी गृहदेवियों की गान्धारी के इस चरित से शिक्षा लेनी चाहिए। हृदय में स्वार्थ-त्याग के भावों का उत्थान ही उन्नति का परिचायक है। आवश्यकता है कि हमारी

पाँचवाँ परिच्छेद ।

धर राजकुमार शकुनि, राजा सुबल और उनके मन्त्री में विवाह के लिए सलाह हो ही रही थी उधर अन्तःपुर में किसी ने ख़बर दे दी कि हस्तिनापुर के अन्धे राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ राजकुमारी गान्धारी का विवाह ठीक हो गया । यह ख़बर सुन कर राजकुटुम्बिनी स्त्रियों में एक प्रकार का आन्दोलन होने लगा । किसी ने कहा, “राजा ने यह क्या किया ? इस तरह सोने की मूरत को एक अन्धे के हाथ में क्यों दे दिया ?” किसी ने कहा, “यह तो होना ही था । जब दूर दूर के बड़े बड़े घरों से विवाह का संदेशा आया, और राजा-रानी किसी के मन में बात न बैठी, तो फिर और होता ही क्या ?” किसी ने कहा, “कुछ भी हो, वंश बड़ा अच्छा है ।” फिर किसी ने कहा कि “कुछ भी हो हमें क्या मतलब ? जिनकी लड़की है वे उसे अन्धे कुँवे में फेंक दे तो हमारा क्या ?”

धीरे धीरे यह बात वहाँ भी पहुँची जहाँ गान्धारी रहती थी । उसकी एक प्रिय सखी मुँह लटकाये हुए आई और उससे बोली:—

गृहदेवियों के हृदयों में स्वार्थ-त्याग का अङ्कुर जमे और वह फूले फले । हमारी गृहदेवियाँ ही भावी सन्तति की जननी हैं, यदि उनका हृदय स्वार्थ-हीन होगा तो निस्सन्देह उनके सुपूतों का हृदय भी स्वार्थ-त्याग की ओर झुकेगा, यदि वे अपने पति पर अविचल भक्ति का आदर्श अपने नेत्रों के सामने रखेंगी तो हमारी बहिनें भी निस्सन्देह उसी पथ की ओर कदम बढ़ायेंगी ।

मैं निस्संकोच भाव से कहूँगा कि चरित को मनोरञ्जक बनाने में लेखक को अच्छी सफलता हुई है । भाषा भी सरल और स्त्रियों की समझ में आने के योग्य है । लेखन-शैली के विषय में मैं अधिक कहना नहीं चाहता, क्योंकि चाहे स्नेह से हो, चाहे कथानक की रोचकता के कारण हो, लेखक के लिखने का ढँग मुझे बहुत पसन्द है ।

आशा है कि इसे हमारी गृह-देवियाँ अपने काम की वस्तु समझ कर अपनायेंगी ।

रहवाँ राज्य
ज़िला रायबरेली
वसन्त-पञ्चमी १-६७३

(ठाकुर) जगन्नाथबख्शसिंह
ताल्लुकदार ।

दिन अधिक अधिक प्रसन्न और सन्तुष्ट रहने लगे । उसने अपने गुरुजनों की सेवा में कभी क्रोर-कसर नहीं की । भीष्म और विदुर को उसने अपने व्यवहारों से प्रसन्न कर लिया । उसने कभी किसी से द्वेष नहीं किया और उससे कभी कोई अप्रसन्न नहीं हुआ ।

भीष्म ने राजकुमार शकुनि की बड़ी खातिर की । उन्होंने गान्धार राज्य के युवराज को थोड़े दिनों हस्तिनापुर में प्रसन्नतापूर्वक रक्खा और फिर उनकी इच्छानुसार उनका यथोचित सत्कार करके विदा किया । शकुनि इस सम्बन्ध से पहले ही प्रसन्न थे, पर हस्तिनापुर में कुछ दिन रह कर वहाँ का विभव और भीष्मादिक का बर्ताव देख कर वे और भी पुलकित हुए ।

वक्तव्य ।

सके पास श्रेष्ठ विचार नहीं उसे लेखनी उठाने का अधिकार नहीं," लेखक इस बात को जानता है। फिर भी प्रस्तुत पुस्तिका लिख कर उसने ऐसी ढिठाई क्यों की? इसी विषय में उसे कुछ कहना है, यही उसका वक्तव्य है।

पुस्तकें समाज में उन्नति विचार फैलाने के लक्ष्य से लिखी जाती हैं, समाज के सामने अच्छे अच्छे चित्र उपस्थित करने के उद्देश्य से उनकी रचना की जाती है। वही लक्ष्य और वही उद्देश्य सामने रख कर लेखक ने भी यह छोटी सी पुस्तक लिखी है। उद्देश्य की रक्षा वह कहां तक कर सका है? यह उसे मालूम नहीं, पर पुस्तक लिखते समय लक्ष्य उसका उच्च रहा है, इसे कहने में भी उसे संकोच नहीं।

प्रस्तुत पुस्तिका शिरसा वंद्य महाभारत के सहारे लिखी गई है। महाभारत का आदर्श कितना उच्च है, इसके कहने की आवश्यकता ही नहीं। महाभारत हिन्दू-समाज का जीवात्मा कहलाने योग्य है। महाभारत ही में पतिव्रता गान्धारी का भी जीवन है। वह जीवन भारतीय देवियों के लिए सर्वथा शिक्षा-

आठवाँ परिच्छेद ।

धर राजर्षि पाण्डु भी जंगल में अपने पुत्रों का मुँह
इ देख प्रसन्न होते और आनन्द से रहते थे ।
ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें हस्तिनापुर के समाचार भी
मिलते रहते और वे स्वयं भी अपने समाचार वहाँ भेजते रहते ।

एक बार वसन्त ऋतु में माद्री को साथ लेकर वन की सैर
करने के लिए वे बाहर निकले । उस समय टेसू फूल रहा था,
आमों में बौर लगे थे, जगह जगह सरोवरों में फूले हुए कमलों
की सुगन्धि से दिशाये सुगन्धित हो रही थीं । वन की ऐसी
शोभा देख कर वे बहुत पुलकित हुए । उनके मन में वासना
उत्पन्न हो गई और वे अपने व्रत को भूल गये । अचानक उनकी
मृत्यु हो गई । विधाता की लीला !

पति की यह गति देख कर माद्री जोर जोर से रोने लगी ।
उसका रोना सुन कर उसके दोनों पुत्र, कुन्ती के तीनों पुत्र
और कुन्ती वहाँ आई । कुन्ती को भी बड़ा शोक हुआ, पर हो
ही क्या सकता था ? परमेश्वर की मरजी में क्या चारा ?

निदान माद्री ने अपने पुत्रों को कुन्ती को सौंप कर कहा
कि तुम इनका भी अपने ही पुत्रों की तरह लालन-पालन
करना । मैं स्वामी के साथ ही सती हो जाऊँगी । पहले तो कुन्ती

प्रद है । भारतीय स्त्रियाँ उस जीवन से पातिव्रत्य, धर्मपरायणता, अतिथि-सेवा, क्षमा, सार्वजनीन प्रेम, धैर्य, शील, शान्ति और सुख इत्यादि के सम्बन्ध में बहुत कुछ सीख सकती हैं ।

हिन्दू आदर्श को अक्षुण्ण रख कर हमारी महिलायें, जिनसे आनन्द और उपदेश पा सके, ऐसी पुस्तकें हिन्दी में बहुत कम हैं । लेखक ने प्रस्तुत पुस्तिका में पतिव्रता गान्धारी का सिलसिले-वार चरित्र इसी त्रुटि को, किसी न किसी परिमाण में, दूर करने की प्रेरणा से लिखा है । उसने वर्तमान हिन्दू-समाज और और वर्तमान सभ्यता पर दृष्टि रख कर ही लेखनी चलाई है । पर यदि किसी सज्जन को किसी स्थल पर कोई बात विरुद्ध दिखाई दे तो वे उस पर अधिक ध्यान न दें । लेखक उनसे सविनय प्रार्थी है कि लेखक का इसमें कुछ वंश नहीं; उसे एक मान्य ग्रन्थ का सहारा लेकर चलना था । अपनी कल्पना मिला कर किसी प्राचीन आदर्श पर धब्बे डालना अथवा काँट छाँट करके सच्चे रूप को विगाड़ देना (या अपने मन के अनुसार गढ़ देना) उसने उचित नहीं समझा । ऐसी कल्पना का संमिश्रण किस काम का जिससे मूल आदर्श में बट्टा लगे । फिर भी कहीं कहीं मूल आदर्श की रक्षा करते हुए कल्पना का जो समाश्रय लिया गया है उसे लेखक स्पष्टतया स्वीकार करता है ।

जिस सभ्यता में तथा जिस समय गान्धारी का जन्म हुआ था उस समय समाज के नियम और ही कुछ थे; उस समय समाज में और ही सिद्धान्त प्रचलित थे । उनका भी दिग्दर्शन

दसवाँ परिच्छेद ।

धाता की लीला बड़ी विचित्र है । वह किस समय
वि क्या करता है यह किसी को मालूम नहीं ।
जिस तरह कल्पना किये बिना ही दुःख आकर
मनुष्य को प्राप्त होते हैं, वही हाल सुखों का भी है । न दुःख
मिलते देर लगती है न सुख मिलते ।

अब तक पाण्डव बेचारे दुःख ही भोगते रहे । लड़कपन
ही में पिता की मृत्यु, कौरवों का अत्याचार, निराश्रय होकर
जङ्गल जङ्गल घूमना यही सब कुछ वे सहते रहे । पर अब
सहसा उनके भी भाग्य का सितारा चमकता है । दुःख की
बदली अपने हट जाने की सूचना देती है और सुख के चन्द्रमा
की किरणें अपना प्रकाश फैलाने का रङ्ग जमाती हैं ।

एक दिन प्रातःकाल का समय था । कुन्ती के साथ पाण्डव
लोग जङ्गल में जा रहे थे । मन्द मन्द वायु उनके शरीर में लग
कर उन्हें सुखी कर रही थी । यकायक रास्ते में उन्हें बहुत से
ब्राह्मण मिले जो स्वयंवर देखने जा रहे थे । ब्राह्मणों ने पाण्डवों
को भी अपने ही समान ब्राह्मण समझ कर कहा:—

तुम लोग हमारे साथ पाञ्चाल देश को चलो । वहाँ पर
एक विचित्र उत्सव होने वाला है । राजा द्रुपद की कमलनयनी

कराने की चेष्टा की गई है । समाज के नियमों में सदा परिवर्तन होता रहता है, इसीसे आज कल समाज के नियम और ही कुछ हैं । पर कुछ भी हो प्राचीन आदर्शों से समुचित शिक्षा ग्रहण करना ही उन्नत पथ पर जाने के लिए यथेष्ट साधन है ।

ईश्वर करे भारत में फिर वैसी ही पतिव्रता, धर्मपरायणा और सुशीला रमणियाँ पैदा हों जैसी पतिव्रता गान्धारी थी । पति-सेवा को ही मुख्य धर्म मान कर वे पति को सुखी करें और इस गृहस्थी के जीवन को सोने का संसार बनाये रहें ।

जिनके लिए यह पुस्तक लिखी गई है, उनका इससे कुछ न कुछ उपकार हो, यही आन्तरिक कामना है ।

मैं अपने कृपाकारक मित्र, हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि श्रीयुत चावू मैथिलीशरण जी गुप्त को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपनी अमूल्य सम्मतियों से मुझे कृतकृत्य किया है ।

कुरी सुदौली राज्य,
 जिला रायवरेली
 नाग-पंचमी संवत् १९७३

फात्यायनीदत्त त्रिवेदी ।



बेटी ! इस घोर दुःख में व्याकुल न होना । तुम खुद ही समझदार हो, तुम्हें हम क्या समझावें । जाओ ! अपने पतियों के साथ तुम बे-खटक जाओ ! तुम्हारा कल्याण हो ।

विदुर की सलाह से महाराज युधिष्ठिर ने माता कुन्ती को उनके घर में छोड़ दिया और द्रौपदी को साथ लेकर भाइयों के समेत वे वन को जाने लगे ।

उन्हें इस तरह दीन-भाव से वन जाते हुए देख कर दुःशासन इत्यादि मर्म-भेदी वाक्य कहने लगे । दुःशासन ने ताने से द्रौपदी से कहा:—

हे द्रौपदी ! तुमको तो इन्द्रप्रस्थ का नया महल बहुत प्यारा है, वह तुम्हारे ही योग्य बना है । उसे छोड़ कर तुम कहाँ जाओगी । हम में से तुम किसी को अपना पति बना लो, जो तुम्हें कभी जुए में भी न हारे और तुम्हारे साथ उसी महल में रहे ।

बदले की आग बड़ी बुरी होती है । बदला लेने ही की जलन से दुःशासन ने ये वाक्य कहे थे । द्रौपदी ने इन्द्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ के अवसर पर कौरवों की जो हँसी की थी उसी का यह बदला था ।

पर भीमसेन को इन लोगों की इस प्रकार की बातें बड़ी बुरी लगें । वे बड़े अभिमानी थे, उन्होंने कहा:—

तुम लोगों की बातों का इस समय उत्तर देना वृथा है । तुम जो चाहो कहो । पर याद रखो कि वन से लौटने पर

सम्भव है—इस पृथ्वी पर कुमातायें जन्म नहीं लेतीं । माता के हृदय में उद्दण्ड से उद्दण्ड पुत्र के लिए भी स्थान रहता है, वह उससे भी प्रेम करती है । इसी पुत्र-स्नेह के वश होकर तुमने भी अपने उद्दण्ड पुत्रों की प्रीति नहीं छोड़ी; तुमने उनके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना की । पर तुम्हारे पुत्र जिन्हें सदा ही अपना शत्रु मानते रहे, उन्हीं कुन्ती और माद्री के पुत्रों पर से भी तुमने स्नेह नहीं हटाया । तुमने उनके भी कल्याण की कामना की । अपने पुत्रों का दोष जान कर निरपराधी पाण्डवों की कल्याणमयी चिन्ता करके तुमने अपने नाम और यश दोनों को अमर कर दिया । दुराचारी दुर्योधन अपने जीते जी इतने सुख और ऐश्वर्य का मालिक बना रहा, वह तुम्हारे ही पुण्य के प्रभाव से, और तुम्हारी ही इस कल्याणमयी चिन्ता की बदौलत । देवि ! गान्धारी ! यदि तुम्हारे धर्म में बल न होता, यदि तुम्हारा पुण्य इतना ज़बरदस्त न होता तो तुम्हारे उन दुराचारी पुत्रों की न जाने क्या दशा होती ? वे सताये हुए लोगों की आहों से जल जाते और बड़े लोगों के अपमान के फल से वे कभी चैन न पाते । पर तुम्हारी ही कल्याणमयी चिन्ता ने बहुत दिनों तक उनका बाल भी बाँका न होने दिया ।

सच तो यों है कि उन्हें जो कुछ भी सुख और ऐश्वर्य मिला वह तुम सरीखी माता के पुत्र होने के कारण, और तुम्हारे पुण्य कर्मों की बदौलत; और उन्हें जो कुछ भी दुःख और शोक हुआ वह उन्हीं के घोर अत्याचारों और बुरे कामों

पतिव्रता गान्धारी

पहला परिच्छेद ।

भारतवर्ष सचमुच ही प्रकृति देवी का लीला-निकेतन है । यहाँ पर प्रकृति देवी ने बड़ी बड़ी लीलाएँ रची हैं । इसी भूमि पर और इसी देश में बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया, तपस्वियों ने तपस्साधन किया, और कर्मवीरों ने अपनी कर्मवीरता का परिचय दिया है । इसी भूमि पर पतिव्रताओं ने पति-सेवा को ही परम धर्म मान कर अक्षय्य यश प्राप्त किया है और इसी भूमि पर क्षत्रिय राजाओं ने प्रजा-पालन करके अपना नाम अमर किया है ।

द्वापर युग के अन्त में जिस समय भारत के सच्चे सम्राट्

कृष्ण को मालूम है । इससे केवल कृष्ण पर भरोसा करके उन्होंने अन्य राजाओं के पास निमन्त्रण भेजा । अर्जुन स्वयम् ही श्री कृष्ण के पास द्वारका दौड़े गये ।

इधर दुर्योधन के जासूस पाण्डवों का पता ही लगा रहे थे । उन्होंने इन बातों की खबर दुर्योधन को दी । दुर्योधन ने यह सुनते ही एक तेज़ घोड़े पर सवार हो कर द्वारका को प्रस्थान किया और साथ ही साथ अपने मन्त्रियों को आज्ञा दी कि सब राजाओं के पास रण-निमन्त्रण भेजा जाय । फल यह हुआ कि अर्जुन और दुर्योधन साथ ही द्वारका पहुँचे । उस समय श्रीकृष्ण-चन्द्र सो रहे थे । उनके शयन-गृह में भी स्वार्थवश दोनों चले गये । वहाँ पहुँच कर अर्जुन पलंग के पैताने की ओर बैठे और दुर्योधन सिरहाने की ओर ।

ज्यों ही श्रीकृष्ण की नींद खुली त्यों ही सामने पड़ने के कारण पहले उन्होंने अर्जुन को देखा फिर दुर्योधन को । दोनों ही ने अपनी अपनी बात कह सुनाई ।

कृष्ण बड़े चतुर थे । अर्जुन का पक्ष लेना ही उन्हें प्रिय था । इससे उन्होंने बात बना कर कहा:—

हे सुयोधन ! हमने अर्जुन को पहले देखा है, पर आप कहते हैं कि आप पहले आये हैं । इससे हमने यह निश्चय किया है कि हम दोनों की सहायता करेंगे । हमारे पास दस करोड़ नारायणी सेना है । एक ओर वह होगी दूसरी ओर अकेले हम;

भरत के वंश में शन्तनु-पुत्र भीष्म की सहायता और उपदेश से हस्तिनापुर के राज-सिंहासन पर बैठ कर उनके सौतेले भाई महाराज विचित्र-वीर्य राजकाज चलाते थे उस समय राजा सुबल गान्धार राज्य के अधिपति थे । सिन्धु नदी के पश्चिम किनारे से जो भूमि-भाग क्रमशः उच्च होकर उत्तर पश्चिम की ओर सफेद कोह तक फैला हुआ है यही उस समय गान्धार राज्य के नाम से प्रसिद्ध था, और गान्धार ही का एक छोटा सा भाग आज कल भी कंधार के नाम से मशहूर है ।

राजा सुबल के राज्य में गान्धार की विचित्र शोभा थी । वहाँ के अनाज के खेतों और अमृतोपम सुरसाल फलों से परिपूर्ण बागों को देख कर यही ज्ञात होता था कि मानो लक्ष्मीजी ने इसी भूमि-भाग को अपना विहार-स्थल बनाया है । जाड़े का आरम्भ होते ही वहाँ के पहाड़ों की चोटियाँ सफेद बरफ से ढक जातीं और एक प्रतिभाशाली कवि चाँदो के पर्वत से उनकी उपमा दे देता । वसन्त के आते ही इधर उधर की लताएँ रमणीयता का रूप धारण करतीं, कुञ्जों में अजीब छटा छा जाती और श्याम शोभा देखने वालों के नयनों को स्निग्ध करने लगती । ग्रीष्म के आरम्भ होते ही समस्त प्रदेश फूले हुए अनारों के फूलों की लालिमा से रँग जाता और फिर उन्हीं वृक्षों की डालियाँ वर्षा में अपनी गोद में धुले धुलाये फल लिये हुए बड़ी प्यारी लगतीं । कन्धार का अनार सचमुच ही अमृत-तुल्य होता है, भारत में अब भी फल बेचने वाले कन्धार के नाम से ही

पहुँचने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि श्रीकृष्णजी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं । उन्होंने कहा:—

वत्स श्रीकृष्ण ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम कौरव-वंश के कल्याण के लिए जो प्रयत्न कर रहे हो, वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य है । तुम्हें ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे चन्द्रवंशियों की पताका इस पुरी में फहराती ही रहे ।

श्रीकृष्ण ने चतुरता भरे वचनों में कहा:—

देवि ! तुम्हारी वाणी सफल हो । मेरी भी यही इच्छा है कि हस्तिनापुर में चन्द्रवंशियों के प्रकृत अधिकारियों का ही राज्य रहे । (कृष्ण के इस कहने का यही आशय था कि इस राज्य के प्रकृत अधिकारी तो राजा युधिष्ठिर हैं और उन्हें राज्य दिलाना ही हमारा अभीष्ट है ।)

गान्धारी ने फिर कहा:—

श्रीकृष्ण ! तुम्हारी शक्ति मैं जानती हूँ, तुम्हारी नीति भी मुझ पर अविदित नहीं है । मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि तुम चेष्टा करोगे तो अवश्य ही दोनों पक्षों में सन्धि हो जायगी ।

श्रीकृष्ण ने फिर चतुराई की चाल चली; उन्होंने कहा:—

देवि ! तुम्हारा कहना सच है । पर मैं भी इस समय सच ही कहता हूँ कि मैंने सन्धि की चेष्टा ही से यहाँ आकर दुर्योधन को समझाने का भार लिया था; पर जब दुर्योधन को मेरा कहना किसी भाँति भी स्वीकार नहीं, तो मुझे उस हठी को

देशी अनारों के दाम दूने कर लेते हैं । वर्षा वीतते ही, उसके बाद आने वाली ऋतुओं में वहाँ के गृहस्थों के घर, वागोचे और वन अंगूरों के गुच्छों से भरे रहते । किसी मीठी चीज़ की मिठाई की उपमा जिन द्राक्षा-फलों (अंगूरों) से दी जाती है वे गान्धार ही में पैदा होते हैं, अन्यथा आज कल के भारत के वागोचों के अधिकांश द्राक्षा-फल तो साक्षात् खट्टेपन का अवतार ही होते हैं ।

आज कल भारतीय शहरों के रहने वालों को प्राकृतिक शोभा बहुत कम दिखाई पड़ती है, प्रकृति की छटा के दर्शन उन्हें देव-दर्शनों के समान दुर्लभ रहते हैं । वे नित्य प्रति पत्थर के कोयले से चलने वाले इञ्जनों की विकट गर्जना अवश्य सुनते हैं, पर पहाड़ों और जङ्गलों में रहने वाले बाघ और सिंहों की गर्जना सुनना उन्हें स्वप्न में भी नसीब नहीं । वे ऊँचे ऊँचे मकानों और शोर-गुल से भरी हुई सड़कों पर लट्टू रहते हैं, पर ऊँची चोटी वाले पर्वतों और निर्जन, शान्त, लम्बे चौड़े मैदानों के देखने के लिए कल्पना का सहारा भी नहीं ले पाते । यहाँ के शहराती जिस प्राकृतिक छटा के देखने के लिए ललचाते रहते हैं वही प्रकृति की सच्ची छटा और अनुपम शोभा गान्धार-निवासियों के नेत्रों के सामने एक विचित्र रूप धारण किये हुए प्रति-क्षण नाचा करती थी । अहा ! गान्धार प्रदेश के जन-हीन बड़े बड़े मैदानों, चारों ओर फैले हुए वनों, आसमान से बातें करने वाली पर्वतों की चोटियों और कपोत-कूजित जङ्गलों के कारण

गान्धारी ने फिर कहा:—“हाँ जानती हूँ कि अब इस समय उसे ज़बरदस्ती रोकना आपकी शक्ति से परे है, पर यह भी जानती हूँ कि आपका अनुचित पुत्रस्नेह इसका कारण है। वही अनुचित स्नेह ही तो आज उसी पुत्र का अनिष्ट-कारी हो रहा है। पिता को और माता को सदा यही उचित है कि वह सन्तान को उद्वण्ड न होने दे। क्या आपने कभी भी ऐसा यत्न किया है ?”

गान्धारी के इन वाक्यों में बल था। महाराज धृतराष्ट्र सच-मुच ही अनुचित पुत्रस्नेह करने के दोषी थे, इससे उन्हें चुप रहना ही उचित समझ पड़ा।

इसके बाद माता की आज्ञा से दुर्योधन फिर आकर उपस्थित हुए। गान्धारी ने उनसे कहा:—

बेटा ! इस समय हम तुम्हारी निन्दा करें या तुम्हारे होनहार की; अथवा हम अपनी ही निन्दा करें जिनसे तुम्हारे ऊपर समुचित शासन करने में त्रुटि हुई है। तुम्हारी पापवृत्ति जान कर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें जो राज्य-भार दिया है, सच मुच ही यह एक ऐसा पाप हुआ है कि उसका प्रायश्चित्त बड़ा ही कठिन है। तुम क्रोध और लोभ के पञ्जे में इस तरह जकड़ गये हो कि उससे तुम्हारी रक्षा करने में तुम्हारे पिता का कोई वश नहीं चलता। यदि उनका कुछ भी वश चले तो वे प्राण-पण से तुम्हारा उद्धार करने के लिए तैयार हो जायँ। और मेरे लिए तुम जानते ही हो कि यदि जीवन-दान देकर भी मैं

हम उस प्रदेश को क्या कहें ? उसे स्वप्न-रचना कहें या स्वर्ग-भूमि ? प्रकृति देवी का क्रीड़ा-स्थल कहें या पवित्रता का शयन-मन्दिर ?

राज्य-निवासियों के सुख के लिए योग्य और नीति-कुशल मन्त्रियों की सलाह से राजा सुबल ने सब भाँति की सुविधाएँ कर दी थीं । जैसे सूर्य-देव पृथ्वी पर इधर उधर फैले हुए जल को अपनी किरणों से खींच कर फिर यथासमय वृष्टि-द्वारा वही जल उसके उपभोग के लिए दे देते हैं, इसी भाँति राजा सुबल के मन्त्री जन भी प्रजा-गण से लगान अथवा कर लेकर उन्हीं के लाभदायक कार्यों में लगा देते थे । अधिक क्या कहा जाय, गान्धार राज्य की प्रजा सुख से अपने दिन बिताती हुई अपने शासक की मङ्गल-कामना के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती और राज्य में घर घर आनन्द की बधाइयाँ बजती थीं । वहाँ के निवासी उन दिनों सन्तोष की प्रतिमूर्ति हो रहे थे । उनकी स्त्रियों की मधुर कण्ठध्वनि और सरल हँसी से दिशाएँ गूँज उठतीं और वे रमणियाँ स्वाधीनता की पवित्र मूर्तियाँ ज्ञात होती थीं । वे सोने चाँदी के गहनों के लिए अपने पतियों से स्वप्न में भी रुठना न जानतीं और केवल फूलों के गहने पहन कर भी इसी पृथ्वीतल पर देवलोक की स्त्रियों का सा आनन्द प्राप्त करती थीं अपने पतियों और बड़े जनों की सेवा करके, अपनी सास, ननद और अन्य बहिनों का आदर करके, अपने पुत्र, पुत्रियों, और पतोहुओं से प्रीति करके वे जंजालमयी गृहस्थी को

पन्द्रहवाँ परिच्छेद ।



रुक्षेत्र के मैदान में सात ही दिन के बाद वाण-
वर्षा होने लगी । परस्पर बन्धुओं में तुमुल
युद्ध आरम्भ हो गया । युद्ध के लिए दोनों
दल पहले ही से तैयार थे । इसी से समर के
श्रीगणेश होने में देर न लगी । भाई से भाई,
गुरु से शिष्य, मित्र से मित्र और बूढ़े से बालक भिड़ गये । उनके
बीच में अब पुराना भाव शेष न रहा; एक पक्ष वाले लोगों को
दूसरे पक्ष वालों ने शत्रु ही की दृष्टि से देखा और उन लोगों ने
प्रतिज्ञा की कि अपने पक्ष की जय के लिए प्राण तक न्योछावर
कर देंगे । भीष्म, द्रोण, शल्य, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य,
जयद्रथ इत्यादि धनुर्धर दुर्योधन की ओर से लड़ने को तैयार हो
गये । दूसरी ओर भी सात्यकि, धृष्टद्युम्न, द्रुपद, विराट इत्यादि
अगणित धनुर्धर रण का साज साजने लगे । कौरवों की ओर से
प्रधान सेनापति के पद पर महात्मा देवव्रत भीष्म निर्वाचित
हुए, और पाण्डवों की सेना के प्रधान सेनानी धृष्टद्युम्न बने ।

जिस भाँति रणक्षेत्र को जाने के पहले महात्मा युधिष्ठिर ने
अपनी माता कुन्ती देवी से विदा माँगी और उन्होंने कहा कि
जाओ पुत्र ! तुम्हारी जीत हो । उसी भाँति समर-साज साजे

भी सोने का संसार बनाये रहती थीं । वे इस बात को प्रत्यक्ष कर दिखाती थीं कि स्त्रियाँ चाहें तो अपने शील से इस संसार को ही स्वर्ग बना सकती हैं । अलम् विस्तरेण, उस समय राज्य का राज्य सुख के गीत गा रहा था और सब कहीं शान्ति की वधाई वजती थी ।



लिया था—पर मातृ-स्नेह बड़ा कठिन है, पुत्र पर माता की ममता के आगे धर्म और सहिष्णुता सभी को नीचा देखना पड़ता है। माता अपने कुचाली और पापी पुत्रों के लिए भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि उनका कल्याण हो और किसी काम में उनका पैर पीछे न पड़े। यही हाल पति-सेवा-परायणा गान्धारी का था; उन्होंने भी अपने पुत्रों की कल्याण-कामना की और उनके मङ्गल के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। पर पवित्रतामयी देवी ने स्वप्न में भी इस इच्छा को स्थान नहीं दिया कि उनके पुत्रों के कल्याण होने के लिए विपत्ती पाण्डवों का नाश हो जाय। स्वार्थ के लिए संसार-क्षेत्र में विचरण करने वाले प्राणियों का चित्त विचलित हो जाता है और वे अपने विपत्तियों के विनाश की कामना करते हैं। शास्त्रकारों का कथन है कि अपने स्वार्थ के लिए भी किसी के अकल्याण के हेतु चिन्ता करना अच्छा नहीं। उदार और ऊँचे हृदय वाले प्राणी अपने कल्याण के लिए दयामय ईश्वर से अवश्य विनय करते हैं, पर किसी के अशुभ की कामना को वे पाप से भी अधिक समझते हैं। इसी से कहना पड़ता है कि देवि ! गान्धारी ! तुम धन्य हो ! तुमने अपने पुत्रों की कल्याण कामना करके जिस भाँति एक सच्ची माता का आदर्श दिखाया है, उसी भाँति कुन्ती के पुत्रों के अनिष्ट की कामना से दूर रह कर तुमने एक आदर्श रमणी का आदर्श उपस्थित किया है। इसी से तो तुम्हारा नाम आज तक अजर अमर है।

दूसरा परिच्छेद ।



था-समय राजा सुबल की पटरानी के गर्भ से एक राजकुमार और एक राजकुमारी ने जन्म ग्रहण किया । राजकुमार का नाम था शकुनि और राजकुमारी का नाम गान्धारी । गान्धार राज्य की राजपुत्री का नाम गान्धारी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं, पर वहाँ के राजकुमार का नाम शकुनि होना आश्चर्य-रहित भी नहीं । शायद आकृति और प्रकृति में शकुनि* पत्नी के साथ राजकुमार की सदृशता होने के कारण ही लोग उन्हें शकुनि कहते हों । कुछ भी हो, राजकुमार की प्रकृति सचमुच ही शकुनि पत्नी की प्रकृति से मिलती जुलती थी । महाभारत के इतिहास में उनकी प्रकृति का परिचय कई जगह पाया जाता है । शकुनि ही की तरह उनकी दृष्टि बड़ी तेज़ थी और जिस तरह शकुनि पत्नी तमाम सांसारिक वस्तुओं पर लात मार कर केवल मुर्दे ही पर प्रीति करता है उसी तरह राजकुमार शकुनि भी तमाम सांसारिक कार्यों को छोड़ कर केवल लोगों के अनिष्ट करने ही में सुख मानते थे । लड़कपन ही से उनकी कूट बुद्धि अपना रङ्ग जमाने लगी, उन पर अच्छे

* गृह पत्नी ।

इतने दिनों जङ्गल में रहने के बाद उन्हें यह सुख मिला है, इसी का वे उपभोग कर रही हैं। वे वीर-कन्या हैं, अपने वीर पति अर्जुन की वाणावली का स्मरण करके आनन्द-निमग्न हो रही होंगी।

यह कह कर ही भानुमती ने देखा कि उसके रथ के बराबर ही दूसरा रथ उसी सज धज से जा रहा है। भानुमती ने द्रौपदी को देख कर मस्तक झुकाया, पर कृष्णा (द्रौपदी) सखियों के साथ हँसने और आमोद प्रमोद करने में सचमुच ही व्यस्त थी, वह सचमुच ही भानुमती की नकल कर रही थी। इस वार भानुमती के नेत्रों ने भी वह छटा देख ली जिसके विषय में उसकी सखी ने उससे कहा था। भानुमती ने देखा कि पाञ्चाल-पुत्री की वेणी खुली हुई है—फिर भी उसके चेहरे पर ज्योति जगमगा रही है। वह सखियों के बीच में बैठी है; एका-एक उसने फिर आंखें बन्द कर लीं, थोड़ी ही देर में उसकी सखी नकल करती हुई कहने लगी,—देवी भानुमती ! शोच न करो, महाराज दुर्योधन यदि रण-क्षेत्र में हार भी जायेंगे तो भी महाराज युधिष्ठिर के सामने हाथ जोड़ने पर ही अपने सब अपराधों से छुट्टी पा सकते हैं। महाराज युधिष्ठिर बड़े क्षमा-शील हैं।” इस पर दूसरी सखी ने कहा:—“पर महाराज अर्जुन के वाण और महाराज भीमसेन की गदा जब इस तरह का अवसर आने दे तब न—अरी ! माफी माँगने की नौबत ही क्यों आवेगी ?” यह सुन कर द्रौपदी खिल खिला कर हँस पड़ी।

अच्छे योग्य शिक्षकों की शिक्षा का कुछ भी प्रभाव न पड़ा, सच है स्वभाव भी मनुष्यों के साथ माता के गर्भ से ही उत्पन्न होता है और मरने के समय तक साथ ही रहता है । वे साथ के खेलने वाले सखाओं को भी धोखा देकर पीड़ित करने लगे और धीरे धीरे उनकी इस बुद्धि की वृद्धि ही होती गई। राज-कर्म-चारियों ने भी समझ लिया कि राजकुमार से किसी का भला न होगा । कुछ स्पष्ट-भापी मन्त्रियों ने तो राजा सुवल से राज-कुमार के चरित्र-सुधार के लिए यत्न करने की प्रार्थना की; पर कुछ खुशामदी लोगों ने राजकुमार को प्रसन्न रखने के लिए यही कहा कि “राजपुत्र की जैसी तीव्र बुद्धि है उससे यही आशा की जाती है कि वे थोड़े ही दिनों में एक असाधारण राजनीतिज्ञ होंगे ।

खुशामदी लोग समझते थे कि वे राजकुमार की प्रशंसा करके कुछ लाभ उठा सकेंगे पर कूट-बुद्धि शकुनि पर उनका क्या असर हो सकता था । वह उन खुशामदियों को भी मौके मौके पर नीचा दिखा कर प्रत्यक्ष कर देता था कि कौड़ियों के मोल आत्मिक बल को बेचने वाले लोगों के कार्यों का यही प्रतिफल है ।

अपने शुभाकांक्षी मित्रों की अनुमति से राजा ने शकुनि के चरित्र-सुधार की बड़ी चेष्टा की, पर बेकार ! जिस भाँति प्रबल धारा से बहती हुई नदी के वेग को नौकाओं की कतारों से बँधे हुए पुल नहीं रोक सकते, अथवा जिस भाँति नाड़ी-त्रय

उसकी सखियाँ भी हँस पड़ीं। उनके हास्य ने मानो यह कह दिया कि सब के दिन समान नहीं रहते।

भानुमती को अब कुछ समझना शेष न रहा, पर फिर भी उसने धैर्य न छोड़ा। अपना ही परिहास और अपनी ही नकल देख सुन कर भी उसने दुबारा द्रौपदी के सामने मस्तक झुकाया।

द्रौपदी ने भी जवाब में मस्तक झुका दिया। यही द्रौपदी की ओर से मानो भानुमती के प्रणाम का आशीर्वाद था। फिर द्रौपदी ने कहा:—

भानुमती ! क्या अपनी सास गान्धारी देवी की तरह तुम भी आँखें बन्द कर पति-पद में लीन रहती हो। कहो, अच्छी तो रहती हो, कहाँ जा रही हो।

द्रौपदी की इन ताने भरी बातों से भानुमती को बड़ा दुःख हुआ। उसे द्रौपदी की वह बात भी याद आ गई, जिसके द्वारा इन्द्रप्रस्थ के राजसूय यज्ञ में द्रौपदी ने दुर्योधन की हँसी की थी। भानुमती ने मन ही मन कहा, “द्रौपदी ! तुम्हारी इन्हीं ताने भरी बातों ने तो मेरे पति को भी तुम्हारे पतियों का शत्रु बनाया। तो क्या तुम्हारे ताने ही इस महाभारत का प्रकृत कारण हैं ?”

इसके अनन्तर भानुमती ने द्रौपदी से खुल्लम खुल्ला कहा:—

बहिन ! मेरी कुशल का हाल तुम क्या पूँछ रही हो, मैं तो अभी तक दुःखी ही थी, तुम्हारे जङ्गल के दुःखों का हाल सुन कर मैं आँसू ही बहाती रही। तुम्हारी खुली बेयी की बात

(नासूर) के रुधिर स्राव को दवाएँ नहीं रोक सकतीं उसी भाँति राजकुमार शकुनि के सहज स्वभाव के वेग को राजा सुबल और उनके मन्त्रियों की चेष्टाएँ किसी भाँति भी न रोक सकीं ।

फल यही हुआ कि राजकुमार शकुनि की कूट बुद्धि से लोग उकता गये और मन ही मन उनके उत्पातों से भयभीत होने लगे ।

पढ़ने लिखने में राजकुमार शकुनि की बुद्धि बड़ी तीव्र थी, इससे थोड़े ही दिनों में उन्होंने उचित शिक्षा प्राप्त कर ली । धनुर्विद्या और शस्त्र-शिक्षा में भी उन्होंने बड़ी योग्यता बढ़ाई और बड़े बड़े धनुर्दरों और युद्ध-कुशल योद्धाओं को छक्के छुटा दिये । उस समय राजपुत्रों को और शिक्षाओं के साथ साथ कुछ कुछ जुआ खेलना भी सिखलाया जाता था* । शकुनि की रुचि उस ओर बहुत अधिक थी । उन्होंने जुआ खेलने का यहाँ तक अभ्यास किया कि वे पक्के जुआरी ही नहीं बल्कि जुआरियों के उस्ताद बन गये । उन्होंने स्वयम् जुआ खेलने के पाँसे बनाये

*दुर्भाग्य ही से ऐसी प्रथा प्रचलित हुई समझिए । आज कल भी हम लोग दिवाली पर यह कह कर कि हानि से हमारा हृदय जिसमें विचलित न हो इस खेल को चलाये जाते हैं । पर इसी की कृपा से नल की जो दुर्दशा हुई वह प्रकट है । और क्यों, महाभारत के सर्पनाश का मूल भी हम इसी को कह सकते हैं । आज कल भी इस दोष के कारण लोगों को आत्महत्या तक करनी पड़ती है इत्यादि । लेखक ।

अकथनीय है । द्रौपदी इस भाँति अब उसी का बदला लेने के लिए दिल के फफोले फोड़ रही है । मैंने यह भी सुना है कि युद्ध के पहले जब पाण्डवों से कौरवों की सन्धि कराने को श्रीकृष्ण यहाँ को चलने लगे थे तब द्रौपदी ने उनसे कहा था कि “सन्धि के समय मेरे इन बालों की बात न भूल जाना ।” आज मैं तुमसे कहती हूँ कि द्रौपदी के वाक्यों के ही प्रभाव में पड़ कर श्रीकृष्ण ने सन्धि की पूरी कौशिश नहीं की । यदि वे पूरी चेष्टा करते तो मैं विश्वास-पूर्वक कह सकती हूँ कि अवश्य ही सन्धि हो जाती । और इस विकट समर के आयोजन में कौरव-पाण्डव दोनों का नाश न होता । अस्तु । पुत्रो ! तुम किसी के परिहास पर शोक न करो । तुमने द्रौपदी के साथ शिष्टता का जैसा बर्ताव किया है, एक उच्चकुल की रमणी के लिए ऐसा ही उचित था । ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे । तुम्हारा ऐसा बर्ताव सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हूँ । दूसरों का परिहास करने वालों का स्वयम् ईश्वर ही परिहास करने लगता है । तुम उसी जगदीश्वर पर विश्वास रखो । बेटी ! तुम अपने पति की कल्याणकामना करना, पर किसी की अकल्याणमयी चिन्ता में न लगना ।

धन्य देवी ! गान्धारी ! धन्य ! भारत में तुम सरीखी उपदेश देने वाली माताये कितनी हैं ? सच है, तुम्हारे उपदेशों में अमृत था ।

और उनके फेंकने में इतने अध्यवसाय से अभ्यास किया कि जैसे वे चाहते वैसे ही पाँसे वे फेंक सकते । दूर दूर देशों के प्रसिद्ध प्रसिद्ध जुआरियों को बुला कर उन्होंने उनके साथ जुआ खेला, उन जुआरियों ने भी जुए में राजकुमार की प्रधानता स्वीकार कर ली और उनसे खेल में हार मान ली; शकुनि ने उनका बड़ा सत्कार किया और उन्हें बहुत सा इनाम देकर विदा किया । धीरे धीरे अन्य देशों में भी यह बात प्रसिद्ध हो गई कि गान्धार देश के राजकुमार जुआ खेलने में बेजोड़ खिलाड़ी हैं । क्यों न हो मनुष्य में एक आध विशेषता तो होनी ही चाहिए ।

जब शकुनि युवावस्था को प्राप्त हुए और उनकी शिक्षा समाप्त हुई तब वे गान्धार राज्य के युवराज बनाये गये । विधिपूर्वक उनका तिलक किया गया और उसी दिन से वे राज्य के कार्यों को भी देखने लगे । मन्त्रियों को उनकी आज्ञा बिना कोई बड़ा काम करने का अधिकार न रहा, यहाँ तक कि उनके बूढ़े पिता राजा सुवल भी उनकी सम्मति के बिना कोई काम न कर सकते ।

लोग कहते हैं कि सगे भाइयों अथवा भाई-बहिनों की आकृति प्रकृति में कुछ न कुछ समानता अवश्य होती है । पर कहीं कहीं इसके विलकुल ही प्रतिकूल देखा जाता है । राजकुमार शकुनि और उनकी सहोदरा बहिन राजकुमारी गान्धारी की आकृति प्रकृति भी विलकुल विभिन्न थी । प्राचीन गान्धार की रमणियाँ अपने अनुपम रूप-लावण्य के लिए प्रसिद्ध थीं; किन्तु गान्धारी देवी की रूपच्छटा के सामने वे भी लजा जातीं ।

सोलहवाँ परिच्छेद ।

द्व-क्षेत्र से बाहर एक निर्जन स्थान पर एक बरगद
यु का वृक्ष अपनी शाखाओं को फैलाये हुए खड़ा
है । देखने से यही प्रतीत होता है कि यह एक
पुराना वृक्ष है, सैकड़ों पथिक इसकी छाया में विश्राम कर चुके
होंगे और सैकड़ों पत्नी इसकी शाखाओं में अब भी निवास करते
हैं । इसी की छाया में थोड़ी दूर पर दो रथ खड़े हुए हैं । वृक्ष के
नीचे सैनिक-वेश में एक युवक, एक नेत्रहीन मनुष्य, आंखों में
पट्टी बांधे हुए एक स्त्री और एक और मनुष्य ये चारों कुछ
कुछ दूर पर शिलाखण्डों पर बैठे हैं ।

इनके अधिक परिचय देने की हमें आवश्यकता न पड़ेगी ।
हमारे पाठक समझ गये होंगे कि सैनिक वेश में स्वयम् महाराज
दुर्योधन और उनके सामने उनकी माता गान्धारी, महाराज धृत-
राष्ट्र और महात्मा संजय हैं ।

थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा । सब के चेहरों पर विषाद
की धीमी रेखा झलक रही थी; सोच के कारण मनुष्यों में एक
प्रकार का जो गाम्भीर्य प्रायः देखा जाता है उसी का आभास
इनके चेहरों पर भी था । महात्मा संजय ने कहा:—

महाराज ! दुर्योधन ! हम सब आपके आश्रित हैं । अग-

के लिए असह्य था । दुर्योधन ने अपनी गदा सामने की ओर देख कर कहा—

माता ! अब मुझे आज्ञा दो । पापी भीम के ये वाक्य मुझसे सहे नहीं जा सकते । मैं अभी जाकर उस दुष्ट को उसकी उद्दण्डता का मज़ा चखाऊँगा ।

गान्धारी देवी ने देखा कि ईश्वरेच्छा ! सन्धि के लिए उनकी यह अन्तिम चेष्टा भी विफल होती है । तब वे बोलीं—

पुत्र ! यहाँ पर आकर भीमसेन तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकता । तुम निर्भय सन्धि के प्रस्ताव पर राजी हो जाओ ।

पर दुर्योधन ने कहा—“माता ! मुझे तुम अब यही आशीर्वाद दो कि रणक्षेत्र में मेरा शरीर वज्र का सा हो जाय, उस पर गदा या किसी दूसरे शस्त्र की चोट का कुछ भी असर न हो । और मुझे रणक्षेत्र में जाने की आज्ञा दो ।

गान्धारी ने देखा कि जब तक भीम की जान में जान है तब तक दुर्योधन भी सन्धि नहीं कर सकता । तब उन्हें पुत्रस्नेह ने धर दबाया । वे दुर्योधन की रक्षा के लिए व्याकुल हो उठीं । वे सोच ही रही थीं कि महाराज धृतराष्ट्र ने कहा:—

सौबलेयि ! दुर्योधन की रक्षा करो ।

यह सुन कर गान्धारी देवी ने कहा—“इतने दिनों से मैंने आँखों का पट नहीं खोला । पर वत्स ! दुर्योधन ! आज तुम्हारी रक्षा के लिए पट खोलती हूँ । तुम नङ्गे होकर मेरे

सखियों की सलाह से सबका कल्याण करने वाले शङ्करजी की आराधना करने लगी । चन्दन, अक्षत, फूल और फूलों की मालाओं द्वारा भगवान् भवानीपति की पूजा करके उसने उन्हें यहाँ तक सन्तुष्ट किया कि उसे एक सौ पुत्रों की माता होने का वर मिला । वह सदा ही देव-पूजा करती और अपने माता-पिता को देवताओं से भी बढ़ कर पूज्य मानती; वह अपनी माता को इतना प्रसन्न रखती थी कि उसकी माता भी प्रसन्न होकर यही कहती कि तू गान्धार राज्य की जीती जागती लक्ष्मी है । वह अपने भाई की भी जी-जान से खातिर करती और राजकुमार शकुनि भी उससे बड़ी प्रीति करते । सगे भाई-बहिनों में जैसा प्रेम होना चाहिए गान्धारी और राजकुमार शकुनि में वैसा ही था ।



सत्रहवाँ परिच्छेद ।

युद्ध की गति बढ़ती ही गई । शल्य आदि शेष योद्धा भी मारे गये । अन्त में भीमसेन ने दुर्योधन के बड़े पराक्रमी दुःशासनादि भाइयों को भी मार डाला ।

सौ भाइयों में केवल दुर्योधन रह गया । दुर्योधन का गदा-युद्ध उन दिनों जगत्प्रसिद्ध था । स्वयम् श्रीकृष्ण इस बात को खोकार करते थे कि धर्मपूर्वक गदा-युद्ध करके भीम दुर्योधन से न जीत सकेंगे । इसी अवसर पर एक दिन तीर्थ यात्रा करते हुए कृष्ण के बड़े भाई बलराम आ गये, उन्होंने देखा कि युद्ध अब तक जारी है । यही नहीं, उनके सामने ही दुर्योधन और भीमसेन का गदा-युद्ध होने लगा । दुर्योधन और भीमसेन दोनों ही बलरामजी को अपना गुरु मानते थे, इससे हार-जीत का निर्णय करने के लिए दोनों ने बलरामजी को अपनी अपनी ओर से मध्यस्थ किया ।

बड़ी देर तक युद्ध होता रहा । दुर्योधन का गदा-युद्ध में अभ्यास बढ़ा चढ़ा था, उसने भीमसेन के छक्क लुटा दिये । भीमसेन का कवच टुकड़े टुकड़े हो गया, उनके शरीर से रुधिर बहने लगा । सब लोग दुर्योधन की युद्ध-कुशलता की प्रशंसा

करने लगे । दुर्योधन के गदा घुमाने के करतब को देख कर पाण्डव लोगों का धीरज जाता रहा । स्वयम् श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा:—

मित्र ! दुर्योधन बहुत बड़ा योद्धा है । न्यायपूर्वक युद्ध करके भीमसेन इससे न जीतेंगे । इससे भीमसेन को उसकी जाँघ पर प्रहार करना चाहिए ।

यह सुन कर अर्जुन ने अपने बाएँ घुटने पर थपेड़ा मार कर भीमसेन को इशारा किया । वे इस इशारे को समझ गये, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी याद हो आई । उन्होंने गदा-युद्ध के नियमों के विरुद्ध दुर्योधन की जाँघ पर गदा मारी । गदा बड़े जोर से लगी । इससे दुर्योधन की जाँघ की हड्डी टूट गई और वे व्याकुल हो गये ।

तब क्रोध में पागल होकर भीमसेन दुर्योधन के मस्तक पर बार बार लातें मारने लगे ।

भीमसेन का यह व्यवहार देख कर सब लोग उनकी निन्दा करने लगे । स्वयम् युधिष्ठिर ने उन्हें तिरस्कृत किया । गदा-युद्ध में प्रवीण महात्मा बलराम तो भीमसेन के इस व्यवहार से बहुत ही असन्तुष्ट हुए; वे चिल्ला कर कहने लगे:—

शास्त्र के अनुसार नाभि से नीचे गदा मारना मना है । गदा-युद्ध के प्रवीण लोग इस नियम को भली भाँति मानते हैं । पर महामूर्ख और कपटी—पापी—अन्यायी भीम ने मुझे मध्यस्थ बना कर और मेरे रहते नियम भङ्ग करके दुर्योधन की

सत्यवती ने देश-काल की गति देख कर भीष्म से कहा कि “पुत्र ! तुम्हारे भाई चित्राङ्गद तो पहले ही परलोक-वासी हो गये थे । अब विचित्रवीर्य भी न रहे, पर उनकी दो स्त्रियाँ सन्तान-हीन घर में बैठी हैं, वे सन्तान का मुँह देखने की बड़ी अभिलाषा करती हैं । मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ कि अब तुम्हीं राज्य-सिंहासन ग्रहण करो और मेरी बहुओं द्वारा राज्य के उत्तराधिकारी उत्पन्न करो । तुम्हारा यह काम अधर्म न कहा जायगा, यह बात धर्म-सम्मत है और समाज के भी अनुकूल है ।

जिस समय की यह बात है उस समय समाज के नियम और थे । पर ज्यों ज्यों समय बीतता है समाज के नियम भी बदलते रहते हैं । आज कल समाज के नियम कुछ और ही हैं । कुछ भी हो, उन दिनों क्षत्रज सन्तान की उत्पत्ति धर्म-गर्हित न थी ।

पर भीष्म ने कहा “माता ! क्या तुम मेरा परीक्षा लेती हो ? या मुझे क्षत्रिय ही नहीं समझतीं ? मैं मानता हूँ कि तुम्हारी यह बात धर्म और समाज के अनुकूल है, पर क्या तुम मेरी प्रतिज्ञा को भूल गईं ? क्या मैंने तुम्हारे सामने ही प्रण नहीं किया था कि मैं राज्य न ग्रहण करूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा । संसार टल जाय पर मैं अपनी बात से टलने वाला नहीं, मेरा क्षत्रिय-धर्म न छुड़ाओ ।”

भीष्म की यह युक्ति-संगत बात सत्यवती को माननी पड़ी, पर कुरुवंश का सिंहासन खाली देख कर वंश-रक्षा-हेतु सन्तान

कृष्ण की ये बातें दुर्योधन से सह्य न हुईं । वे किसी तरह उठ बैठे और उन्होंने कहा:—

रे कंस के दास-पुत्र ! कृष्ण ! अधर्मी ! तू क्या धर्म बघारता है ? क्या तुझे लाज नहीं आती ! शिखंडी को तू ने ही आगे करके अधर्म-पूर्वक भीष्मपितामह का संहार कराया । क्या वह अधर्म न था ? अश्वत्थामा के मारने की भूठी खबर फैला कर तू ने ही शस्त्र-हीन गुरु द्रोण का वध कराया । क्या वह अधर्म न था ? सात्यकि और भूरिश्रवा के युद्ध में तेरे ही इशारे से अर्जुन ने अधर्म-पूर्वक भूरिश्रवा का शिर काटा । क्या वह अधर्म न था ? और तेरी ही दुष्ट बुद्धि के कारण रथ से उतरे हुए महावीर कर्ण को अधर्म से अर्जुन ने बाण मारे । क्या वह अधर्म न था ? आज भी तेरी ही अभिसन्धि से पापी भीम ने मुझ पर अधर्म से गदा चलाई, क्या इसे भी तू धर्म कह सकता है ? क्या तेरे बराबर भी कोई पापी और नीच निर्लज्ज है ?

उत्तर में श्रीकृष्ण ने और कुछ न कह कर यही कहा कि “दुर्योधन ! तुम बालकपन से ही कुकर्मी थे । तुम्हारी ही अनीति के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है । अब व्यर्थ क्यों प्रलाप करते हो ?”

यह कहते हुए पाण्डवों को साथ लेकर श्रीकृष्ण चलदिये ।

उसी दिन रात को अश्वत्थामा ने पाण्डवों के डेरे में जाकर शेष वीरों को मार डाला और आकर यह संवाद दुर्योधन को सुनाया । तब अश्वत्थामा को गले लगा कर दुर्योधन ने प्राण छोड़े ।

के लिए स्वयम् भीष्म भी बड़े व्याकुल और चिन्तित हुए । निदान सत्यवती ने यह सब दशा देख कर एक दिन फिर भीष्म से कहा कि “पुत्र ! तुम्हारे पिता से जिस समय मेरा विवाह नहीं हुआ था उस समय एक दिन मैंने महर्षि पराशर की बड़ी सेवा की थी । उसी सेवा से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे एक पुत्र दिया था । उस समय मेरे वदन से मछली की सी दुर्गन्धि आती थी, उसे भी दूर करके उसके बदले यह अत्यन्त मनोहर सुगन्धि भी उन्होंने दे दी थी । महर्षि का दिया हुआ वह पुत्र यमुना के टापू में मुझ से उत्पन्न हुआ और इसी से उसका नाम द्वैपायन पड़ा । तुम्हारे इसी भाई महा-बुद्धिमान् और महा-पण्डित महर्षि पुत्र ने चारों वेदों के अलग अलग विभाग किये । इसी से उसका नाम वेदव्यास भी हुआ । उसने कहा था कि कोई बड़ा संकट पड़ने पर उससे उद्धार पाने के लिए मुझे स्मरण करना । इससे इस समय जो यह विपत्ति हम पर पड़ी है उसे दूर करने के लिए यदि तुम सम्मति दे तो मैं तुम्हारे उसी भाई को स्मरण करूँ ।

महामति भीष्म अपनी सौतेली माता की बात पर राज़ी हो गये । कुरुवंश के कल्याण के लिए उन्होंने माता को वेदव्यास का स्मरण करने के लिए अनुमति दे दी । सत्यवती ने वेदव्यास का स्मरण किया । स्मरण करने पर वे माता के सामने हाज़िर हुए । माता के दुःख की बात सुन कर विचित्रवीर्य/की स्त्रियों को उन्होंने पुत्र-दान देने का वचन दिया ।

अठारहवाँ परिच्छेद ।

युद्ध समाप्त हुआ । अपने पुत्रों समेत दुर्योधन के मारे जाने का संवाद महाराज धृतराष्ट्र और गान्धारी के कानों तक भी पहुँचा । उन्होंने यह भी सुना कि भीम ने बलरामजी के सामने अधर्मपूर्वक युद्ध में दुर्योधन की जाँघ पर गदा मारी । यह सुनकर एवम् पाण्डवों का, और विशेष कर श्रीकृष्णजी का, अधर्म में शामिल होना जान कर गान्धारी को बड़ा दुःख हुआ । उन्हें पाण्डवों पर और श्रीकृष्ण पर बड़ा क्रोध आया ।

विदुर की अनुमति से महाराज धृतराष्ट्र, पतिव्रता गान्धारी और अन्य कौरव-नारियों ने रणक्षेत्र जाने की तैयारी की । वे सब रथों पर सवार होकर रणक्षेत्र को चल पड़ीं । यह दृश्य देख कर सब नगर-निवासी रोने लगे ।

एक कोस भर मार्ग तै हुआ होगा कि उन्हें रास्ते ही में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा मिले । उन्होंने युद्ध-क्षेत्र का सब हाल कह सुनाया—कि हम तीनों आदमियों को छोड़ कर सारी कौरव-सेना नष्ट हो गई ।

आचार्य कृप ने पुत्र-शोकाकुला गान्धारी से कहा:—

देवि ! तुम्हारे पुत्र वीर-धर्म का पालन करते हुए रणक्षेत्र

यथासमय अम्बिका के गर्भ से नेत्रहीन एक पुत्र पैदा हुआ । उसका नाम धृतराष्ट्र पड़ा । अम्बालिका के भी एक पुत्र हुआ और उसका नाम पाण्डु पड़ा । अम्बिका की एक दासी ने भी प्रसन्नचित्त होकर वेदव्यास की सेवा की थी, उसके भी सब अङ्गों से परिपूर्ण एक पुत्र हुआ और उसका नाम पड़ा विदुर ।

कुरु के वंश में धृतराष्ट्र पाण्डु और विदुर के जन्म लेने पर कुरुजाङ्गल, कुरुव और कुरुक्षेत्र आदि सूत्रों में सुख ऐश्वर्य्य और धन धान्य आदि की बहुत बढ़ती हुई ।

जिस समय महात्मा भीष्म और सत्यवती की अनुमति से महात्मा द्वैपायन ने अपने औरस पुत्रों का प्रदान करना स्वीकृत किया था उसी समय यह बात तै हो चुकी थी कि जैसे पिता के सम्बन्ध से भीष्म विचित्रवीर्य्य के भाई हैं उसी तरह माता के सम्बन्ध से द्वैपायन भी विचित्रवीर्य्य के भाई हैं; अतः भीष्म उन पुत्रों के लालन-पालन और शिक्षण का भार लें । इसी कारण उनके रक्षणान्त्रेक्षण का भार भीष्म ही को अपने सिर लेना पड़ा ।

महात्मा भीष्म अपनी बात के वड़े धनी थे । वे तीनों राजकुमारों को सगे भाई की तरह एक ही राजभवन में रख कर उन्हें पुत्र की तरह पालने पोसने लगे । समय आने पर उन्होंने उनके जात-कर्म इत्यादिक संस्कार किये । उपयुक्त शिक्षकों के द्वारा उन्हें धर्म-शास्त्र इत्यादि की शिक्षा दिलवाई और परिश्रम तथा व्यायाम करना सिखलाई । जब वे युवा हुए तब उन्हें धनुर्वेद, गदा-युद्ध, ढाल-तलवार का काम, नीति-शास्त्र आदि में

में बड़ी वीरता से लड़े हैं । इससे वे अवश्य ही स्वर्गलोक में आनन्द कर रहे होंगे । क्षत्राणी माता को वीर पुत्रों की मृत्यु पर आंसू न बहाने चाहिए । तुम्हारा जेठा पुत्र दुर्योधन भी बड़ी वीरता करके मरा है । जब उसके साथ भीमसेन का गदायुद्ध हो रहा था, तब उसके युद्ध-कौशल की शत्रुओं ने भी प्रशंसा की । गदा-युद्ध में उसकी कुशलता स्वयम् श्रीकृष्ण ने स्वीकार की है । बलरामजी तो बार बार उसके करतबों की प्रशंसा करते रहे हैं । जब दुष्ट भीम ने अधर्म से उस पर वार किया तब सभी ने भीम की निन्दा और दुर्योधन की प्रशंसा की है; इससे देवि ! उसके लिए तुम्हें शोक न करना चाहिए । अब मैं जाता हूँ ।

यह कह कर कृपाचार्य्य चले गये । गान्धारी देवी ने मारे शोक के उनसे कुछ नहीं कहा ।

रणक्षेत्र में पाण्डव लोग उनका आगमन सुन कर पहले ही सं मौजूद थे । पाण्डवों और श्रीकृष्ण को सामने आया हुआ जान कर वे युधिष्ठिर को शाप देने के लिए तैयार हुईं । पर व्यासदेव ने अपने योग-बल से यह बात जान ली । इसलिए वे एकाएक आकर वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने कहा:—

बेटी ! युद्ध के पहले तुम्हीं ने कहा था कि जहाँ धर्म है वहीं जय है, फिर पाण्डवों की जीत पर तुम्हें क्यों शङ्का होती है ? पुत्री ! तुम सदा ही दूसरों की भलाई करती आई हो फिर आज पाण्डवों की अनिष्ट-कामना क्यों कर रही हो ? हम तुम्हें

प्रवीण कराया । धनुर्विद्या में पाण्डु सबसे श्रेष्ठ हुए और बल में धृतराष्ट्र सबसे बढ़ कर निकले । धार्मिक बातों की जानकारी में विदुर का कोई मुकाबिला करने वाला न रहा । इस तरह नष्ट होते हुए कुरुवंश का पुनरुद्धार होने से सब जगह सत्य का आदर और गौरव की वृद्धि होने लगी । उस समय वीर-प्रसविनी रमणियों में काशिराज की पुत्रियों, देशों में कुरुजाङ्गल, और धार्मिकों में विदुर के सर्वश्रेष्ठ होने के कारण नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ हो उठा ।

धृतराष्ट्र सबसे जेठे थे, उनकी बुद्धि अलौकिक थी, कई हाथियों का सा उनमें पराक्रम था, वे विद्वान् थे, शास्त्रों का मर्म जानते थे और ऐश्वर्य-युक्त थे । फिर भी अन्धे होने के कारण वे राज्यसिंहासन के अधिकारी न बनाये गये । विदुर राजनीति जानते थे, सर्वाङ्ग-सम्पन्न थे, और अद्वितीय विद्वान् थे । धर्म का गूढ़ से भी गूढ़ रहस्य उनसे छिपा न था, किन्तु दासी-पुत्र होने के कारण, उन्हें भी राजसिंहासन न मिला । इससे युवावस्था प्राप्त होने पर पाण्डु ही हस्तिनापुर के सिंहासन के अधिकारी हुए । सूर्य के समान चमकती हुई उनके शरीर की प्रभा थी, सिंह के समान उनका प्रताप था, कपाट-तुल्य उनकी चौड़ी छाती थी, कमल के समान उनके नेत्र थे और सचमुच ही वे अद्वितीय विद्वान् और असाधारण राजनीतिज्ञ होकर कुरु-राज्य के योग्य उत्तराधिकारी थे ।

भोजन कर रहे थे । सैनिक लोगों के व्यवहार में आने वाले अस्त्र शस्त्र चारों ओर फैले हुए थे; कहीं बाण, कहीं गदा और कहीं तलवारों के ढेर पड़े थे । दूटे हुए रथों और उनके साज-बाज के कारण रणभूमि में प्रवेश करना कठिन हो रहा था । गान्धारी देवी ने एक बार चारों ओर निगाह दौड़ाई; एक दासी उन्हें मरे हुए पुरुषों और उनकी अनुगामिनी कौरव-पाण्डव-रमणियों का परिचय भी देती जा रही थी । रणक्षेत्र का यह भीषण दृश्य देख कर गान्धारी देवी का हृदय फट सा गया । उन्होंने श्रीकृष्ण को सम्बोधन करके कहा:—

कृष्ण ! देखो ! हमारी बहुतों अनाथाओं की तरह, बाल विखराये और रोती हुई अपने अपने पति, पिता, पुत्र और भाइयों की याद करके उनकी लाशों की ओर दौड़ रही हैं । समराङ्गण पुत्र-हीना वीर-माताओं और पति-हीना वीर-रमणियों से भर उठा है । यह देखो ! गृद्ध और सियार वीर पुरुषों की लोहू-सनी लाश नेच नेच कर खा रहे हैं । जिन लोगों के सामने बन्दीगण विरद-पाठ करते थे आज उन्हीं को सियारियों की ध्वनि सुननी पड़ रही है । यह देखो ! हमारी वधुओं का कोमल कमल-मुख सूख गया है । वे नेत्रों से अश्रुधारा बरसाती हुई इधर उधर घूम रही हैं । मेरी बहुत सी बहुतों तो लम्बी साँसें लेने और शोक-दुःख में अधिक रोने के कारण मूर्छित हो गई हैं । देखो ! कोई तो अपने पति की लाश अपनी छाती में लगाये हुए है और कोई अपने पति का पैर अपने

चौथा परिच्छेद ।



दुर वड़े नीतिज्ञ थे । भीष्म की उनसे बहुत बनती थी । बड़े छोटे सभी मामलों में भीष्म विदुर से सलाह लेते थे । एक दिन बैठे बैठे उन्होंने विदुर से कहा—“वत्स ! हमारे वंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े पुण्यकार्य किये हैं, इसी से और राजकुलों की अपेक्षा यह वंश अधिक यश वाला और प्रसिद्ध है । भाई विचित्रवीर्य के मरने पर यह कुल भी एक तरह से समाप्त ही हो चुका था पर महर्षि वेदव्यास की कृपा और माता सत्यवती के यत्न से बच गया । अब तुम लोग सयाने हुए, इससे वंशोत्पत्ति के लिए योग्य योग्य कन्याओं से तुम सब का विवाह कर देना हम अपना परम धर्म समझते हैं । हमने सुना है कि गान्धारराज सुवल् की कन्या गान्धारी बड़ी सुशीला है । उसने महादेवजी को सन्तुष्ट करके सौ पुत्रों की माता होने का वरदान भी पाया है; और मद्रदेश के राजा की कन्या भी बड़ी सुलक्षणा है, इन दोनों कन्याओं का सम्बन्ध धृतराष्ट्र और पाण्डु से हो जाता तो बहुत अच्छा था । वताओ, इस सम्बन्ध में तुम्हारी क्या सम्मति है ?”

विदुर ने कहा—आप हमारे बड़े और पिता के बराबर हैं,

आँसुओं से धो रही हैं । कोई अपने पति का छिन्न शरीर पाकर मस्तक हूँढ़ रही है और कोई कटा हुआ मस्तक पाकर वचे हुए धड़ की खोज कर रही है । मैं जिस ओर नज़र डालती हूँ, हा ! उसी ओर अपने पुत्रों, पोतों, भाइयों और भतीजों की लाशें देखती हूँ । शायद मैंने पूर्वजन्म में किसी घोर पाप का अनुष्ठान किया था, नहीं तो आज मुझे यह दृश्य क्यों देखना पड़ता ?

इस प्रकार रुदन करती हुई गान्धारी देवी वहाँ पहुँची जहाँ पर दुर्योधन की लाश पड़ी थी । और वही लोहू-सनी लाश अपनी भुजाओं से लपटा कर “हा पुत्र ! हा दुर्योधन ! कह कर वे फुफकार मार कर राने लगीं । हार पहिने हुए दुर्योधन की चौड़ी छाती आँसुओं से भीग उठी ।

इसके बाद उन्होंने कृष्ण से कहा:—

केशव ! देखो तो यह उसी दुर्योधन का शरीर है, जिसके आश्रय में सैकड़ों धनुर्धर सुख से सोते थे । और जिसके डर से घबरा कर पाण्डव लोग तेरह वर्ष तक नींद भर नहीं सोये । जिस समय जाति का संहार-कारी यह युद्ध आरम्भ नहीं हुआ था उस समय दुर्योधन ने संग्राम जीतने की इच्छा से मुझसे आशीर्वाद माँगा था तब मैंने कहा था—‘पुत्र ! जहाँ धर्म है वहीं जय है, जब तुम युद्ध से मुँह नहीं मोड़ते हो तो निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा ।’ उस समय पुत्र को मरा हुआ जान

जिस बात में आप हम सब का कल्याण देखें उसे सहर्ष करें, इसमें हमसे पूछने की कौनसी बात है ?”

धृतराष्ट्र सब भाइयों में बड़े थे, इसी से पहले उन्हीं का विवाह होना उचित था । यही सब सोच समझ कर भीष्म ने गान्धारराज सुबल के पास अपने दूत भेजे और अपने भतीजे धृतराष्ट्र के साथ गान्धारी के विवाह का प्रस्ताव किया ।

इधर राजकुमारी गान्धारी भी विवाह-योग्य हो गई थी । राजा सुबल उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश में थे । राजकुमारी के रूप और गुणों की प्रशंसा सुन कर अनेक देशों के राजाओं ने उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की और उन्होंने गान्धार को अपने अपने दूत भेजे । एक तो शील-सम्पन्न, सुलक्षणा राजकुमारी दूसरे उससे अनेक पुत्रों की उत्पत्ति की बात, सोने में सुगन्धि थी, इसी से बहुत से राजकुमार उसके साथ विवाह के प्रार्थी थे, पर राजा सुबल यह निर्णय न कर सके कि उन सब में, गान्धारी के योग्य, सर्वश्रेष्ठ कौन था ।

इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन खबर मिली कि कुरु-कुल-प्रधान भीष्म ने भी हस्तिनापुर से दूत भेजे हैं और वे गान्धारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर आये हैं । भीष्म ने गान्धारराज के लिए उपहार भी बहुत कुछ भेजा था । मोतियों के हार, सुनहरी कलावत्तू के कपड़े और राजोचित उपहार की अन्य वस्तुये राजा सुबल के सामने रख कर हस्तिनापुर के

तरह वताऊँ ? यह देखो ! तुम्हारा भानजा अभिमन्यु यह पड़ा है । मर जाने पर भी उसके मुँह की सुन्दरता कम नहीं हुई, वह निस्तेज नहीं हुआ । हतभागिनी उत्तरा उसका कवच खोल कर हथियारों से घायल उसकी देह पर एक दृष्टि डाल रही है । इधर देखो, आचार्यपत्नी कृपी दीन भाव से नीचा मुँह किये बैठी हैं । सामवेद का उच्चारण करने वाले लोग विधिपूर्वक आचार्य्य की चिता तैयार कर रहे हैं ।

पुत्र, पौत्र, भाई, भतीजों और अन्य आत्मीयों को मरा देख कर मुझसे धीरज नहीं धरा जाता । हाय ! विधाता ! क्या यही दृश्य दिखाने के लिए तुमने मुझे जीवित रक्खा था ?

गान्धारी देवी व्यासदेव के वर से पाई हुई दिव्यदृष्टि-द्वारा रणक्षेत्र का यह दृश्य देख कर विलाप करते करते मूर्छित हो गई । थोड़ी देर तक तो उन्हें होश ही नहीं रहा । पर जब होश हुआ तो कृष्ण की ओर उन्होंने क्रोध भरी निगाह डाली और कहा:—

कृष्ण ! हमने साधुओं के मुँह से सुना है कि तुम नारायण हो । परन्तु जब तुम मनुष्य-देह धारण करके साधारण मनुष्यों की तरह पाप पुण्य का अनुष्ठान करते हो, तब तुम्हें भी मनुष्यों की भाँति सुख और दुःख भोग करना पड़ेगा । तुम में जितना शास्त्र-ज्ञान है, जितनी तुम्हें बातें बना आती हैं, तुम्हारे पास जितनी सेना और बुद्धि है, उसे जान कर मुझे विश्वास है कि यदि तुम एक बार और भी निश्छल हो कर सन्धि के लिए चेष्टा

प्रधान दूत ने कहा, “महाराज ! हम लोग कुरुकुल-पुङ्गव भीष्म के आदेश से आपकी सेवा में हाज़िर हुए हैं । महाराज भीष्म ने आपको प्रणाम कहा है और आपका कुशल-वृत्त पूछा है । उन्होंने सुना है कि आपके यहाँ विवाह-योग्य एक कन्या है । अपने भतीजे राजकुमार धृतराष्ट्र के लिए वही कन्या आपसे उन्होंने माँगी है । उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि दोनों राजवंशों में पहले ही से प्रीति चली आती है; यह सम्बन्ध हो जाने से वह और भी दृढ़ हो जायगी । अब जैसी आपकी मरज़ी ?”

राजा ने राजोचित शब्दों में कहा—“दूत ! तुम्हारा कहना ठीक है, महामति भीष्म का संदेश सुन कर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, कुरुवंश के साथ सम्बन्ध होना वास्तव में बहुत अच्छा है; पर जब तक इस मामले में अच्छी तरह विचार न कर लिया जाय तब तक उत्तर कैसे दिया जा सकता है ? आज तुम भी थके हुए आ रहे हो—विश्राम करो, हम सलाह करके कल तुम्हारे प्रस्ताव का यथोचित उत्तर देंगे ।”

दूत ने प्रणाम किया और अपने साथियों के साथ विश्राम-स्थान में जाने के लिए विदा ली ।

इधर राजा ने सामने ही बैठे हुए अपने बूढ़े मन्त्री पर नज़र डाली और कहा, “मन्त्रिन् ! इस मामले में आपकी क्या सलाह है ?”

मन्त्री ने कहा—“महाराज ! इस मामले में अपनी कोई राय देना मुझे उचित नहीं मालूम होता; महाराज इस पर स्वयं

उन्नीसवाँ परिच्छेद ।

ए-क्षेत्र से सब लोग लौट आये, युधिष्ठिर ने सब मरे हुए वीरों का किया-कर्म किया । यह सब करके वे अपने भाइयों और अपनी माता कुन्ती के साथ लौट आये । द्रौपदी आदि रानियाँ और अपनी वधुओं इत्यादि के साथ पतिव्रता गान्धारी भी लौट आईं । महात्मा संजय, विदुर और महाराज धृतराष्ट्र भी वापस आये ।

अब पाण्डवों का निष्कण्टक राज्य हुआ । युधिष्ठिर राज्य-सिंहासन पर बैठे । पर, उन्होंने सेवा और भक्ति से, महाराज धृतराष्ट्र और पतिव्रता गान्धारी को सन्तुष्ट कर लिया । गान्धारी के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा व्यवहार किया । पाण्डव लोग उनकी बड़ी सेवा करते थे इसीसे उन्हें किसी वस्तु का न अभाव रहा और न किसी भाँति का क्लेश ही हुआ । यह सब होने पर भी गान्धारी को शान्ति न मिली । शान्ति उनके लिए दुर्लभ सामग्री हो गई ।

अन्त को महाराज धृतराष्ट्र और गान्धारी ने वन जाकर तपस्या करने की इच्छा प्रकट की । हस्तिनापुरी उन्हें श्मशान की भाँति दीख पड़ती, पतिपुत्रहीना रमणियों की हाय हाय सुन कर गान्धारी को सदा ही शोक और अशान्ति रहती । पद पद

विचार करें; महारानी और युवराज के साथ सलाह करके जो कुछ कर्तव्य हो आप ही ठीक करें ।”

उस समय राजकुमार शकुनि भी वहीं मौजूद थे । अन्तःपुर में महारानी से सलाह करने वाली बात उन्हें बिलकुल अच्छी न लगी । मन्त्री की यह बात उन्हें ठीक न जँची, उन्होंने उसी वक्त कहा—“जिस विषय से राजनीति का सम्बन्ध हो, और जिस पर राज्य की भलाई बुराई अवलम्बित हो, अन्तःपुरमें उसकी आलोचना करना ठीक नहीं । यहीं पर—मन्त्रणा-भवन ही में—उसकी सीमांसा की जाय”।

मन्त्री ने पूछा—“युवराज ! इसके साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है ? यह मेरी समझ में नहीं आया ।”

राजकुमार शकुनि इस पर बहुत विगड़े । उन्होंने सीठी चुटकी लेते हुए कहा—“मन्त्रिवर ! अगर ऐसी बातें आपकी समझ में आ सकतीं तो आज गान्धार राज्य की और ही अवस्था होती ।

मन्त्री ने कहा—“युवराज ! हम बूढ़े हुए, बुढ़ापे के कारण हमारी इन्द्रियाँ अब शिथिल हो गईं, इससे हमारी भूल क्षमा कीजिए । राजकुमारी के विवाह के साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है ? आप ही बतलाइए ।”

अब बिना राजा के कहे ही, एक तरह से, विवाह की आलोचना मन्त्रणा-भवन ही में होने लगी । युवराज, मन्त्री और राजा, तीनों मौजूद थे । उनमें इस तरह बातें होने लगीं:—

वत्से ! तुम्हारे पतियों और तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर तुम्हारा और तुम्हारे पतियों का कल्याण करे ।

फिर गान्धारी ने कुन्ती से कहा:—

वहिन ! अब तुम भी लौट जाओ । तुम पाण्डवों की माता हो इतने ऐश्वर्य्य और पुत्रों को छोड़ कर तुम दुर्गम वन का कष्ट क्यों उठाओगी ? अपने राज्य में रह कर भी तुम दान-व्रत इत्यादि के द्वारा अच्छी तपस्या कर सकती हो ।

पर कुन्ती ने न माना । उसने गान्धारी के साथ वन को जाने की पक्की ठान ली ।

तब महाराज युधिष्ठिरादि पाण्डव और रानियाँ लौट आईं । संजय, विदुर के साथ महाराज धृतराष्ट्र पतिव्रता गान्धारी और कुन्ती वन की ओर चली गईं । वहाँ पर नदी के किनारे एक रमणीय आश्रम में उन्होंने निवास किया । वहाँ वे यज्ञानुष्ठान करने, वेदपाठ सुनने और शास्त्रालोचना करने में अपना समय बिताने लगे । उनका यह समय शान्ति से बीतने लगा । धर्मराज युधिष्ठिर उनकी खबर लेते रहते और कभी कभी आश्रम में जाकर उन्हें देख आते ।

एक बार महाराज युधिष्ठिर उन्हें देखने गये । उन्होंने देखा कि महाराज धृतराष्ट्र और गान्धारी का आश्रम केलों से घिरा और हिरणों से परिपूर्ण है । वहाँ शान्ति की डौंडी पिट रही है । सर्वत्र सुख ही सुख दृष्टि आता है । व्रतधारी तपस्वी अपने

शकुनि—मन्त्री महोदय ! यह बात तो हम पीछे कहेंगे कि इस विवाह के साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है पर पहले आप अपना अभिप्राय तो कहिए ।

राजा—हाँ मन्त्रिन् ! आप कुण्ठित न होना । आपका जहाँ तक जोर चला है आपने सदा ही हमारे हित के काम किये हैं, इस सम्बन्ध में आपके मन में जो बात हो उसे निर्भय होकर कहिए ।

मन्त्री—महाराज ! हम क्या कहें ? कुरुवंश के साथ सम्बन्ध होना तो अच्छा ही है, पर राजकुमार धृतराष्ट्र तो जन्म से अन्धे हैं । उनके साथ लक्ष्मी के समान गुणों वाली कन्या का विवाह करना उचित है या अनुचित, यह आप ही विचारे ।

राजा—धृतराष्ट्र, जन्मान्ध !

मन्त्री—हाँ महाराज ! जन्मान्ध !

राजा—तब यह विवाह क्यों कर हो सकता है ? शकुनि ! तुम क्या कहते हो ?

शकुनि—महाराज ! हमारा जो कुछ मत है वह हम पीछे निवेदन करेंगे, परन्तु उसके पहले ही हम मन्त्री महाशय से दो एक बातें पूछना चाहते हैं । अच्छा मन्त्री महाशय ! राजकुमार धृतराष्ट्र में बल कितना है ?

मन्त्री—बल तो उनमें इतना है कि कोई मत्त हाथी भी उनका

हुए । उन्होंने कुन्ती, संजय और विदुर को भागने के लिए कह कर गान्धारी से कहा:—

“प्रिये ! तुम आँखों का पट खोल डालो तो तुम मार्ग देख सकती हो और भाग कर अपनी रक्षा कर सकती हो । हमें साथ लेने से तुम्हारे जाने में विघ्न पड़ेगा । तुम भागो; हमारे लिए चिन्ता न करना ।”

अब आग की लपटें अधिक तेज़ हो रही थीं । गान्धारी ने कहा:—

नाथ ! इतने दिनों के वाद आज यह कैसा आदेश दे रहे हो ? किस सुख की आशा में आपको छोड़ कर अपनी रक्षा करूँ ? अपनी रक्षा करके मैं क्या करूँगी ? पति ही स्त्रियों का धर्म, पति ही कर्म और पति ही उनके लिए परमेश्वर है । स्त्रियों को केवल पति ही का व्रती होना चाहिए । उन्हें जप, तप, योग करने की कोई आवश्यकता नहीं; वे केवल पति के चरण-कमलों की सेवा करके सब पापों से छूट सकती हैं । वे पति की अर्द्धाङ्गिणी इसी लिए कही जाती हैं कि वे पति के सुख दुःख में उसी भाँति शरीक रहें जैसे अपना आधा अङ्ग । फिर मैं आँखों का वस्त्र किस लिए खोलूँ ? आओ ! एक दिन अग्नि ही को साक्षात् देकर दोनों मिले थे, आज उसी अग्नि में जीवन त्याग करके दोनों ही शान्ति प्राप्त करें ।

गान्धारी देवी यह कह कर अपने पति से लिपट गई और

अग्नि की लपटों ने उनके पति के साथ उन्हें भी अपने में मिला लिया ।

पर क्या अग्निदेव ऐसी सच्ची अर्द्धाङ्गिणी और आदर्श पतिव्रता का यश और नाम भी मेट सके ? इसके उत्तर में यही ध्वनि निकलती है कि नहीं । सच्ची अर्द्धाङ्गिणी और आदर्श पतिव्रता देवी गान्धारी का नाम और यश आज तक भी अजर अमर है । इति ।

समाप्त

हम क्यों कर अपनी उस सोने की पुतली को अन्धे वर के हाथ में देंगे ?

शकुनि—महाराज ! राजधर्म बड़ा कठिन है, उसका पालन करने के लिए माया-ममता की अपेक्षा भविष्य के कल्याण के लिए चित्त की दृढ़ता ही की अधिक जरूरत है । मन्त्रीजी ने हमसे पूछा था कि इस विवाह के साथ राजनीति का क्या सम्बन्ध है ? उसे भी सुनिए । हमारे इस गान्धार राज्य पर बहुतें की नज़र है । एक ओर शक, दरद और बाह्लीक इत्यादि असभ्य जातियाँ इसकी उपजाऊ उपत्यका लूटने के प्रयास में हैं; दूसरी ओर पंचनद (पञ्जाव) निवासी राजगण मांस-लोलुप विलाव की तरह इसकी ओर दृष्टि लगाये हुए हैं । ऐसी दशा में किसी शक्तिशाली राजवंश के साथ सम्बन्ध जुटाना हमारा परम कर्तव्य है । ऐश्वर्य और पराक्रम में कुरु-कुल की बराबरी करने वाला भारत में कोई दूसरा राजवंश नहीं; कुरुकुल के साथ सम्बन्ध हो जाने से आर्य्य और अनार्य्य कोई भी शत्रु हमारा अनिष्ट करने का साहसी नहीं हो सकेगा । राजकुमारी को धृतराष्ट्र के साथ व्याहं देने से भुवन-विजयी वीर भीष्म हमारी ओर हो जायँगे और ऐसा न करने से वे रुष्ट हो जायँगे । उनका नाराज़ हो जाना मामूली बात नहीं । महाराज ! राज्य के कल्याण

के लिए इस सम्बन्ध में आप अपनी सम्मति दे दे' । यह आप पर छिपा नहीं है कि राजधर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े नृपतियों ने अपनी अपनी धर्मपत्नी तक को छोड़ दिया है ।

राजा—शकुनि ! तुम्हारा कहना ठीक है, पर राजरानी तो राजधर्म जानती नहीं; वे क्या कहेंगी ? और माता-पिता की प्यारी गान्धारी ही क्या सोचेगी ?

शकुनि—महाराज ! आपकी आज्ञा टालने वाला कौन है ? राजमाता ने तो अपने जीवन भर में आपकी आज्ञा कभी नहीं टाली । और बहिन गान्धारी ? वह तो देववाणी की अपेक्षा भी आपकी बात का अधिक आदर करती है ।

राजा—यह ठीक है; फिर भी, देखो, क्या अन्धे वर के हाथ में गान्धारी ऐसी कन्या का देना उचित है ?

शकुनि—महाराज ! “अन्ध” ! “अन्ध”—जिसे देखो वह यही कहता है । नेत्र ही तो मनुष्यों का एक बड़ा भारी शत्रु है; नेत्र ही तो रूप-लालसा उत्पन्न करता है । इसी रूप-लालसा ही में तो मुग्ध होकर बहुत से राजकुमार अपनी प्राणों से भी प्यारी पत्नी को छोड़ कर दूसरा विवाह कर लेते हैं । धृतराष्ट्र के साथ विवाह होने से राजकुमारी के कोई सौत होने का भय जाता रहेगा, यह बात आप कोई भी नहीं सोचते । बहिन

गान्धारी की प्रकृति हमें मालूम है; पति चाहे अन्धा हो या लूला, वह उसे देवता जान कर सेवा करेगी, और स्वयं सुखी रह कर स्वामी को भी प्रसन्न रखेगी ।

राजा सुबल ने जब देखा कि शकुनि का इस विवाह पर बड़ा ही आग्रह है तब उन्होंने कहा, “वत्स शकुनि ! देखते हैं तुम बड़े दूरदर्शी हो । परमेश्वर तुम्हें चिरंजीवी करे । जब तुम कहते हो कि इस सम्बन्ध से राज्य का कल्याण होगा और गान्धारी भी असुखी न रहेगी तो हमें मंजूर है । हम अन्तःपुर में जाकर राजरानी से अपना अभिप्राय कहते हैं । तुम मन्त्री महाशय के साथ सलाह करके उपहार के बदले में जो कुछ भेजना है उसका इन्तज़ाम करो, हम कल ही हस्तिनापुर को दूत भेजेंगे; यही विवाह ठीक है ।”

यह कह कर राजा सुबल अन्तःपुर को चले गये ।



“राजकुमारी ! जब से मैंने एक बात सुनी है मेरे मन को बड़ा दुःख हो रहा है, वही तुमसे कहने आई हूँ ।”

गान्धारी—क्या हुआ सखी ? देखती हूँ तुम्हारा मुँह सूख गया है, कहो क्या सुन आई हो ?

सखी—सुन आई हूँ कि तुम्हारे विवाह की बातचीत पक्की हो गई है ।

गान्धारी ने हँस कर कहा—“अच्छा तो फिर इसमें तुम्हें दुःख काहे का ? क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं जन्म भर कुँआरी ही रहूँ ?—कहाँ सम्बन्ध का ठीक ठाक हुआ है ?”

सखी—हस्तिनापुर में, राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ ।

गान्धारी ने फिर मुसकरा कर कहा—“तुम्हारे साथ न होकर विवाह मेरे साथ होने वाला है, समझती हूँ, इसी से तुम दुखी हो ?”

सखी ने कहा, “राजकुमारी ! तुम्हें यह मालूम ही नहीं कि तुम्हारे भाग्य में क्या क्या दुःख लिखा है, इसी से तुम हँसी करती हो । मैंने सुना है राजकुमार धृतराष्ट्र जन्म के अन्धे हैं ।”

सखी के मुँह से अपने पति के अन्ध होने की बात यदि कोई दूसरी स्त्री सुनती तो अवश्य ही उसका धीरज छूट जाता, पर राजकुमारी गान्धारी बड़ी शान्त बुद्धि की थी; वह घबड़ाई नहीं । यह बात अवश्य हुई कि थोड़ी देर के लिए मानो उसका सारा शरीर काँप उठा, फिर भी उसके मुँह पर बिन्दुमात्र भी

विकार नहीं देख पड़ा । उसने सखी से पूछा—“सखी ! क्या सम्बन्ध सचमुच ही ठीक हो गया है ? और यदि ठीक हो गया है तो ठीक किया किसने ?”

सखी—स्वयं महाराज ही ने सम्बन्ध ठीक किया है । सुनती हूँ कि कल हस्तिनापुर को दूत भेजे जायँगे । महाराज तो पहले इस विवाह के लिए राजी नहीं थे; परन्तु युवराज ने उन्हें समझाया कि गान्धार राज्य के कल्याण के लिए यह सम्बन्ध हो जाना बहुत ज़रूरी है । चारों ओर से शत्रुओं से गान्धार की रक्षा करने के लिए किसी शक्तिशाली राजवंश के साथ सम्बन्ध करना आवश्यक है । इसी से अन्त में महाराज ने भी अनुमति दे दी । अब सब ठीक हो चुका है ।

गान्धारी का हृदय बड़ा उदार था, उसने कहा—“सखी ! यदि ऐसा ही है, तो इससे बढ़ कर मेरा और क्या अत्यन्त हृदय-स्पर्शी सौभाग्य हो सकता है ? गान्धार के कल्याण के लिए—विवाह की कौन सी बात—यदि मेरे प्राण भी लग जायँ तो भी मुझे क्षोभ नहीं ।”

सखी—तुम्हें समझ नहीं पड़ता । आओ रानी माँ के पास चलो; मैं उनसे कहूँगी कि तुम इस विवाह के लिए राजी नहीं । तुम्हारी मरजी न होने से रानी माँ अपनी सम्मति कभी न देंगी । और ऐसा होने से महाराज को भी अपना मत बदल देना पड़ेगा । तुम इस समय

लज्जा छोड़ो, अब भी समय है, आओ हम तुम दोनों रानी माँ के पास चले ।

गान्धारी—सखी ! तुम कैसी बेसमझी की बातें कर रही हो ? पिता जिस समय मुझे किसी के हाथ में देने की इच्छा कर चुके, उसी समय मैंने समझ लिया कि मैं दे डाली गई । इस समय मेरा पति चाहे अन्ध हो चाहे पङ्गु—इससे कुछ बनता विगड़ता नहीं ! भक्त लोग देवमूर्ति की उतनी ही श्रद्धा करते हैं, चाहे वह मिट्टी की बनी हो अथवा पत्थर या किसी धातु की । जिस भाँति भक्त लोग सच्ची श्रद्धा से मूर्ति की पूजा करके मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार मैं भी अपने पति को परम देवता समझ कर उनकी सेवा करूँगी और सुख पाऊँगी ।

सखी—बहिन ! तुम धर्म-ज्ञान से चाहे जो कुछ कहो, पर क्या अन्धे पति के साथ तुम हृदय से प्रेम कर सकोगी ?

गान्धारी—न कर सकने का कारण ही कौन सा ? क्यों न कर सकूँगी ? उनकी अङ्गहीनता मेरे मन में विकार न उत्पन्न करेगी, इसका मुझे दृढ़ विश्वास है ।

सखी—इसका उपाय तुमने क्या सोचा है बहिन !

गान्धारी ने प्रसन्न होकर कहा, “सखि ! जब तुम कह रही हो कि मेरे पिता यह सम्बन्ध स्वीकार कर चुके हैं तो हो चुका । आज से ही मैं हस्तिनापुर के राजकुमार की पत्नी हो चुकी ।

मैं आज ही से अपनी आँखों पर पट्टी बाँधती हूँ । मेरे पति चाहे सुरूप हों चाहे कुरूप, वे नेत्र वाले हों या नेत्र-रहित; जब वे मुझे देखे बिना ही पत्नी रूप में ग्रहण कर सकते हैं, तो मैं भी उन्हें देखे बिना ही पति रूप में ग्रहण क्यों न करूँ ?”

यह कह कर गान्धारी ने कपड़ा मँगवा कर अपनी आँखों पर एक पट्टी बाँध ली ।

राजकुमारी का यह अद्भुत और प्रशंसनीय उदार भाव देख कर सखी अवाक् रह गई । उसके मुँह से ये ही शब्द निकले कि ‘धन्य ! धन्य !’ उसने कहा—“सखी ! मैं हारी । मैं एक साधारण मानवी हूँ और वैसी ही मेरी बातें हैं, तुम देवी हो और तुम्हारी बातें भी देवियों की सी हैं । तुमने इतने दिन महादेव और पार्वती की सेवा की है, तुम्हारा मिलन भी पार्वती और शङ्कर का सा मिलन हो ।”

पिता पर अविचल भक्ति रखने वाली गान्धारी ने अपनी रूप-लालसा पर पानी डाल दिया । उसने उदारता की हद कर दी । इस प्रकार उसने दिखला दिया कि स्त्रियाँ क्यों कर सच्ची अर्द्धांगिनी नारी बन सकती हैं और क्यों कर वे अपने पति को प्रसन्न करने का यत्न कर सकती हैं ।

सच है, सच्चा पतिव्रत इसे ही कहते हैं । पति के नेत्रहीन होने के कारण ही गान्धारी ने दृष्टि रखते हुए भी दृष्टि के उपयोग करने की इच्छा न की, आँखें रहते भी पट्टी बाँध कर वह आँखों से रहित हो गई ।

गान्धारी की सखी राजमाता के पास पहुँची । उसने वहाँ जाकर गान्धारी का कठिन प्रण और विवाह के सम्बन्ध में उसके विचार की चर्चा की ।

राजा सुबल भी उस समय अन्तःपुर में रानी के पास ही थे । उन्होंने यह संवाद सुन दाँतों तले उँगली दावी । एक राजा ही क्या ? जिस किसी ने गान्धारी का यह कृत्य सुना अवाक् रह गया । सभी ने गान्धारी के चरित्र और पितृभक्ति एवम् पातिव्रत्य की भूरि भूरि प्रशंसा की ।

इधर विवाह की स्वीकृति का संदेश लेकर दूत हस्तिनापुर रवाना किये गये, उधर युवराज शकुनि अपनी बहिन के विवाह के दिन की वाट जोहने लगे । निदान वे पिता की आज्ञा से राजकुमारी गान्धारी को लेकर हस्तिनापुर आये ।

आज कल समाज में जो रीति प्रचलित है उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और कतिपय इतर जातियों के यहाँ भी लड़के वाले कन्या वालों के यहाँ व्याहने जाते हैं । पर हम जिस समय की चर्चा करते हैं उस समय रस्म-रिवाज इसके विपरीत था । उस समय विवाह करने के लिए कन्या वर के घर लाई जाती थी और वहीं उसका पाणिग्रहण होता था । समय की रीति के अनुसार युवराज शकुनि ने भी भीष्म की अनुमति से विधिपूर्वक गान्धारी का हाथ धृतराष्ट्र के हाथ में दिया । इस तरह गान्धारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो गया ।

सुशीला गान्धारी के अच्छे व्यवहार से कौरव प्रति

छठा परिच्छेद ।



जकुमार धृतराष्ट्र का विवाह हो जाने के बाद महा-
मति भीष्म को यह फ़िक्र हुई कि पाण्डु और
विदुर का विवाह भी शीघ्र हो जाय । इसके
लिए वे सुन्दरी और सुशीला राजकन्याओं की
तलाश में रहने लगे । इसी अवसर पर महा-
राज कुन्तिभोज के यहाँ से कुन्ती के स्वयंवर में सम्मिलित होने
के लिए निमन्त्रण आया । भीष्म ने सहर्ष पाण्डु को स्वयंवर
में जाने के लिए आज्ञा देदी ।

स्वयंवर के दिन कुन्ती के विवाह की इच्छा से हजारों राजा
आये । महाराज पाण्डु भी पहुँचे । वे अपने सूर्य्य-सदृश तेज से
सारे राजाओं के तेज को मलिन करने लगे । यथासमय कुन्ती
स्वयंवर-सभा में पहुँची । उसके हाथ में फूलों की माला थी ।
लज्जा, उत्साह और भयजनित संकोच के कारण वह धीरे धीरे
चलती हुई बड़ी सुन्दरी लगती थी । उसने सब राजाओं के बीच
में बैठे हुए प्रतापी महाराज पाण्डु को भी देखा तथा लज्जा से
अपना सिर झुका कर अपने हाथ की माला उन्हीं के गले में
डाल दी । फिर शुभ लग्न में पाण्डु के साथ कुन्ती का विवाह
हो गया । कुन्ती ही का दूसरा नाम पृथा भी था ।

महाराज पाण्डु का कुन्ती के साथ विवाह हो जाने के कुछ दिन पीछे भीष्म ने सोचा कि पाण्डु का एक और विवाह करना चाहिए । मद्रदेश के राजा शल्य की बहिन माद्री के गुणों की प्रशंसा वे बहुत दिनों से सुन रहे थे । मद्रनरेश का वंश भी सम्बन्ध करने के योग्य ही था । इसी से महामति भीष्म ने मद्र देश की यात्रा की । जब राजा शल्य ने सुना कि कुरुकुल-प्रधान भीष्म आ रहे हैं तब आगे आकर उसने उनका स्वागत किया । भीष्म ने भी उसके बदले बड़ी शिष्टता दिखाई । हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र और आभूषण इत्यादि उपहारों द्वारा उन्होंने महाराज शल्य को सन्तुष्ट किया और पाण्डु के साथ माद्री का विवाह करने की बातचीत की । शल्य इस सम्बन्ध के लिए राजी हो गये । महामति भीष्म माद्री को लेकर हस्तिनापुर लौट आये और शुभ लग्न में पाण्डु के साथ उसका विवाह कर दिया ।

इसके कुछ समय पीछे राजा देवक की गुणवती कन्या पारशवी के साथ उन्होंने विदुर का भी विवाह कर दिया । यों तीन भतीजों के विवाह करके वे निश्चिन्त हो गये ।

धृतराष्ट्र, विदुर और पाण्डु प्रेमपूर्वक रहने लगे । तीनों भाई भीष्म के बड़े आज्ञाकारी थे, उन्हें वे पिता ही के तुल्य मानते और पूजा करते । यह बात सच है कि पाण्डु ही सिंहासन के मालिक थे, पर फिर भी वे बिना धृतराष्ट्र और विदुर की सलाह के एक भी काम न करते । पाण्डु की इस नम्रता पर धृतराष्ट्र परम सन्तुष्ट थे ।

कुछ दिनों के बाद भीष्म की आज्ञा से महाराज पाण्डु दिग्विजय को निकले और मगध, मिथिला, काशी आदि अनेक देशों के नृपतियों को अपने अधीन करके वे हस्तिनापुर लौट आये । भीष्म अपने भतीजे की इस विजय से बहुत प्रसन्न हुए ।

पतिव्रता गान्धारी, कुन्ती और माद्री में भी बड़ा प्रेम था । वे एक दूसरे के साथ स्नेह से रहतीं और प्रत्येक कार्य में एक दूसरे की सहायता करती थीं । अच्छे अच्छे वंशों की कन्यायेँ तो वे पहले ही थीं, पर सदृश की वधुयेँ होकर वे अच्छे व्यवहारों वाली क्यों न होतीं ? कुन्ती और माद्री को गान्धारी सदा ऐसी शिक्षा देती कि जिससे वे दोनों बहिन की तरह रहें और उनमें सवतिया डाह न पैदा हो । वे दोनों भी गान्धारी के गुणों और उसके शील पर मुग्ध होकर उसकी बड़ी सेवा करतीं । कुन्ती राजरानी होकर भी स्वयम् इस बात की देखभाल रखती कि गान्धारी को किसी बात का दुःख न होने पावे । वह प्रातःकाल उठ कर गान्धारी के पास जाती और चरण छू कर प्रणाम करती । गान्धारी प्रसन्न हो कर आशीर्वाद देती कि “तुम्हारा सुहाग पूरा रहे, और जैसे तुम धर्म पर इतनी दृढ़ रहती हो, वैसे ही तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र भी कुरुकुल में धर्म का साक्षात् अवतार ही हो” । यह आशीर्वाद पाकर कुन्ती का हृदय आनन्द से उछल पड़ता । महामति विदुर की धर्मपत्नी पारशवी बड़े सीधे स्वभाव की थीं, न उनमें राजकन्याओं की सी तुनक-मिजाजी ही थी और न विलासप्रियता । वे सदा

सादे कपड़े पहनती और सादा भोजन पाकर सन्तुष्ट रहतीं । गुरुजनों की सेवा करना और घर पर आये हुए अतिथियों का सम्मान करना ही वे सच्चे तपस्साधन का एक अङ्ग मानतीं ।

राजा पाण्डु को शिकार का बड़ा शौक था । इसी शिकार के शौक से एक समय वे अपनी रानियों समेत हिमालय पर्वत की दक्षिण वाली तराई में चले गये । वहाँ वे अपनी रानियों के साथ पर्वत की सैर करते और विशाल शालवृक्षों वाले वन में शिकार का सुख लूटते । राज्य का प्रबन्ध भीष्म और विदुर की सलाह से सुचारु रूप से चला जाता । भीष्म को पाण्डु से बड़ा प्रेम था, वे उनके सुपास के लिए ठीक समय पर रसद का सामान भेज दिया करते ।

एक बार शिकार खेलते खेलते पाण्डु वन में आगे की ओर बढ़ गये । वहाँ पर उन्होंने मृग के एक जोड़े पर तीर चला दिया । तीर लगते ही वह जोड़ा ज़मीन पर गिर गया । मृग के बाण इतनी ज़ोर से लगा था कि उसका प्राण निकलने लगा । मरने की पीड़ा से वह चिल्लाने लगा और आखिरकार उसके प्राण-पखेरू शरीर-पिंजर से निकल ही गये ।

इस दुर्घटना से महाराज पाण्डु को बड़ा दुःख हुआ । उन्हें मालूम होने लगा कि मानों उन्हें कोई शाप दे रहा है कि “जाओ ! स्त्री के साथ सुख से विहार करने वाले मृग पर बाण छोड़ कर तुमने बड़ी निठुरता का काम किया है, इसका प्रति-

फल भी तुम्हें जरूर भोगना पड़ेगा । तुम्हारी भी मृत्यु ऐसे ही समय पर होगी ।”

पाण्डु के मन में इस दुःख और खेद का विलक्षण प्रभाव पड़ा । उन्हें सुख-भोग से विरक्ति हो गई और वे वन में कठिन तपस्साधन करने लगे । रानियों को उन्होंने हस्तिनापुर लौटाना चाहा, पर वे लौटने को राज़ी न हुईं, उन्होंने पति के साथ रहने ही में सुख माना । पाण्डु ने ब्राह्मणों के द्वारा अपना यह सब हाल भीष्म और धृतराष्ट्र के पास कहला भेजा और यह भी कहा कि अब हम हस्तिनापुर न लौटेंगे ।

महाराज पाण्डु का यह संदेश सुन कर भीष्म को बड़ा दुःख हुआ । धृतराष्ट्र भी अपने प्यारे भाई की ऐसी दुःख-कथा सुन कर विकल हो उठे । बहुत दिनों तक वे बड़े व्याकुल रहे फिर भीष्म और विदुर के बहुत समझाने पर कुछ स्वस्थ हुए ।

इधर जङ्गल में पाण्डु ने अपनी इन्द्रियों को वश में रख रख कर बड़ी कठिन तपस्या की । उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित्त कर डाला और धीरे धीरे वे एक ब्रह्मर्षि के तुल्य हो गये । वे जङ्गल में रह कर प्रसन्नतापूर्वक अपने दिन बिताने लगे, पर सन्तान-हीन होने का दुःख वे न भूले । कहीं शरीर न छूट जाय इसी डर से वे जितेन्द्रिय होकर रहते थे ।

निदान एक दिन महाराज पाण्डु ने अपने इस दुःख की चर्चा अपनी रानियों से की । स्वामी के इस दुःख से कुन्ती के हृदय को बड़ी चोट लगा । उसने पाण्डु से कहा कि “एक समय जब

मैं कुआँरी थी, तब दुर्वासा ऋषि मेरे पिता के यहाँ अतिथि होकर आये थे और उन्होंने मेरी अतिथि-सेवा से प्रसन्न होकर एक मंत्र बतलाया था और कहा था कि इसके द्वारा तुम जिस देवता को याद करोगी वह तुम्हारे पास आकर तुम्हें एक पुत्र देगा । कुन्ती ने यह भी कहा कि दुर्वासा ऋषि की बतलाई हुई तरकीब भूठी नहीं हो सकती, बेचारे ब्राह्मण भूठ बोलना क्या जाने । आप आज्ञा दें तो मैं देवताओं को बुला कर उनसे सन्तान के के लिए प्रार्थना करूँ ?”

पाण्डु इस बात पर राजी हो गये । उन्हीं की सलाह से कुन्ती ने पहले पहल धर्मराज को बुलाया और धर्मराज ने कुन्ती को जो पुत्र दिया उसका युधिष्ठिर नाम पड़ा । इसी तरह कुछ दिनों पीछे अपने स्वामी की आज्ञा से उसने पवन देव को बुलाया और पवन के प्रसाद से महाबली भीमसेन पैदा हुए । पाण्डु ने कुन्ती से कहा कि इन्द्र को याद करके उनसे भी एक पुत्र लो । कुन्ती ने ऐसा ही किया और इन्द्र के द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र का नाम अर्जुन पड़ा ।

कुन्ती के पुत्रों की उत्पत्ति देख कर माद्री को भी पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई । उसने पाण्डु से अपनी इच्छा कह डाली । पाण्डु ने सोच-विचार कर कुन्ती से कहा कि किसी देवता को बुला कर माद्री को भी पुत्र दिला दो । कुन्ती ने माद्री से पूछा कि तुम किस देवता को बुलाना चाहती हो, उसने अश्विनीकुमार

का नाम लिया । निदान दोनों अश्विनीकुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र माद्री के उत्पन्न हुए ।

कुछ दिन पीछे पाण्डु ने कुन्ती से और पुत्र उत्पन्न करने के लिए कहा, पर कुन्ती बार बार देवताओं को दुःख देने पर राजी न हुई और लाचार होकर पाण्डु को इन्हीं पाँच पुत्रों पर सन्तुष्ट होना पड़ा ।

पाण्डु के ये पाँचों बालक बड़े सुलक्षण थे । आश्रम के रहने वाले मुनि और उनकी स्त्रियों को ये बड़े प्यारे थे । कुन्ती और माद्री जङ्गल में इनका लालन पालन करती और मुनि लोग इन्हें देख देख कर पुलकित होते । मुनियों की सलाह से वहीं पर उनके सब समयोचित संस्कार हुए और वहीं पर वे अपने माता-पिता को सुख देने लगे ।

सातवाँ परिच्छेद ।

उधर पाण्डु के वनवासी होने पर राज्य का भार धृतराष्ट्र पर पड़ा । हस्तिनापुर के राजसिंहासन के वे ही मालिक हुए । गान्धारी राजरानी हुई । आँखों में पट्टी बाँधे हुए भी वह अन्तःपुर का उत्तम प्रबन्ध करती । बाहर से आये हुए अतिथि ऋषि-मुनियों की तो वह बड़ी ही भक्त थी । पति-सेवा और अतिथि-सेवा दो ही गान्धारी के खास काम थे ।

इन्हीं दिनों महर्षि वेदव्यास एक बार भूखे प्यासे राजा धृतराष्ट्र के यहाँ आये । गान्धारी ने उनकी सेवा का खासा प्रबन्ध किया । महर्षि इससे बहुत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने गान्धारी से कहा, “तुम्हारा जो मनोरथ हो वही वर माँगो ।” यह सुन कर गान्धारी अत्यन्त पुलकित हुई । उसने कहा:—

हे महर्षि ! यदि आप मुझ पर इतनी कृपा करना चाहते हैं तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति के समान गुण वाले मेरे सौ पुत्र हों ।

व्यासदेव ने कहा—“तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी ।” यह कह कर वे चले गये ।

उधर बचपन में, कल्याणकारी शङ्करजी की सेवा करके

भी, गान्धारी ने सौ पुत्रों की माता होने का वरदान पाया था; इधर व्यासदेव से भी उसने यही वर माँग लिया । उसे वीर पुत्रों की माता बनने की बड़ी लालसा थी । पर गर्भवती होने पर भी दो साल तक उसके सन्तान न हुई । इधर हस्तिनापुर में पाण्डु के जेठे पुत्र युधिष्ठिर के जन्म लेने का समाचार पहुँचा । यदि गान्धारी के यथासमय पुत्र उत्पन्न होता तो वही जेठा होता, पर ऐसा न होने से, लोकाचार के अनुसार कुन्ती से पैदा हुआ पुत्र ही जेठा माना गया । गान्धारी को अपने इस दुर्भाग्य पर बड़ा दुःख हुआ । इसी दुःख-जनित क्रोध में आकर उसने अपने पेट पर एक घूँसा मारा । फल यह हुआ कि उसका गर्भ गिर पड़ा । उस समय गर्भमांस का एक पिण्ड मात्र था, उसमें सब अङ्ग न बन पाये थे ।

गान्धारी को अपनी इस भूल पर पश्चात्ताप हुआ—शोक हुआ । पर अब क्या हो सकता था ? अन्त में उसने उस गर्भ को फेंकने की तैयारी की । इसी समय व्यासदेव वहाँ आकर उपस्थित हुए । उन्होंने वह मांसपेशी देख कर गान्धारी से कहा:—

सौवलेयि ! तुमने यह क्या किया ?

गान्धारी ने महर्षि से अपनी भूल को छिपाना न चाहा, उसने कहा:—

महात्मन् ! मेरे गर्भवती होने के दो साल बाद तक प्रसव न हुआ । यदि यथासमय ऐसा होता तो मेरा पुत्र जेठा होता ।

ऐसा न होने से कुन्ती का पुत्र जेठा हुआ । इस पर मैंने अपने दुर्भाग्य को बहुत कोसा और उस पर दुःख किया । दुःख में मनुष्य की बुद्धि ठिकाने नहीं रहती, फिर मेरी नारी-बुद्धि क्यों कर ठीक रहती ? दुःख के साथ साथ अपने अभाग्य पर मुझे क्रोध भी आया और इसी कारण मेरे हाथ से ऐसा अनुचित काम हो गया । यह कह कर वह फूट फूट कर रोने लगी । रोते रोते उसने फिर कहा:—

हे देव ! आप ही ने मुझे सौ पुत्रों की माता होने का वर दिया था । अब मेरे अभिप्राय की आप ही रक्षा करें तो करें, मैं तो सब तरह से हताश हूँ । इस बहती हुई दुःख की अगाध धारा में डूबती हुई मुझ अभागिनी को आप ही की कृपा-नौका का सहारा है; आप ही मेरी रक्षा कीजिए ।

व्यासदेव को गान्धारी के विलाप पर बड़ी दया आई । उसे धीरज देते हुए उन्होंने कहा:—

हे सुबल-राजपुत्री ! तुम शोक न करो । बीते हुए दिनों पर और भूल से किये हुए कामों पर बुद्धिमान् लोग शोक नहीं करते । जो कुछ मेरे मुँह से निकल गया है परमात्मा की कृपा से वह मिथ्या न होगा । तुम्हारी यह सन्तान भी नष्ट न होने पावेगी, इसी मांस के पिण्ड से ही तुम्हारे एक सौ पुत्र होंगे ।

यह कह कर व्यासदेव ने आज्ञा दी कि घी से भरे हुए सौ घड़े मँगाये जायँ । फिर उस मांस-पिण्ड पर जल छिड़क कर उसके उन्होंने सौ टुकड़े किये और एक एक टुकड़े को एक एक

घड़े में डाल दिया । सब घड़ों में एक एक टुकड़ा डाल देने पर मालूम हुआ कि भूल से उस मांस-पिण्ड के एक सौ एक टुकड़े हों गये थे । इससे एक टुकड़ा बच रहा । उसे देख कर गान्धारी के मन में एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा हुई । यह बात मालूम होने पर व्यासदेव ने एक और घड़ा मँगवाया और उसमें उस टुकड़े को डाल कर उन्होंने कहा:—

इन घड़ों को किसी अच्छी जगह रख दो । दो वर्ष बाद इन्हें खोलना । इनसे तुम्हें सौ पुत्र और एक कन्या होगी ।

इसके अनन्तर जिस समय पाण्डु के दूसरे पुत्र भीमसेन का जन्म हुआ उसी समय धृतराष्ट्र के जेठे पुत्र दुर्योधन भी हुए । इस पुत्र के जन्म के समय अनेक प्रकार के अपशकुन हुए । प्रबल वेग से वायु बहने लगी, दिशाओं में जलन उठने लगी, यही नहीं बल्कि और भी भ्रमङ्गल चिह्न देख पड़ने लगे । उन्हें देख कर राजा धृतराष्ट्र बहुत घबड़ाये । अच्छे अच्छे कर्म-निष्ठ ब्राह्मणों और भीष्म तथा विदुर सरीखे विद्वानों को बुला कर उनसे उन्होंने कहा:—

महाशयगण ! इस समय आप सब लोग उपस्थित हैं । राजपुत्र युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं । उनके गुणों की भी बड़ी भारी प्रशंसा सुनी जा रही है । इसमें सन्देह नहीं कि कुरुकुल की मान-रक्षा वे ही करेंगे; और वे ही राज्याधिकारी होंगे इसमें तो कुछ कहना ही नहीं । पर इस समय हमारी यही जिज्ञासा

है कि हमारा यह जेठा लड़का युधिष्ठिर के बाद राज्य पावेगा या नहीं ? इस सम्बन्ध में आपने क्या सोचा है ? बतलाइए ।

ज्योंही धृतराष्ट्र की बात पूरी हुई कि कौवे काँव काँव करने लगे । सियारिने रोने लगीं और भाँति भाँति के अमङ्गल-सूचक अशकुन होने लगे ।

ब्राह्मणों और बुद्धिमान् विदुर ने इन सब लक्षणों को देख कर कहा कि “हे राजन् ! आपके इस जेठे पुत्र के पैदा होते ही इस प्रकार के अशकुन हुए, इससे जान पड़ता है कि इसी दुरात्मा के कारण कुरुकुल का संहार होगा । हमारी राय में इसे परित्याग कर देना ही अच्छा है, इसे त्याग न करने से बड़े बड़े अनर्थ उठेंगे । महीपाल ! यदि वंश-रक्षा करने की इच्छा हो तो इसे परित्याग कर दीजिए, अभी आपके और भी निन्नानवे पुत्र होंगे । उनको लेकर आप सुखपूर्वक समय बिता सकते हैं । इसे छोड़ देने ही में आपका और कुरुकुल का कल्याण है ।”

उन लोगों ने फिर कहा कि “पृथ्वीपति महाराज ! शास्त्र-कार लोग कह गये हैं कि यदि एक जन को छोड़ देने से कुल की रक्षा होती हो तो उसे अवश्य छोड़ देना चाहिए; यदि कुल को छोड़ने से गाँव की रक्षा होती हो तो कुल भी छोड़ देना अच्छा है; यदि गाँव को छोड़ देने से देश की रक्षा होती हो तो गाँव भी छोड़ देना कर्तव्य है; और अपनी रक्षा के लिए तो देश को भी छोड़ देना चाहिए । इससे आप अपनी रक्षा और अपने कल्याण के लिए इसका अवश्य ही परित्याग करें ।”

धृतराष्ट्र विदुर का कहना बहुत मानते थे, विदुर की बातों की वे बड़ी कदर करते थे । पर इस समय वे बड़े असमंजस में पड़े । एक ओर विदुर का कहना और दूसरी ओर पुत्र का स्नेह, दोनों ही बातें बड़े मार्के की थीं । न वे विदुर के कहने ही को टाल सकते थे और न पुत्र का स्नेह ही उनसे छूट सकता था । पर पुत्र-स्नेह एक ऐसी चीज़ है कि जिसके सामने लोग बड़े से बड़े कर्तव्य भी भूल जाते हैं । इससे पुत्र-स्नेह में आकर उन्होंने विदुर की बात का कुछ जवाब न दिया और उसे टाल दिया । वे दुर्योधन का परित्याग न कर सके । सच है, पुत्र किसे प्यारा नहीं होता ?

दुर्योधन के जन्म के पीछे एक ही मास के अन्दर व्यास-देव की युक्ति के फल से युयुत्सु राजा, दुःशासन, दुःसह, दुःशल, जलसन्ध, सम, सह, विन्द, अनुविन्ध, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रधर्षण, दुर्मर्षण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवत्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नन्द, उपनन्दक, चित्रवाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विर्मोचन, अयोवाहु, महावाहु, चित्राङ्ग, चित्रकुण्डल, भीमवेग, भीमवल, वलाङ्गी, बलवर्द्धन, उग्रायुध, सुपेण, कुण्डधार, महोदर, चित्रायुध, निपन्दी, पाशी, वृन्दारक, दृढवर्मा, दृढक्षत्र, सोमकीर्ति, अनुदर, दृढसन्ध, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सद, सुवाक्, उग्रश्रवाः, उग्रसेन, दुष्पराजय, अपराजित, कुण्डशायी, विशालाक्ष, दुराधर,

दृढहस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चाः, आदित्यकेतु, बह्वाशी, नाग-
दत्त, अग्रयायी, कवची, क्रथन, कुण्ड, धनुर्धर, उग्र, भीमरथ,
वीरबाहु, अलोलुप, अभय, अनाधृष्य, कुण्डभेदी, विरावी,
चित्रकुण्डल, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घरोम, दीर्घबाहु, व्यूढोरु,
कनकध्वज, कुण्डाशी, विरजाः ये निन्नानवे पुत्र और दुःशला
नाम की एक कन्या और उत्पन्न हुई ।

इन सौ पुत्रों की उत्पत्ति, और जिस तरकीब से इनकी
उत्पत्ति हुई उस पर आज कल के बहुत कम लोगों को विश्वास
होगा । पर विज्ञान के सूक्ष्म तत्त्वों के समझने वाले शायद इसे
कल्पना न कहें । जिस भाँति आज कल के चतुर वैज्ञानिक और
माली लोग, एक ही वृक्ष से सैकड़ों कलमों की सृष्टि करते हैं,
इसी भाँति सर्वथा सम्भव है कि वेदव्यास ने विज्ञान के बल से
ऐसी तरकीब की हो कि गान्धारी के गर्भ से उत्पन्न मांसपेशी
के एक सौ एक टुकड़ों द्वारा सौ पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हो
गई हो । आज कल के वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि
वृक्षों में भी जीव हैं । फिर जब जीवधारी वृक्षों की टहनियों
द्वारा कलमें लग सकती हैं और वे ही कलमें बढ़ कर बड़ी बड़ी
डालियों के रूप में परिणत हो सकती हैं, तो इस भाँति गान्धारी
के सौ पुत्रों की उत्पत्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं । विज्ञान
की बदैलत मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता ? जिनकी कभी
हम स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकते थे और जिनके सच्चे
होने पर पहले हमें कभी विश्वास न आता, ऐसी ही बहुत सी

चीजें और बहुत से आविष्कार आज कल विज्ञान की वदौलत हमारे देखने सुनने में आते हैं ।

हमें यह भी मानना पड़ेगा कि इसी भारतवर्ष में प्राचीन समय में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने जन्म लिया है । और विज्ञान के गूढ़तत्त्वों को खोज निकालने और उनका उपयोग करने में यह देश अन्य देशों से बड़ा चढ़ा था । इससे, महाभारत ऐसे मान्य ग्रन्थ में उल्लिखित, गान्धारी के पुत्रों की उत्पत्ति सरीखी बातों को भी हमें झूठ न कहना चाहिए ।

जो बात आज कल असम्भव है वह किसी समय सम्भव रही हो तो भी आश्चर्य नहीं, और जो बात आज कल सम्भव है वह किसी समय असम्भव रही हो तो भी आश्चर्य नहीं । परमात्मा लीलामय है !



इस बात पर राजी न हुई, पर जब माद्री ने कहा कि पुत्रों का जिस प्रकार लालन-पालन तुम कर सकती हो उस प्रकार मुझ से न होगा—तब उसने माद्री की बात मान ली ।

माद्री फिर पति के मृतक शरीर से लिपट गई और उसने प्राण छोड़ दिये ।

राजर्षि पाण्डु और उनकी पत्नी माद्री ने इस प्रकार एक ही साथ परलोक की राह ली । यह देख कर उस आश्रम के देवतुल्य ऋषियों और मन्त्रविद् ब्राह्मणों ने सलाह की कि जब तक पाण्डु इस वन में रहे हमारे ही आश्रम में रहे, इससे उनकी और उनकी स्त्री की मृतक देह और उनके पुत्रों को हस्तिनापुर पहुँचा देना हमारा कर्तव्य है । यह सोच कर उन्होंने पाण्डु के मृत शरीर और पाँचों पाण्डवों को साथ लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की । विधवा कुन्ती भी पुत्रों के साथ साथ सब के आगे चली । पुत्रों के स्नेह के कारण और पाण्डु का नाम जीवित रखने के लिए माद्री के अनुरोध से उसने प्राण न छोड़े ।

यथासमय ये लोग हस्तिनापुर पहुँचे । यह खबर सुन कर भीष्म आदि बड़े बूढ़े कौरव, सत्यवती आदि माताये और अन्य नगरनिवासी प्रजाजन ऋषियों से मिलने आये । ऋषियों की उन्होंने समुचित पूजा की । कुछ शान्त होने पर ऋषियों ने पाण्डु के वनवास से लेकर मृत्यु-समय तक की बातें एक एक करके भीष्म को सुनाईं । सब बातें कह कर उन्होंने पाण्डु के मृतक

शरीर और पाँचों पुत्रों को भीष्म के सिपुर्द किया और अपने आश्रम को लौट गये ।

धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने शास्त्र की रीति से पाण्डु और माद्री के मृतक संस्कार की व्यवस्था की । एक पवित्र स्थान में घी से भीगे हुए उनके मृत शरीरों का चन्दन की चिता पर एक ही साथ दाह-कर्म किया गया ।

पाण्डु की माता अम्बालिका पर मानो वज्रपात हुआ । वह बहुत रोई । उसे रोती हुई देख कर कुन्ती भी रोने लगी । कोई भी उस समय ऐसा न था जो उनका विलाप देख कर न रोया हो ।

दस दिन बीत जाने पर भीष्म धृतराष्ट्र आदि ने एकत्र होकर दसवाँ इत्यादि किया और सूतक दूर होने पर कुन्ती और पाण्डवों को साथ लेकर वे लोग राजमहलों को लौट आये ।

इस शोक से परम दुःखित होकर सत्यवती, अम्बिका और अम्बालिका तीनों वन को चली गईं, वहाँ पर कठिन तपस्साधन करके उन्होंने इस असार संसार से विदा ली ।

गान्धारी को भी पितृहीन पाण्डवों को देख कर बड़ा शोक हुआ । उसने शोकाकुल कुन्ती को भी बहुत समझाया और सान्त्वना दी । वह पाण्डवों पर उतना ही प्रेम करने लगी जितना वह अपने पुत्रों पर करती थी । धन्य है ! गान्धारी सदृश रमणियाँ आज कल इस अभागो भारत में कहाँ हैं जो अपने ही पुत्रों के समान दूसरे के भी पुत्रों से प्रेम करें ।

गान्धारी और धृतराष्ट्र ने पाण्डवों से इतना स्नेह और प्रेम

किया कि कुन्ती भी धीरे धीरे पति-शोक को भूल गई । पुत्रों के लिए उसे विशेष चिन्तित न होना पड़ा ।

दुर्योधनादि सौ भाइयों के साथ पाण्डव भी आनन्दपूर्वक रहते, उन्हीं के साथ भोजन करते और साथ ही साथ खेलते थे । पाण्डव लोग बाहुबल और बुद्धिबल में दुर्योधनादि की अपेक्षा श्रेष्ठ थे, इससे प्रजा का अनुराग उन पर अधिक था और प्रजागण सदा उनकी प्रशंसा करते । दुर्योधन को यह बात अच्छी न लगती ।

सबसे बड़े पाण्डु-पुत्र युधिष्ठिर तो बड़े क्षमाशाली थे । वे साक्षात् धर्म की मूर्ति थे । सब भाइयों के साथ स्वयं दुर्योधन भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखता था । पर भीमसेन से इन लोगों की न बनती थी । भीमसेन थे भी बड़े उपद्रवी, वे नाहक दुर्योधनादिक कौरवों को तङ्ग किया करते । साथ खेलते खेलते भीमसेन कौरवों के बाल पकड़ कर खींच लेते, उन्हें एक दूसरे से भिड़ा कर दवा देते । कभी किसी को पीट देते और कभी किसी को रुला देते । एक बार जल-विहार करते समय उन्होंने दुर्योधन के एक भाई को अथाह जल में डुबो दिया, उसे डूबता हुआ देख कर दुर्योधन ने युधिष्ठिर से शिकायत की । युधिष्ठिर ने भीमसेन को डाँटा और कहा : इसे शीघ्र जल से निकालो । भीम ने उसे जल से निकाल दिया; पर दुर्योधन को भीम की यह उद्दण्डता बड़ी बुरी लगी । वह उसी दिन से भीम को शत्रु की तरह देखने लगा ।

भीमसेन पराक्रमी भी बड़े थे । दुर्योधनादि कौरवों में

दुर्योधन तो ज़रूर उनके जोड़ का था, पर और भाई उनका मुकाबिला नहीं कर सकते थे । इसी से दुर्योधन इनसे ईर्ष्या भी मानने लगा । उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ा बुरा हुआ, बिना भीमसेन को यमलोक भेजे हम किसी तरह सुख से न रहने पावेंगे । इसी से वह मौका ढूँढ़ने लगा कि कब भीमसेन को मार वह निश्चिन्त हो ।

भीमसेन ही भृगुदे का घर थे । दुर्योधन उन्हीं से अधिक नाराज़ था । अन्य पाण्डवों से उसको इतना कष्ट न था । पर और लोग (पाण्डव) भीमसेन का पक्ष लेते इसी से वह उनसे भी नाराज़ था ।

यह बात कुन्ती और गान्धारी को भी मालूम हुई कि दुर्योधन और भीमसेन में अनबन है । इधर कुन्ती ने भीमसेन को और गान्धारी ने दुर्योधन को समझाया कि बन्धु-विरोध बड़ी बुरी बात है, आपस में सब लोग हिल मिल कर रहो, पर भीमसेन का कौरवों पर अत्याचार और अन्याय दुर्योधन को इतना असहनीय हो उठा था कि उसके मन में एक बात भी न बैठी । उसने भीमसेन के नाश करने का प्रण ही कर लिया ।

एक दिन दुर्योधन ने भीमसेन को मारने की एक युक्ति सोची । नदी के किनारे उसने सैकड़ों डेरे लगवा दिये और एक बहुत ही रमणीय खेल-कूद की जगह बनवाई । वहाँ खाने पीने की सामग्री भी भेज दी गई । इस प्रकार की तैयारी करके दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा:—

आज हमने नदी किनारे डेरे वगैरह भेज दिये हैं और खाने की सामग्री भी भेज दी है । आज सब लोग जलविहार करने चले ।

युधिष्ठिर कपटी तो थे नहीं, उन्होंने यह बात मान ली । मनमानी सवारियों पर चढ़ कर दुर्योधनादि सौ कौरव और पाँचों पाण्डव नदी के किनारे पहुँचे । वहाँ की अनुपम शोभा देख कर पाण्डव लोग बहुत प्रसन्न हुए ।

कुछ देर तक इधर उधर सैर करके सब लोग डेरों में लौट आये । कौरव और पाण्डव साथ ही साथ भोजन करने लगे । अनेक प्रकार के व्यञ्जनों की खूब प्रशंसा होने लगी । जो चीज़ एक को अच्छी लगती वह दूसरे को दे देता । इसी बीच में दुर्योधन ने विष मिली मिठाई भीमसेन को दे दी । उन्होंने वह मिठाई खा ली ।

भोजन कर चुकने के कुछ समय बाद सब लोग जल-विहार करने लगे । जब जल-विहार करते करते शाम हो गई तो सब लौटने लगे । पर विष के प्रभाव से भीमसेन नदी के किनारे ही पड़े रह गये । दुर्योधन की उन्हीं पर नज़र थी । इधर सब लोग अपने अपने कपड़े पहिनने में व्यस्त थे, घात पाकर दुर्योधन ने भीम को अथाह जल में डुबो दिया । उस दिन यह बात किसी को मालूम न हुई । सब लोग घर को लौट आये । दुर्योधन भी प्रसन्न मन लौट आया ।

घर लौट आने पर युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि भीमसेन नहीं

लौटे । उन्हें बड़ा शोक हुआ, उन्होंने वह बात कुन्ती से कही । कुन्ती ने विदुर से कहा कि दुर्योधन भीमसेन का सदा अनिष्ट चेतन करता है, इससे आज भीम को न लौटने पर न जाने मेरा चित्त क्यों बबड़ाता है । मुझे दुर्योधन के कामों पर सन्देह रहा करता है ।

विदुर ने कहा कि अपने मन का सन्देह तुम किसी से भूल कर भी न कहना । जिसका परमात्मा रक्षक होता है उस का कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता । परमेश्वर चाहेगा तो भीमसेन जल्द ही लौट आवेंगे ।


विदुर की बात ठीक ही निकली । ईश्वर की कृपा से भीमसेन उस वार किसी तरह बच गये और कुछ दिनों के बाद लौट कर उन्होंने अपना सब हाल कह सुनाया ।

युधिष्ठिर बड़े समझदार थे । दुर्योधन की दुष्टता जान कर भी भीमसेन को उन्होंने मना कर दिया कि भाई ! यह बात किसी से कहना नहीं ।

पर जिस दिन दुर्योधन ने यह चाल चली उसी दिन से पाण्डव लोग फूँक फूँक कर पैर धरने लगे । उनको दुर्योधन के प्रत्येक कृत्य में सन्देह होने लगा ।

दुर्योधन और उनके साथियों ने भी जब देखा कि भीमसेन इस वार बच गये तो वे भी भाँति भाँति की मिथ्या बातें बना कर राजा धृतराष्ट्र का मन पाण्डवों की तरफ से फेरने की चेष्टा करने लगे ।

नवाँ परिच्छेद ।



योधन और उसके भाई पाण्डवों से भले ही द्वेष रखते हैं पर गान्धारी पाण्डवों पर वैसाही प्रेम-भाव रखती थी जैसा कि अपने पुत्रों पर । महाराज धृतराष्ट्र भी अपने भतीजों को पुत्र-वत् ही मानते थे ।

कौरव और पाण्डव दोनों ही धृतराष्ट्र को बराबर प्यारे थे । पाण्डु के पुत्र होने के कारण युधिष्ठिरादि पाँचों भाई पाण्डव कहलाते थे, और कुरु के वंशज होने के कारण पतिव्रता गान्धारी के पुत्र कौरव, पर वास्तव में पाण्डव भी कौरव ही थे, क्योंकि वे भी कुरु के वंशज थे ।

धृतराष्ट्र की आज्ञा से कौरव और पाण्डवों को साथ ही शिक्षा दी जाने लगी । गान्धारी के सौ पुत्र और पाण्डु के पाँचों पुत्र साथ ही शिक्षा पाने लगे । शास्त्र की शिक्षा के अतिरिक्त शस्त्र-शिक्षा का भी प्रबन्ध हुआ । क्योंकि क्षत्रियों के लिए शस्त्र-शिक्षा ही अधिक आवश्यक थी ।

महर्षि शरद्धान के पुत्र कृप हस्तिनापुर ही में रहते थे । अपने पिता से उन्होंने शस्त्र-विद्या की अच्छी शिक्षा पाई थी,

यहाँ तक कि उन्हें लोग 'आचार्य्य' कहते थे । ये ही कृपाचार्य्य सब राजकुमारों को अस्त्र-विद्या सिखाने लगे ।

जब कौरवों और पाण्डवों ने गुरु कृपाचार्य्य से साधारण अस्त्र-शिक्षा प्राप्त कर ली तब महामति भीष्म उन्हें ऊँचे दरजे की शिक्षा देने के इरादे से एक ऐसा गुरु ढूँढने लगे जिसे अस्त्र-विद्या सांगोपांग आती हो और जो बाण चलाने में सबसे अधिक कुशल हो ।

संयोग से महात्मा कृपाचार्य्य के बहनेई द्रोणाचार्य्य हस्तिनापुर आये । ये महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे । महर्षि अग्निवेश के आश्रम में इन्होंने धनुर्वेद और अस्त्रविद्या की शिक्षा पाई थी ।

भीष्म ने द्रोणाचार्य्य का बड़ा शिष्टाचार किया । और उनसे धृतराष्ट्र और पाण्डु को अस्त्र-शस्त्र चलाने की शिक्षा देने के लिए प्रार्थना की । भीष्म के शिष्टाचार से अत्यन्त प्रसन्न होकर द्रोण ने कहा:—

महात्मा परशुराम ने बिना किसी कौर कसर के हमें धनुर्वेद की शिक्षा दी है, उनके पास जितने दिव्य दिव्य अस्त्र-शस्त्र थे वे भी इन्होंने हमें दे दिये हैं । इससे हम आपके राजकुमारों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकेंगे ।

भीष्म ने द्रोणाचार्य्य को बहुत सा धन देकर राजकुमारों को उनके सिपुर्द किया और गुरु द्रोण उन्हें शस्त्र-शिक्षा देने लगे ।

राजकुमारों के साथ ही साथ द्रोणाचार्य्य के पुत्र अश्वत्थामा

और सारथि के द्वारा पाले गये कुन्ती के पुत्र वसुसेन भी शस्त्र-विद्या सीखते थे । पाण्डु से विवाह होने के पहले ही दुर्वासा ऋषि के बताये हुए मन्त्र से सूर्यदेव को बुला कर कुन्ती ने परीक्षा की थी कि ऋषि का बतलाया हुआ मंत्र सच्चा है या भूठा । फल यह हुआ कि ऋषि का मंत्र सच्चा निकला और सूर्यदेव के अंश से कुन्ती के एक पुत्र पैदा हुआ । कुन्ती उस समय व्याही न थी, इससे उसने उस बालक को जल में डाल दिया । संयोग से कुरु-राज के सारथि अधिरथ ने उस बालक को बहते हुए देखा और वे उसे उठा लाये । उनकी स्त्री ने उसका लालन-पालन किया और उसका नाम पड़ा वसुसेन । ये ही वसुसेन दुर्योधन के बड़े मित्र थे, इन्हीं का नाम कर्ण भी था । शस्त्रविद्या सीखने वाले हमजेलियों में अर्जुन बड़े तेज निकले । बाण चलाने में उन्हें बड़ा अभ्यास हो गया । इसीसे अश्वत्थामा अर्जुन से ईर्ष्या करने लगे । इधर दुर्योधन को भी अर्जुन से ईर्ष्या थी । फिर क्या था ? अश्वत्थामा भी दुर्योधन के मित्र हो गये ।

जब गुरु द्रोण अपने शिष्यों को सब विद्या सिखा चुके तब उनकी परीक्षा हुई । गदा चलाने में भीमसेन और दुर्योधन बराबर रहे । बाण चलाने में अर्जुन सबसे बढ़ कर निकले; उन्होंने तीर तलवार चलाने के सैकड़ों अद्भुत अद्भुत कर्तब दिखाये । पर जितने काम उन्होंने कर दिखाये, वे सब कर्ण ने भी कर दिखाये । दुर्योधन इससे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण को अङ्गदेश का राज्य देकर उनके साथ मित्रता कर ली ।

अर्जुन की बराबरी का दावा सिर्फ कर्ण को था । युधिष्ठिर को कर्ण के पराक्रम की बात मालूम थी । दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता का होना युधिष्ठिर को अच्छा न लगा । वे कुछ चिन्तित से हो गये । यह तों किसी को मालूम था ही नहीं कि कर्ण भी कुन्ती के ही पुत्र हैं ।

दुर्योधन पाण्डवों से पहले ही से असन्तुष्ट था । इधर भीमसेन का व्यवहार भी कौरवों के साथ वैसा ही होने लगा । दुर्योधन को यह और भी बुरा लगा । धृतराष्ट्र भी पाण्डवों के पराक्रम, और अपने पुत्रों की कमजोरी की बात जान गये ।

एक दिन धृतराष्ट्र ने अपने नीतिज्ञ मन्त्री कणिक को अपने पास बुलाया । कणिक बड़ी चाल का आदमी था । उसने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि महाराज ! शत्रुओं से आपको बड़ा डर है । उस डर को दूर करने के लिए पाण्डवों का जड़ से नाश कर देना चाहिए । कणिक ने यह भी कहा कि छोटे से छोटे शत्रु की भी उपेक्षा करना ठीक नहीं; राजनीति का यही नियम है ।

दुर्योधन इत्यादि की भी यही सलाह थी । धृतराष्ट्र का मन कुछ विचलित सा हो गया । परन्तु अन्याय और अधर्म करने के लिए उनका साहस न होता, इसीसे उनसे कुछ करते धरते न बना ।

पहले तो धृतराष्ट्र पाण्डवों के साथ अन्याय करने को किसी तरह राजी न हुए । पर दुर्योधन ने इस पर बड़ा हठ किया । उसने धृतराष्ट्र से कहा:—

हे पिता ! पाण्डवों के कारण रात को हमें नींद नहीं आती । हम शोक की आग में जला करते हैं । इस कष्ट से आप हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो हम जीते न वचेंगे ।

पुत्रस्नेह के कारण धृतराष्ट्र का चित्त डाँवाडोल हो उठा । वात भी सब सधी थी । एक दिन राज-सभा में किसी चतुर जन ने वारणावत नामक नगर की बड़ी तारीफ़ की । पाण्डव लोग उसे देखने के लिए बड़े उत्सुक हुए । इसी अवसर पर धृतराष्ट्र ने कहा कि हे पुत्र ! सभी लोग वारणावत की प्रशंसा करते हैं, इच्छा हो तो तुम भी जाकर देख आओ ।

युधिष्ठिर इस बात पर राजी हो गये । उनके मन में उसी समय कुछ सन्देह सा भी पैदा हुआ पर उन्होंने उसकी परवाह न की ।

इधर दुर्योधन ने एक मन्त्री को साधा; उसका नाम था पुरोचन । वह वारणावत को पहले ही से भेज दिया गया; वहाँ पहुँच कर उसने लाख का घर बनवाया । कुछ दिनों के बाद शुभ मुहूर्त में पाण्डव लोगों ने भी हस्तिनापुर से वारणावत के लिए यात्रा की । विदुर को किसी तरह दुर्योधन की कूट नीति की खबर मालूम हो गई, उन्होंने इशारे से युधिष्ठिर को बतला दिया कि शत्रु की चालों से होशियार रहने की जरूरत है । युधिष्ठिर भी उनके इशारे को समझ गये ।

जब पाण्डव लोग वारणावत पहुँचे; पुरोचन ने नगर-निवासियों को साथ लेकर उनका बड़ा स्वागत किया । सब लोग उसी लाख-

वाले मकान में जा कर ठहरे, जो इस तरकीब से बनाया गया था कि आग लगाते ही जल उठे। वहाँ रहने पर युधिष्ठिर को लाख और चर्बी मिली चीजों की दुर्गन्धि सी ज्ञात हुई। विदुर के इशारे को वे समझ तो गये ही थे, दुर्योधन की चाल खुल गई। वे होशियार हो गये और घर के भीतर से बाहर को एक सुरङ्ग खोदने लगे। थोड़े ही दिनों में वह छिपी हुई सुरङ्ग उन्होंने तैयार करली। फिर पाण्डवों ने ही उस घर में आग लगा दी। वे तो सुरङ्ग द्वारा बाहर निकल गये, पर पुरोचन उसी में जल मरा। वे चलते चलते एक जङ्गल में, जो दक्षिण की ओर था, जा पहुँचे।

माता कुन्ती के समेत वे जङ्गल में आनन्द से रहने लगे। कोई उन्हें पहचान न सके इस लिए उन्होंने अपना वेश भी बदल डाला। कुछ भी हो, फिर भी जङ्गल में तरह तरह की आफतें रहती हैं; पर पाण्डव लोग बड़े पराक्रमी और धैर्यशाली थे, वे उन तकलीफों को झेलते गये।

एक दिन जङ्गल ही में व्यासदेव से उन लोगों की भेंट हो गई। उनकी सलाह से पाण्डवों को अपनी माता समेत एकचक्रा नगरी में आना पड़ा। वहाँ सब लोग एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। समय के फेर ने यहाँ तक कर दिया कि बेचारे राजपुत्र भिक्का माँग लाते और उसी से पेट भरते। वही राजपुत्री, राजरानी और राजमाता कुन्ती उसी भिक्का से पाये हुए अन्न को अपने पुत्रों को बाँट कर खिलाती और स्वयम् भी कुछ खा लेती। फिर भी

कुन्ती के पुत्र धर्म को नहीं भूले; वे उस ब्राह्मण की भी सहायता करते रहे, जिसके घर में वे रहते थे ।

इधर हस्तिनापुर में ख़बर पहुँची कि वारणावत् में जिस घर में पाण्डव लोग रहते थे वहाँ आग लग गई और सब स्वाहा हो गया । लोगों ने जाना कि बेचारे पाण्डव भी जल मरे, दुर्योधनादि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए । धृतराष्ट्र ने भी दिखावे के लिए बड़ा शोक किया । विदुर इस रहस्य को जानते थे, पर रहस्य छिपाने के लिए दिखावे में वे भी बहुत रोये ।

अन्तःपुर में पतिव्रता गान्धारी ने भी यह ख़बर सुनी । उसे क्या ख़बर थी कि यह चक्र-जाल उसी के दुरात्मा पुत्रों का रचा हुआ है । वह बेचारी बहुत रोई । उसका रोना सच्चा रोना था । उसे इस ख़बर से बड़ा धक्का पहुँचा, उसे कुन्ती के लिए उतनी ही वेदना हुई जितनी एक सगी बहिन के लिए होनी चाहिए, और पाण्डवों के लिए भी उतना ही दुःख हुआ जितना कि अपने पुत्रों का अनिष्ट होने से होता ।



कन्या का स्वयंवर है । वड़े वड़े प्रतापी नृपतिगण वहाँ पर आयेंगे । हम भी वही स्वयंवर देखने जाते हैं । देखें राजकन्या किस राजा के गले में जयमाल डालती है ।

यह सुनते ही अर्जुन की दाहिनी भुजा फड़कने लगी, उनके शरीर में रोमाञ्च हो आया और अपने धनुष की ओर उन्होंने एक मर्म-भरी दृष्टि डाली । फिर भी वे मौन ही रहे । पर युधिष्ठिर को वहाँ चलने के लिए राजा जान कर वे बहुत प्रसन्न हुए ।

ब्राह्मणों के साथ साथ पाण्डव लोग भी पाञ्चाल नगर में जा पहुँचे । देश-देशान्तर से आये हुए राजा लोग जहाँ उतरे थे उन सब स्थानों और नगर को अच्छी तरह देख कर एक कुम्हार के घर में वे जा ठहरे ।

वहाँ पर उन्होंने सुना कि राजा द्रुपद का यह प्रण है कि हम अपनी कन्या का विवाह उसी धनुर्धारी के साथ करेंगे जो हमारे निश्चित लक्ष्य को विद्ध कर लेगा ।

पर निश्चित लक्ष्य ऐसा वैसा न था जिसे साधारण तीरन्दाजों के तीर वींध देते । लक्ष्य भेदने के लिए जो धनुष बनवाया गया था उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा कर झुकाना ही कठिन काम था; फिर लक्ष्य वींधने की बात का क्या ठिकाना ! किस की ताव थी जो आकाश-यन्त्र में लटकते और हिलते हुए निशाने को वींध दे !

एक ओर द्रौपदी की सुन्दरता की चर्चा इस प्रकार फैल चुकी थी कि लोग सोचते थे शायद तीनों लोकों में द्रौपदी

के बराबर सुन्दरी रमणी नहीं; दूसरी ओर राजा द्रुपद के प्रण की बात भी इतनी प्रसिद्ध हो चली थी कि अधिक लोग तो उसकी पूर्ति असंभव ही मानते थे । पर द्रौपदी के रूप की जीत हुई । राजा लोग द्रौपदी के पाने की इच्छा न छोड़ सके । कुरुराज दुर्योधन, उनके मित्र कर्ण, यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण, बलदेव, शल्य, शिशुपाल जरासन्ध, इत्यादि बहुत से राजा आये ।

स्वयंवर के मैदान में राजा लोगों की भीड़ थी । दुर्योधन का राजसी ठाट उनके कुरुराज होने की गवाही दे रहा था । इधर कर्ण का चमकता हुआ चेहरा और ऊँचा ललाट अलग ही उनके तेज की गवाही दे रहा था । श्रीकृष्णचन्द्र और बलदेव की मण्डली सब से न्यारी थी । शिशुपाल, जरासन्ध, शल्य इत्यादि नृपतिगण भी ठाट-बाट में कम न थे । वहीं एक कोने में ब्राह्मणों के साथ साथ पाँचों पाण्डव भी खड़े थे । जैसे बदली के भीतर छिपे हुए सूर्य का तेज छिपा नहीं रहता इसी प्रकार अर्जुन का तेज भी छिप न सका । श्रीकृष्ण इस बात को ताड़ गये । अर्जुन को पहचान कर वे बहुत प्रसन्न हुए ।

राजकुमारी द्रौपदी भी अपने भाई धृष्टद्युम्न के साथ सुनहरी जयमाला लिये हुए रङ्ग-भूमि में पधारी । उसकी अलौकिक सुन्दरता देख कर सब राजा मुग्ध हो गये, उन्हें अपने कर्तव्य का ध्यान जाता रहा । पर महाबली कर्ण ने द्रौपदी की ओर निगाह भी न डाली—वे बराबर निशाने की ओर ही देखते रहे । उधर ब्राह्मण-वेशधारी अर्जुन ने एक बार द्रौपदी को देखा; फिर

उस पर से उन्होंने अपनी निगाह हटा ली और निशाने को फिर देखा और देख कर पुलकित हो उठे ।

इधर कुरुराज दुर्योधन, शल्य, वज्राधिपति, शिशुपाल इत्यादि ने अपना अपना पराक्रम दिखलाया, पर बेकार ! निशाना मारना तो दूर रहा वे धनुष को उठाकर चढ़ा भी न सके । इससे वे लोग बहुत लज्जित हुए । उनके चेहरे सूख गये और उन्होंने द्रौपदी की आशा छोड़ दी ।

अपने प्यारे मित्र दुर्योधन को लौटते हुए देख कर कर्ण में अदम्य उत्साह हो आया । वे झुपट कर धनुष के पास जा पहुँचे । पहुँचते पहुँचते उन्होंने बड़ा पराक्रम दिखलाया । उस धनुष को उन्होंने उठा लिया, उसे झुका दिया और उस पर प्रत्यक्षा भी चढ़ा दी । उधर दुर्योधन अपने मित्र की प्रशंसा करने लगे, उन्होंने कर्ण को और भी उत्साहित किया । कुरुराज के मुँह से निकले हुए अपनी प्रशंसा के शब्दों को सुन कर कर्ण और भी पुलकित हुए । उन्होंने बाण लेकर निशाना मारने के तैयारी की । पाण्डव लोग इससे बहुत घबराये । श्रीकृष्ण तो व्याकुल ही हो गये, वे कर्ण का पराक्रम जानते थे; उन्हें यह भी विश्वास था कि कर्ण अचूक निशाना मारने वाले हैं ।

पर श्रीकृष्ण बड़ी चाल के आदमी थे । वे चिल्ला उठे “कर्ण का पालन कुरुराज के सारथि अधिरथ ने किया है । ये तो सूत-वंश से सम्बन्ध रखते हैं ।” कृष्ण की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग भी चिल्ला उठे ।

कर्ण के हाथ से अगर बाण निकल गया होता तो अवश्य ही वह निशाना बंध कर लौटता । पर कर्ण इस कोलाहल को सुनने के लिए कुछ रुक से गये ।

इसी समय उन्होंने द्रौपदी को यह कहते हुए सुना कि “मैं सूत-पुत्र के साथ विवाह न करूँगी ।”

कर्ण बड़े अभिमानी थे । द्रौपदी की सुन्दरता को उन्होंने तुच्छ से भी तुच्छ समझा । द्रौपदी की मोहिनी-शक्ति का कर्ण के हृदय पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा । प्रत्युत उसी समय उनके हृदय में द्रौपदी की ओर से घृणा हो गई । उन्हें उस समय क्रोध-पूर्ण हँसी आई और धनुष-बाण को उन्होंने पृथ्वी पर फेंक दिया ।

इसके बाद ब्राह्मणों की मण्डली से अर्जुन निकले । इन्हें देखते ही द्रौपदी की तवीयत इनकी ओर झुक गई । अर्जुन ने धनुष-बाण लेकर बात की बात में वह निशाना बंध दिया ।

अब तो बात ही क्या थी ? चट द्रौपदी ने जयमाला इनके गले में डाल दी ।

कुछ राजा लोगों को यह बुरा लगा कि राजाओं के रहते एक ब्राह्मण राजकन्या को ले जाय ! वे लोग अर्जुन से लड़े भी, पर उन्हें अर्जुन के सामने हार ही माननी पड़ी ।

धीरे धीरे यह बात भी स्पष्ट हो गई की लक्ष्य-भेद करने वाले तीसरे पाण्डव अर्जुन ही हैं । राजा द्रुपद इस संवाद को पाकर बहुत प्रसन्न हुए । श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन का पता लगा लिया और उनसे मिलने के बाद वे अपनी राजधानी को लौट गये ।

पाण्डव लोग माता के बड़े भक्त थे । उन्होंने माता की आज्ञा से कभी मुँह नहीं मोड़ा । माता ही की आज्ञा से द्रौपदी का विवाह पाँचों भाइयों के साथ होने का निश्चय किया गया ।

पहले तो राजा द्रुपद इस बात पर राजी न हुए । द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को भी यह बात स्वीकार न थी । पर युधिष्ठिर ने इस विषय पर बड़ी बड़ी युक्तिपूर्ण बातें कहीं । उन्होंने कहा—
“पाँचों भाइयों के साथ द्रौपदी का विवाह होना अधर्म नहीं । देश, काल और अवस्था के भेद से धर्म का भेद होता है । अर्थात् जो बात एक समय एक जगह एक हालत में अधर्म समझी जा सकती है वही बात दूसरे समय, दूसरी जगह दूसरी हालत में धर्म-सम्मत हो सकती है ।

निदान राजा द्रुपद इस बात पर राजी हो गये और शुभ लग्न में पाँचों पाण्डवों के साथ द्रौपदी का विवाह हो गया ।

इधर हस्तिनापुर में भी खबर पहुँची कि पाण्डव लोग जीवित हैं और उन्हीं लोगों ने द्रौपदी से विवाह किया है । विदुर इस बात को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने धृतराष्ट्र के पास जाकर ताने से कहा:—

महाराज ! भाग्य के बल से द्रौपदी के स्वयंवर में कौरव लोग विजयी हुए हैं । (पाण्डव भी कुरु के वंशज होने के कारण कौरव थे)

धृतराष्ट्र इस गूढ़ बात का अर्थ न समझे । उन्होंने समझा कि दुर्योधन ने ही द्रौपदी को पाया है । इससे उन्होंने कहा कि

यह तो बड़े सौभाग्य की बात है । दुर्योधन को द्रौपदी का पाना बड़ा अच्छा हुआ ।

तब विदुर ने खोल कर कहा:—

महाराज ! हम दुर्योधन की बात नहीं कहते । पाण्डव लोग सौभाग्य से लाक्षाग्रह में जलने से बच गये हैं । उन्हींने द्रौपदा को पाया है ।

धृतराष्ट्र ने फिर कहा:—

यह भी कुछ कम प्रसन्नता की बात नहीं है, विदुर ! पाण्डवों का यह शुभ समाचार सुन कर हम अत्यन्त प्रसन्न हैं ।

पतिव्रता गान्धारी ने भी यह शुभ समाचार सुना । वह अत्यन्त ही पुलकित हुई । जैसे किसी को अपनी खोई हुई निधि मिल गई हो इसी प्रकार गान्धारी के आनन्द की सीमा न रही ।

गान्धारी पाण्डवों पर अपने पुत्रों के समान ही प्रेम करती थी । उसने धृतराष्ट्र से जाकर निवेदन किया कि पाण्डवों को बुला कर उन्हें भी राज्य का आधा भाग दे दिया जाय । उसने कहा:—

पाण्डु ने हमारे साथ सदा ही भला व्यवहार किया है । कुन्ती और माद्री सदा ही मेरी खातिर करती रही हैं । इससे उनके पुत्रों को भी हमें अपने ही पुत्रों की बराबर सम्भक्तना चाहिए ।

धृतराष्ट्र गान्धारी की यह बात सुन कर बहुत सन्तुष्ट हुए ।


उन्होंने अपनी अर्द्धाङ्गिनी के हृदय की उदारता की मन ही मन बड़ी प्रशंसा की । विदुर को उन्होंने पाञ्चाल भेज कर पाण्डवों को कुन्ती और द्रौपदी-समेत हस्तिनापुर को बुलवा लिया ।

दुर्योधन ने फिर भी बड़ी चालें चलों पर धृतराष्ट्र और गान्धारी ने उसका कहना न माना । गान्धारी दुर्योधन को सदा यही शिक्षा देती रही कि बन्धु-विरोध का फल भला नहीं होता; कौरवों और पाण्डवों को मिल कर रहना चाहिए ।

जब पाण्डव लोग हस्तिनापुर आ गये, धृतराष्ट्र ने यह सोच कर कि जिससे भविष्य में कौरवों और पाण्डवों में विगाड़ न हो, राज्य के दो विभाग कर दिये । हस्तिनापुर की प्राचीन राजधानी पर दुर्योधन का अधिकार रहा और पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ नामक नगर को अपनी राजधानी बनाया । पाण्डव लोग भी गान्धारी को माता ही की दृष्टि से देखते रहे और धृतराष्ट्र पर भी उनकी भक्ति वैसी ही रही ।



ग्यारहवाँ परिच्छेद ।

 **कि** सी किसी का अनुमान है कि आज कल की दिल्ली नगरी, जिसे सारे भारत की राजधानी होने का सौभाग्य प्राप्त है उस समय इन्द्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध थी। सुनते हैं दिल्ली के आस पास अब भी इन्द्रप्रस्थ के पुराने मन्दिरों और महलों के चिह्न पाये जाते हैं।

कुछ भी हो, पाण्डवों ने नई राजधानी की प्रतिष्ठा करके उसकी सुन्दरता बढ़ाने में कोई कसर न रखी। उन्होंने नगर के चारों ओर एक शहरपनाह बनवाई; उसके इर्द गिर्द चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी। ऐसा करने से नगर पर शत्रुओं के एका-एक आक्रमण करने का भय जाता रहा। चौड़ी चौड़ी सड़कें, सिलसिले वार वृत्तों की कतारें, सुन्दर सुन्दर रमणीय बागीचे और साफ जल से भरे हुए तालाब नगर की शोभा बढ़ाने लगे। जगह जगह पर बढ़िया इमारतें, मन्दिर, बाज़ार और धर्मशाला इत्यादि बन जाने के कारण नगर की अद्वितीय शोभा हो गई। पाण्डवों का व्यवहार सच्चा और धर्मानुकूल था। वे अपने प्रजागण की बड़ी रक्षा करते थे। उनके राज्य में व्यापार करने के लिए बड़ी बड़ी सुविधायें थीं। इसी से देश देश के व्यापारी

उनके राज्य में आने और वहीं बसने लगे । थोड़े ही दिनों में इन्द्रप्रस्थ धन धान्य और शोभा में हस्तिनापुर से भी बढ़ गया ।

पाण्डवों को रमणी-रत्न द्रौपदी मिल जाने पर धृतराष्ट्र ने दुर्योधनादिक अपने पुत्रों के विवाह भी अच्छे अच्छे वंशों की राजकुमारियों से कर दिये । राज्यलक्ष्मी और गृहलक्ष्मी दोनों सुखों से परिपूर्ण कौरव लोग हस्तिनापुर में और पाण्डव इन्द्र-प्रस्थ में रहने लगे ।

गान्धारी ने सोचा था कि इस प्रकार राज्य बंट जाने और एक दूसरे से दूर रहने पर उसके पुत्रों और कुन्ती के पुत्रों का द्वेष मिट जायगा । पर बात इसके विपरीत हुई । पाण्डवद्वेषी दुर्योधन पाण्डवों का सुख न देख सका । पाण्डव लोग दुर्योधन की इस ईर्ष्या को जानते थे, पर इससे उन्हें क्या ? वे बराबर अपनी उन्नति ही करने में लगे रहे । यहाँ तक कि उन्होंने अपने पड़ोसी राजाओं को पराजित करके उन्हें अपने अधीन कर लिया । इसके पीछे उन्होंने राजसूय यज्ञ करने की तैयारी की । उस समय अद्वितीय प्रतापशाली और चक्रवर्ती राजाओं को छोड़ कर और कोई राजसूय यज्ञ नहीं कर सकता था । जो राजा इस यज्ञ का अनुष्ठान करता वह सबसे बड़ा समझा जाता और अन्यान्य राजाओं को उसकी प्रधानता स्वीकार करनी पड़ती । जो राजा प्रधानता न स्वीकार करते उनके साथ युद्ध में निपटारा होता ।

इस यज्ञ के अनुष्ठान के लिए युधिष्ठिर ने अपने मित्र कृष्ण की सलाह ली । उनकी सम्मति पाने पर प्रतिद्वन्द्वी राजाओं को

अर्जुन और भीम ने युद्ध में नीचा दिखाया । जिस किसी ने राजी राजी पाण्डवों की प्रधानता न स्वीकार की उसे हरा कर पाण्डवों ने उससे अपना आतङ्क स्वीकार कराया । युधिष्ठिर कुलश्रेष्ठ थे इसी से दुर्योधन को भी उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करनी पड़ी । परन्तु लोग पाण्डवों की जितनी ही प्रशंसा और श्लाघा करते दुर्योधन को उतना ही दुःख होता । ईर्ष्या की अग्नि से भीतर ही भीतर उनका हृदय जलने लगता, वे इसी चिन्ता में लग जाते कि ऐसी कौन सी तदवीर की जाय जिससे पाण्डवों का नाश ही हो जाय ।

महारानी गान्धारी के सगे भाई और महाराज दुर्योधन के मामा शकुनि अधिकतर हस्तिनापुर ही में रहते । एक तो सम्बन्ध ही निकट का था, फिर दुर्योधन की और उनकी प्रकृति भी मिलती जुलती थी, इसीसे दोनों में गाढ़ा स्नेह था । दोनों एक दूसरे से सलाह करके काम करते । भला आदमी दूसरे को भली ही सलाह देता है और बुरे आदमी से बुरी ही सलाह मिल सकती है । इससे शकुनि से दुर्योधन को जो परामर्श मिलता उसे असत् परामर्श कहने में सङ्कोच ही क्या ? पाण्डवों की बढ़ती देख कर उन लोगों ने सलाह की कि बाहुबल से पाण्डवों को जीतना आसान नहीं इस लिए किसी कौशल से उनका सर्वनाश करना चाहिए । उनकी यही सलाह पक्की हो गई । उस समय राजाओं में यह रीति थी कि यदि कोई युद्ध करने के लिए अथवा जुवा खेलने के लिए उन्हें बुलौआ दे तो वे

उससे इनकार न कर सकते । ऐसे समय इनकार करने वाला कायर गिना जाता ।

शकुनि जुआ खेलने में बड़े प्रवीण थे । इस काम में उन्हें असाधारण निपुणता थी । उस समय उनके मुक़ाबिले में कोई खिलाड़ी न था । यह बात मशहूर थी कि शकुनि का दाँव कर्ण का लक्ष्य और अर्जुन का बाण तीनों अचूक हैं । इससे यही तै हुआ कि शकुनि दुर्योधन की ओर से जुआ खेलें और द्यूत-क्रीड़ा में युधिष्ठिर को हरा कर उनका सर्वस्व जीत लें ।

जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में दुर्योधन गये थे तब वहाँ पर, शकुनि के सामने ही, पाण्डवों ने उनकी दिल्लगी की थी । द्रौपदी ने उन्हें ताने की जो बातें सुनाई थीं वे उनका कलेजा फाड़े देती थीं । उस अपमान को वे किसी तरह न भूल सकते थे । भीमसेन के कटुवाक्य उनके हृदय में काँटे की तरह चुभा करते थे । पर जिस दिन उनमें और शकुनि में युधिष्ठिर का सर्वस्व हरण करके पाण्डवों को नीचा दिखाने की बात चीत हुई, उसी दिन से और उसी आशा में उनका कलेजा कुछ ठंडा हुआ । शकुनि ने दुर्योधन को और भी उत्साहित करने के लिए कहा:—

राजा युधिष्ठिर को जुआ खेलने का बड़ा चस्का है । पर उन्हें खेल नहीं आता । हम समझते हैं जुआ खेलने में आज तक हमसे कोई नहीं जीता, युधिष्ठिर तो हमें क्या जीतेंगे ? इस लिए उन्हें जुआ खेलने के लिए बुलाओ । फिर तुम्हारे मन की

बात पूरी होने की हमारी ज़िम्मेदारी । पर इस विषय में पहले अपने पिता को राज़ी कर लो । उनकी आज्ञा पाकर ही युधिष्ठिर को नेवता देना ठीक होगा ।

दुर्योधन ने कहा:—पिता से इस तरह की आज्ञा प्राप्त कर लेना हमारे बस की बात नहीं । पिता हमें ऐसी आज्ञा न देंगे । तुम्हीं किसी तरकीब से उन्हें राज़ी कर लो ।

शकुनि इसके लिए भी तैयार हो गये ।

एक दिन अवसर देख कर उन्होंने दुर्योधन के मन की बात धृतराष्ट्र से कही । पुत्र की यह दशा सुन कर बूढ़े धृतराष्ट्र को बड़ा दुःख हुआ । पहले तो वे जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को बुलाने पर राज़ी न हुए, पर जब दुर्योधन ने बड़ा हठ किया तो उन्हें मजबूर होकर उसके लिए अनुमति देनी पड़ी ।

फिर भी उन्होंने विदुर को बुला कर इस मामले में उनकी सम्मति माँगी । विदुर बड़े बुद्धिमान थे । उन्होंने धृतराष्ट्र को इसके लिए मना किया, ऊँच नीच सभी कुछ सुझाया । पर धृतराष्ट्र ने कहा:—

दुर्योधन का मना करना असम्भव है । विदुर ! सब कुछ दैव के हाथ में है । दैव ही इसका कारण है । यदि दैव प्रसन्न हो गया तो कोई विपद न आवेगी । इससे तुम बे-खटके युधिष्ठिर के पास जाओ और उन्हें खेलने के लिए हमारी तरफ़ से न्योता दो ।

विदुर को इससे बड़ा ही दुःख हुआ पर करते ही क्या ?

वे युधिष्ठिर के पास गये और सन्देश कह कर उन्हें बुला लाये, द्रौपदी आदि स्त्रियाँ और उनके भाई लोग भी उनके साथ आये ।

जुआ खेलने की बात पहले ही से तै थी । जुआ होने लगा । यह बात तै हुई कि युधिष्ठिर और दुर्योधन में हार जीत हो, पर दुर्योधन के बदले युधिष्ठिर के साथ शकुनि खेलें । शकुनि जो कुछ हार जायँगे दुर्योधन उसे हार स्वीकार करेंगे और जो कुछ वे जीतेंगे वह दुर्योधन का होगा ।

युधिष्ठिर किसी न किसी तरह इस बात पर भी राजी हो गये और उन्होंने मणियों से जड़ा जुआ सोने का एक हार दाँव में रक्खा ।

दुर्योधन की ओर से भी बहुत से मणियों के ढेर दाँव पर रक्खे गये ।

शकुनि ने पाँसा फेंकते ही कहा “हम जीते” ।

युधिष्ठिर को इस हार पर बड़ा क्रोध आया । सोने के हार की हार ने उन्हें खेलने के लिए और भी उत्साहित किया । पर शकुनि से वाजी ले जाना आसान बात न थी । वे कुछ जुआरी तो थे नहीं, केवल शत्रु की प्रतारणा को सहन न करके ही इस कार्य में रत हुए थे । इस कारण हारते ही चले गये । धन, रत्न, अलङ्कार, हाथी, घोड़े, यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी दाँव पर लगा कर हार गये । इसके अनन्तर उन्होंने कहा:—

अब हम लक्ष्मी के समान गुणोंवाली द्रौपदी को दाँव पर रखते हैं ।

पर भाग्य फिर भी उनके अनुकूल न हुआ; वे द्रौपदी को भी हार गये ।

अन्त में उन्होंने अपने को भी दाँव पर रक्खा । पर उस बार भी शकुनि ही की जीत हुई ।

दुर्योधन, उनके साथी और उनके भाई युधिष्ठिर को हारते हुए देख कर उन्हें मर्मभेदी वाक्यों से व्यथित करने लगे ।

बदला लेने की आग दुर्योधन के हृदय में भड़क ही रही थी । उसने दुःशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को सभा में इसी समय मेरे सामने लाओ ।

दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन रोती हुई द्रौपदी के बाल पकड़ कर सभा में खींच लाया । जिस द्रौपदी के बाल कुछ ही दिन पहले यज्ञान्त में पवित्र जल से सिंचित हुए थे वही आज इस तरह अपमानित हुई । द्रौपदी ने इन्द्रप्रस्थ में दुर्योधन की हँसी की थी उसी अपमान का इस प्रकार भीषण प्रतिशोध लिया गया । दुर्योधन की आज्ञा से दुःशासन उसकी सारी खींचने लगा ।

सभा में उपस्थित लोगों को इस अत्याचार से बड़ा दुःख हुआ पर किसी का भी साहस न हुआ कि वह दुर्योधन के इस कार्य का प्रतिवाद करता । पर धर्म ने द्रौपदी की लाज रख ली । वह विवस्त्र न होने पाई ।

भीमसेन इस अपमान से जल उठे । वे आपे से बाहर हो गये । उन्होंने दुःशासन का खून पीने और दुर्योधन की जाँघ तोड़ने का प्रण किया ।

जिह समय सभा में इस प्रकार का अनर्थ हो रहा था गान्धारी अन्तःपुर में थीं । वहाँ पर उन्होंने ये सब बातें सुनीं । उन्होंने यह भी सुना कि अन्तःपुर से दुःशासन द्रौपदी को एक-वस्त्रावस्था में ही बाल खींचते हुए बाहर ले गया है । एक गृहदेवी पर इस तरह का अत्याचार देख कर गान्धारी का हृदय पिघल उठा । करुणा और शोक के मारे उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी । उन्होंने उस समय यही कहा:—

जहाँ पर स्त्रियों पर इस तरह का अत्याचार हो वहाँ पर अधिक कल्याण की आशा नहीं । जान पड़ता है अब शीघ्र ही कोई अनिष्ट होने वाला है ।

फिर वे अत्यन्त व्याकुल होकर धृतराष्ट्र के पास दौड़ी गईं और एक एक करके अन्याय की सब बातें उन्होंने कह सुनाईं । यह भी कहा:—

पिता का धर्म है कि कुराह चलते पुत्र को सदा रोके । दुर्योधन आपकी आज्ञा माने या न माने पर आपको यही उचित है कि आप उसे इस अधर्म से रोकेँ और मना करें ।

धृतराष्ट्र गान्धारी की विद्वत्ता और धर्म-परायणता की बात जानते थे । उन्होंने दुर्योधन का बड़ा तिरस्कार किया और द्रौपदी को बुला कर उसे धीरज देते हुए बोले:—

हे भद्रे ! तुम हमारी बहुओं में सब से बड़ी हो, जो कुछ हो गया उसमें किसी का बस नहीं, पर अब तुम जो कुछ कहो हम वही करें ।

द्रौपदी ने कहा:—यदि आप इतने प्रसन्न तो हैं मेरे पतियों को दासत्व से मुक्त कर दीजिए ।

धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार कर लिया और युधिष्ठिर को बुला कर कहा:—

हे पुत्र ! अपनी हारी हुई सब सम्पत्ति ले कर तुम सुख-पूर्वक राज्य करो । तुम से इस समय हमारा यही आग्रह है कि तुम धर्मशील हो ठिठार्ई के लिए दुर्योधन को क्षमा कर दो ।

युधिष्ठिर बड़े क्षमा-शील थे । उन्होंने यह भी मान लिया और कहा:—

आप हमारे पूज्य और पिता के समान हैं । आप जो कुछ आज्ञा दें हमें शिरोधार्य है ।

यह कह कर वे गान्धारी को प्रणाम करने के लिए अन्तः-पुर गये । युधिष्ठिर से यह छिपा न रहा कि गान्धारी ही की धर्म-परायणता और उदारता से वे इस समय दासत्व से छूटे हैं । गान्धारी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा:—

पुत्र, तुम्हारा प्रताप सदा अचल रहे । तुम अजात-शत्रु हो, तुम्हारा कोई वैरी न रहे । दुर्योधन तुम्हारा छोटा भाई है, उसे क्षमा कर दो ।

युधिष्ठिर ने कहा:—बहुत अच्छा ।

यह कह कर वे लौट आये और अपने हारे हुए धन, रत्न-अलङ्कार इत्यादि लेकर अपने राज्य को लौट जाने के लिए तैयारी करने लगे ।



बारहवाँ परिच्छेद ।

दुर्योधन को भी इधर यह ख़बर लगी कि उनकी माता गान्धारी की सलाह से महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को उनकी हारी हुई सारी सम्पत्ति फेर दी, उन्हें भाइयों समेत मुक्त कर दिया और इन्द्रप्रस्थ जाने की आज्ञा भी दे दी। पराजित और इस भाँति हाथ में आये हुए वैरियों का अनायास ही निकल जाना उसे बहुत बुरा लगा। उसे इस बात पर बड़ा चोभ हुआ। माता और पिता का यह इन्साफ़ उसे पसन्द न आया।

मामा शकुनि और दुःशासन फिर बुलाये गये। फिर सलाह जारी हुई। पाण्डवों को चौपट करने की तदवीरे' फिर सोची जाने लगीं। अन्त में यही निश्चय हुआ कि धृतराष्ट्र से इस बात के लिए फिर प्रार्थना की जाय कि वे पाण्डवों को बुला कर उनके साथ जुआ खेले जाने की फिर आज्ञा दे दे'।

इस काम के लिए दुर्योधन, शकुनि और कर्ण इत्यादि बूढ़े महाराज के पास जा पहुँचे और फिर जुआ खेलने की अनुमति माँगी।

दुर्योधन ने कहा:—पिता ! आपने उनकी हारी हुई सम्पत्ति उन्हें वापस कर दी। इसके लिए हमें कुछ चोभ नहीं। आपने

जो कुछ आज्ञा दे दी वह हमें भी स्वीकार है । पर आप यह सोच लें कि इसका फल अच्छा न होगा । पाण्डव लोग सताये हुए साँप की तरह हम से ज़रूर बदला लेंगे । इस लिए अब की बार यह दाँव लगाया जाय कि जो हारे वह बारह वर्ष वनवास और एक साल अज्ञात-वास करे । हमें विश्वास है कि मामा शकुनि फिर भी जीतेंगे, इससे सब फ़साद थोड़े दिनों के लिए आप से आप शान्त हो जायगा ।

धृतराष्ट्र स्वभावतः धर्म-भीरु थे । पाण्डवों से उन्हें स्नेह भी था, पर उनका हृदय कमज़ोर था, इससे उन्होंने जुआ खेलने के लिए युधिष्ठिर को फिर बुलाये जाने की आज्ञा दे दी ।

यह सुन कर गान्धारी को मर्मान्तिक पीड़ा हुई । पुत्रों के दुराचारों और निष्ठुर व्यवहारों से उन्हें यों ही व्याकुलता थी, पर जब उन्होंने यह बात सुनी तब उनकी व्याकुलता और भी बढ़ गई । पर साथ ही साथ उनकी धर्म-प्रवृत्ति जग उठी, उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान हो आया । आगे होने वाले अनिष्ट ने उन्हें सब कुछ सुझा दिया । उन्होंने अपने स्वामी के इस अनुचित कार्य को भला न समझा । उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के पास आकर कहा:—

महाराज ! आप यह क्या कर रहे हैं ? क्या पुत्रों के स्नेह में आकर आप कुल का नाश करने वाले हैं ? दुर्योधन के पैदा होते ही विदुर आदि सज्जनों ने आप को उसे त्यागने की सम्मति दी थी पर आपने न माना । पहले ही जुआ खेलने की आपको

आज्ञा न देनी थी, पर खैर, जो हो गया सो हो गया । अब दुबारा जुआ खेलने की आज्ञा देना अच्छा नहीं । नियम की बात तो यही है कि पुत्र ही पिता की आज्ञा माने, फिर आप दुर्योधन का अनुरोध क्यों मानते हैं ? वह भी पापानुरोध ! जिस से कुल का कुल नाश हो जाय ! अगर वह दुरात्मा आपका कहना न माने तो उसे निकाल दीजिए । पर बुझी हुई आग को फिर भड़काना ठीक नहीं । धर्म-पथ से हट जाना विद्वानों को शोभा नहीं देता । यदि आप इस समय मेरी प्रार्थना न मानेंगे तो आप समझ लें कि इसका फल अच्छा न होगा ।

महाराज धृतराष्ट्र अपनी धर्म-परायणा रानी की बात सुन कर बोले:—

प्रिये ! यदि वंश-नाश होना ही बदा है तो उसे रोक ही कौन सकता है ? विधाता के विधान में किसी का क्या बश ? परन्तु हम अपने प्यारे पुत्रों के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते ।

गान्धारी ने अपने प्यारे पति की इस तरह की बातें सुन कर समझ लिया कि होनहार बुरा है । जब उसने देखा कि अब कुछ उपाय नहीं तब वह ईश्वर पर छोड़ कर चुप हो रही ।

महाराज युधिष्ठिर फिर बुलाये गये । धृतराष्ट्र की आज्ञा से फिर जुआ आरम्भ हुआ । सभा में बैठे हुए लोगों का कलेजा धक धक करने लगा । अनिष्ट की संभावना से सब के हृदय कँप उठे ।

इस बार शकुनि ने युधिष्ठिर से कहा:—

महाराज ! अब की दाँव इस तरह तै हो कि यदि हम लोग आप से हार जायँ तो मृगचर्म पहन कर बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञात-वास करें । और यदि दैव-संयोग से हम जीते तो आप लोग द्रौपदी के साथ उसी तरह तेरह वर्ष वन में वित्तवें । तेरह वर्ष वीतने पर फिर आपका राज्य वापस मिले । आइए ! खेलें ।

युधिष्ठिर वेचारे बड़े असमंजस में पड़े । एक ओर वे जानते थे कि जुआ खेलने में शकुनि से जीतने की संभावना नहीं; दूसरी ओर लोक-लज्जा उन्हें दवाये देती थी । फल यही हुआ कि लोक-लज्जा की जीत हुई । युधिष्ठिर इसी भाँति दाँव लगाने पर राजी हो गये ।

पाँसे फेंके गये और फिर भी शकुनि ही का दाँव रहा, दुर्योधन की जीत हुई । युधिष्ठिर हारे । वे वनवास जाने की प्रतिज्ञा के पाश में बँध गये ।

भाइयों ने राजा युधिष्ठिर की आज्ञा में चूँ तक नहीं की । वे उनके साथ दीनभाव से मृग-चर्म पहन कर वन जाने को तैयार हो गये ।

पति-प्राणा द्रौपदी भी उन्हीं के साथ वन जाने को तैयार हुई । वह दुखित मन से कुन्ती के पास गई, और उसने अपने पतियों के साथ वन जाने की आज्ञा माँगी ।

माता कुन्ती उस समय शोक से विह्वल हो गई । उसने कहा:—

तुम्हारी ऐसी दुर्गति करेंगे कि तुम भी याद करोगे । लड़ाई के मैदान में हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को, अर्जुन कर्ण को, और सहदेव शकुनि को मारेंगे ।

अर्जुन ने कहा:—हे भीम ! इस समय अधिक कहना व्यर्थ है, तेरह वर्ष के बाद हम लोग जो कुछ करेंगे वह सब की आँखों के सामने होगा । इस समय आश्रो चलें ।

जब पाण्डव लोग चलने लगे, उनकी माता कुन्ती ने बड़ा विलाप किया । पर पाण्डवों ने उन्हें धैर्य दिया और वे उनके पैर छूकर चल दिये ।

धृतराष्ट्र मन ही मन चिन्ता करते हुए राज-सभा में बैठे रहे पर अधर्म के कारण उनका कलेजा वरावर काँपता रहा, मानों आगे होने वाला अमङ्गल साक्षात् मूर्ति धारण करके उनके सामने खड़ा हो और कह रहा हो कि ये ही भीमसेन जिनका इस तरह अपमान किया गया है अपने क्रोध की आग तुम्हारे पुत्रों के खून से बुझायेंगे ।

पतिव्रता गान्धारी की बात क्या लिखी जाय । उसकी कौन सुनता था ? वह होनहार पर विश्वास करके चुप बैठी हुई ईश्वर का नाम लेकर कौरवों और पाण्डवों (दोनों) की मङ्गल-कामना करती रही ।

धन्य देवि ! धन्य ! तुम्हारे हृदय की उदारता और तुम्हारी न्यायपरायणता दोनों ही स्तुत्य हैं । तुमने सचमुच ही मातृ-धर्म-पालन की हद कर दी । सच है, कुपुत्रों ही का पैदा होना

के फल से । देवि ! तुम्हारी ही जैसी उच्च हृदय वाली माताओं से देश और समाज का कल्याण हो सकता है । प्रगाढ़ पुत्र-स्नेह के होते हुए भी पुत्रों की इच्छा के अनुसार तुमसे अधर्म नहीं हुआ । तुम सदा ही धर्म-परायणा बनी रहीं । पुत्रों पर बहुत प्रेम करके भी तुमने उनकी अन्याय-भरी बातों का अनुमोदन नहीं किया । इसी से तो आज तुम्हारा चरित्र आदर्श माना जाता है ।



तेरहवाँ परिच्छेद ।

पाण्डवों के वन चले जाने पर गान्धारी को बड़ा दुःख हुआ पर वह बेचारी करती ही क्या ? जब महाराज धृतराष्ट्र पर उसके कहने का कुछ भी असर न हुआ तो वह चुप हो रही । फिर भी आगे होने वाले अमङ्गल को सोच कर उसका हृदय काँप उठा । जब प्राणियों को अधिक दुःख होता है तब बहुधा वे ईश्वरेच्छा पर विश्वास करके बैठ जाते हैं । यही विश्वास उनके हृदय के दुःख को दबा देता है । इसी से पतिव्रता गान्धारी ने भी इसी विश्वास का सहारा लिया ।

पाण्डवों पर दुर्योधन की ईर्ष्या का अब भी अन्त न हुआ । वह उनको वनवासी बना कर भी सन्तुष्ट न हुआ । अभिमानिनी द्रौपदी ने उसकी जो हँसी की थी उसका भीषण प्रतिशोध लेने पर भी वह शान्त न हुआ । उन लोगों के वन में रहते रहते भी दुर्योधन ने उन्हें पीड़ित करने की ठानी । पर पाण्डव लोग अपनी प्रतिज्ञा के पालन करने पर दृढ़ रहे । वे दुर्योधन के अत्याचारों को सहते रहे । युधिष्ठिर बड़े धर्म-भीरु थे । अधर्म और असत्य से वे बहुत डरते थे । शेष चारों भाई उनके आज्ञाकारी थे । इसी से सब ही सत्य पर दृढ़ रहे । जङ्गल में पाण्डवों

को असहनीय दुःख भोगने पड़े । यहाँ तक कि अज्ञात वास के लिए रूप बदल कर उन्हें राजा विराट् के यहाँ सेवक बन कर रहना पड़ा । जिनके सैकड़ों नौकर लगे रहते थे उन्होंने दूसरे की नौकरी की । जिस अभिमानिनी द्रौपदी का पैर ज़मीन पर न पड़ता था वही राजा विराट् के अन्तःपुर की दासी बनी । पर क्या ? वे इन दुःखों को सह कर भी प्रतिज्ञा से नहीं टले । बारह वर्ष वनवास करके उन्होंने एक वर्ष अज्ञात वास किया ।

कालचक्र फिरा ही करता है । सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख की बारी आती ही है । परमात्मा का यह अविचल नियम है । दुनिया पलट जाने पर भी यह नियम नहीं पलटता । जुए की बदौलत पाण्डव लोग राज्यपद से इस दशा को पहुँचे कि वे दूसरे के सेवक बने—उन्हें मुँह छिपा कर रहना पड़ा, वेष बदल कर दूसरे का दासत्व करना पड़ा । पर वह समय भी बीत गया । उनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई । इसके अनन्तर वे न्यायपूर्वक अपना हारा हुआ राज्य पाने के अधिकारी हुए ।

उचित समय आने पर उन्होंने राजा विराट् को अपना सच्चा परिचय दे दिया । उन्होंने अपनी बीती सब कह सुनाई । इसके पश्चात् राजा विराट् की सहायता से उन्होंने अपने सम्बन्धियों और इष्ट-मित्रों को विराट् नगर में बुला भेजा ।

द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद, उसके भाई महाबली धृष्टद्युम्न, यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण, बलदेव, सात्यकि इत्यादि वीर इस

संवाद को सुन कर बहुत प्रसन्न हुए । अपने अपने और सब काम छोड़ कर वे पाण्डवों से मिलने के लिए विराट नगर आये ।

पाण्डवों से मिल कर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए । कृष्ण ने कहा:—

हे नृपतिगण ! राजा युधिष्ठिर का जुए में हार जाना और वनवास करना आपसे छिपा नहीं है । पर जो हो गया सो हो गया । अब आप लोग कौरवों की लोभ-लिप्सा और पाण्डवों के धर्म-पालन का खयाल करके विचार कीजिए कि इस समय इन लोगों को क्या करना चाहिए ? आप लोग बुद्धिमान् और नीति-परायण हैं इससे कोई ऐसी तरकीब सोचिए कि जिसमें कौरव और पाण्डव दोनों की भलाई हो व पाण्डवों का राज्य भी मिल जाय ।

महात्मा बलदेव कृष्ण की युक्ति-पूर्ण बातें सुन कर बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने कहा:—

कृष्ण का कहना बहुत ठीक है । पर हमारी राय में तो युधिष्ठिर ही की भूल से उनका राज्य गया । जुआ के खेल में प्रवीण न होने पर भी उन्होंने जुआ खेला, इसी से वे सब कुछ हार गये । दुर्योधन का इसमें कुछ अधिक दोष नहीं । पर युधिष्ठिर ने सचमुच ही प्रतिज्ञा-पालन करके—वनवास और अज्ञात वास करके—तेरह वर्ष बिताये हैं । अब वे अपना राज्य वापस पाने के अधिकारी हैं ।

अन्त में यह निश्चित हुआ कि राजा द्रुपद की ओर से एक

होशियार दूत दुर्योधन के पास जाय और पाण्डवों की ओर से उनके राज्य के लिए बातचीत करे । यह तै हो जाने पर सब लोग अपने अपने घर लौट गये ।

इसके अनन्तर राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित को समझा बुझा कर हस्तिनापुर भेजा ।

यह सब हो जाने पर भी पाण्डवों की आत्मा ने यही गवाही दी कि दुर्योधन उनका राज्य सीधी तरह न लौटा देगा । उससे एक बार उन्हें अवश्य ही युद्ध करना पड़ेगा । पर पाण्डवों से दुर्योधन की शक्ति भी छिपी न थी । वे जानते थे कि वेजोड़ धनुर्धर भीष्म से इस रंसार में कोई मुक़ाविला नहीं कर सकता । महापराक्रमी रणकुशल और बाण चलाने में होशियार गुरु द्रोणाचार्य भी उन्हीं का साथ देंगे । द्रोण-पुत्र अश्वत्थामा अकेले ही कई महारथियों का मुक़ाविला करने की शक्ति रखते हैं । कर्ण का ध्यान आते तो उनकी छाती ही मानो फट जाती थी; जो वीर पैदा ही कुण्डल और कवच लेकर हुआ है उसे कौन जीत सकेगा ? जिस पराक्रमी ने वे सब करतव करके दिखला दिये हैं जिन्हें अर्जुन ने दिखाया था । उसके मुक़ाविले में कौन खड़ा होगा ? महात्मा कृपाचार्य की टक्कर कौन लेगा ? दुर्योधन और दुःशासन की गदाओं की मार का कौन जवाब देगा ! फिर भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, उन्हें रणनीति-कुशल कृष्ण की शक्ति का पूरा विश्वास था । वे जानते थे कि दुस्साध्य और असाध्य कार्य को भी पूरा करने की तरकीब

पर हम न लड़ेंगे न रणक्षेत्र में हथियार ही उठावेंगे । अर्जुन छोटे हैं इससे वे पहले इन दो में जो चाहें माँग लें ।

अर्जुन ने नम्रता-पूर्वक कहा:—

हम अकेले श्रीकृष्ण ही को लेंगे ।

अब क्या था, बात तै हो गई । दुर्योधन को दस करोड़ नारायणी सेना मिली, इससे वे बहुत प्रसन्न हुए । इसके बाद वे बलदेवजी के पास गये । पर बलदेवजी ने कहा:—

हम जानते हैं कि हमारे लिए कौरव और पाण्डव दोनों बराबर हैं । हमें किसी का पक्ष लेना ठीक नहीं । कृष्ण ने पाण्डवों का पक्ष लेकर अच्छा काम नहीं किया, पर हम कृष्ण के विपक्ष में नहीं रहना चाहते । इसलिए हम किसी ओर न होंगे ।

इसके बाद और दो एक राजाओं के पास होकर दुर्योधन हस्तिनापुर को लौट पड़े ।

इधर राजा द्रुपद का भेजा हुआ दूत भी हस्तिनापुर पहुँचा । उसने पाण्डवों का सब वृत्तान्त निवेदन किया और राजा धृतराष्ट्र से पाण्डवों का राज्य फेर देने की प्रार्थना की ।

अन्तःपुर में भी यह ख़बर पहुँची । गान्धारी यह संवाद सुन कर अत्यन्त प्रसन्न हुई । तेरह वर्ष के बाद अपने ही पुत्रों के समान प्यारे पाण्डवों का शुभ-समाचार सुन कर वे पुलकित हो उठीं । उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र के पास कहला भेजा कि पाण्डवों को बुला कर उन्हें उनका राज्य अवश्य लौटा दिया जाय । इस बार भी दुर्योधन का दुराग्रह मान लेने का फल अच्छा न होगा ।

राजा धृतराष्ट्र ने गान्धारी के इस प्रस्ताव को सुन कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की । उन्होंने अपने सभासदों और मन्त्रियों से भी सलाह ली । भीष्म, द्रोण और विदुर ने तो गान्धारी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया पर कर्ण ने उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई ।

फिर भी महाराज धृतराष्ट्र ने भीष्म, द्रोण, विदुर और गान्धारी ही की सलाह ठीक मानी । दुर्योधन उस समय द्वारका गये थे । हस्तिनापुर में वे मौजूद न थे । वे आ कर क्या कहेंगे इसकी परवाह न करके महाराज धृतराष्ट्र ने संजय को पाण्डवों के पास यह संदेशा ले कर भेजा कि आपस में सन्धि हो जाना ही अच्छा है । बन्धु-विरोध का फल अच्छा नहीं ।

पतिव्रता गान्धारी को महाराज धृतराष्ट्र की इस कार्यवाही से बहुत कुछ सन्तोष हुआ । धन्य देवि ! तुमने सदा ही उदारता दिखाई और सदा ही धर्म का पक्ष लिया । तुम्हारी ही ऐसी उदार हृदयवाली देवियाँ सच्ची गृह-देवियाँ कही जा सकती हैं ।

संजय के हस्तिनापुर से प्रस्थान करने के पश्चात् महाराज धृतराष्ट्र ने द्रुपद के पुरोहित को उचित धन-धान्य देकर विदा किया और कहा कि आपकी सन्धि के ही के लिए हमने संजय को पाण्डवों के पास भेजा है । राजा द्रुपद से हमारा यथोचित अभिवादन कह कर यही सब हाल कह देना । वे हमारे घर के कलह को मिटाते हैं इसके लिए हम उनके बड़े कृतज्ञ हैं ।

चौदहवाँ परिच्छेद ।

रुका से दुर्योधन के चले आने पर अर्जुन भी
द्रा श्रीकृष्ण को साथ लेकर राजा विराट के नगर
को वापस आये । उसी अवसर पर धृतराष्ट्र के
भेजे हुए संजय भी आ पहुँचे ।

संजय ने बड़ी चतुरता के साथ युधिष्ठिर से सन्धि के लिए
वातचीत की । युधिष्ठिर स्वयम् ही आपस के कलह से दूर रहना
चाहते थे । उन्होंने कहा:—

आप पूज्य चाचा से हमारा प्रणाम निवेदन करना और
कहना कि हम सदा ही उनके आज्ञाकारी हैं । आपस में विरोध
बढ़ाना हमें अभीष्ट नहीं, यदि हमें पाँच गाँव भी मिल जायँगे
तो भी हम सन्धि कर लेंगे । वृथा ही अपने भाइयों का खून
वहाना हमें भी भला नहीं जँचता ।

संजय ने लौट कर सब बातें धृतराष्ट्र से निवेदन कीं ।
उन्होंने यह भी कहा कि युधिष्ठिर का यह अन्तिम प्रस्ताव
स्वीकार ही करने के योग्य है, यदि यह स्वीकार न किया जायगा
तो बड़ा अनिष्ट होने की संभावना है ।

धृतराष्ट्र बड़े दूर-दर्शी थे । उन्होंने दुर्योधन से कहा:—
पुत्र ! पाण्डवों को न्याय-पूर्वक उनका हारा हुआ सब राज्य,

कोश मिलना चाहिए पर वे बेचारे पाँच गाँव ले कर ही सन्धि करने की तैयार हैं इससे उनकी बात मान लेना चाहिए । आपस के बन्धु-विरोध का फल भला नहीं ।

पर दुर्योधन ने बूढ़े पिता की एक न सुनी ।

इधर जब बहुत दिन बीत गये और उस संदेशो का, जो महाराज युधिष्ठिर ने संजय के द्वारा भेजा था कुछ जवाब न गया तो वे चिन्तित हुए । उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा:—

हे महात्मन् ! आप हमारे पूज्य हैं इस समय आप जो कुछ हमें आज्ञा दें हम वही करें । कौरवों के साथ इस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए आप इसे निर्धारित कर दें ।

श्रीकृष्ण ने कहा—धर्मरूप ! आप ने सदा ही धर्म का पालन किया है । आप ने हमसे जो कुछ पूछा है वह उचित ही है । इससे आपके हृदय की उदारता और उच्चता का बहुत कुछ पता लगता है । अच्छा ! हम पाण्डवों और कौरवों में सन्धि होने के लिए एक बार स्वयम् हस्तिनापुर जा कर अन्तिम चेष्टा करते हैं । यदि दुर्योधन हमारी बात मान गया तब तो अच्छा ही है, नहीं तो फिर युद्ध ही करना पड़ेगा । हम यह जानते हैं कि जहाँ धर्म है वहीं जय है, आप अवश्य ही संग्राम करने पर विजयी होंगे ।

युधिष्ठिर ने कहा—प्रभो ! आप की बात क्या कभी सिध्या हो सकती है । यदि दुरात्मा कौरवों ने आपका कहना न माना तो अवश्य ही उनका नाश होगा ।

इस तरह बातचीत होने के पीछे कृष्ण ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया । दुर्योधन ने उनका आगमन सुन कर दिखावे में उनके स्वागत की बड़ी बड़ी तैयारियाँ कीं । श्रीकृष्ण के हस्तिनापुर पहुँचने पर भीष्मादि कौरवों ने उनकी बड़ी अभ्यर्थना की । श्रीकृष्ण बड़े चतुर थे, बातें बनाना उन्हें खूब आता था । उन्होंने सभा में कहा:—

भाई दुर्योधन ! इस समय तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो वह तुम्हें शोभा नहीं देता । तुम्हारी भूल से जो अनर्थ होने की सम्भावना की जाती है उसे शान्त करने ही में तुम्हारी भलाई है । तुम पाण्डवों से मेल कर लो; उनके साथ मेल करने की ही तुम्हारे गुरुजनों की सलाह है, यहाँ तक कि तुम्हारे बड़े पिता और तुम्हारी जगत्पूज्या माता गान्धारी की भी यही इच्छा है कि तुम पाण्डवों से सन्धि कर लो । भाई भाई गले लग कर मिलो इससे बढ़ कर और क्या हो सकता है । इससे यही भला है कि जब पाँच गाँव लेकर ही वे सन्धि कर लेना चाहते हैं तो उन्हें हताश न करो, उनके साथ मेल कर लो, यह तुम भली भाँति समझ लो कि उन्हें युद्ध में हरा देना नितान्त असम्भव है । हमारी यह बात मान लेने से तुम्हारा सर्वथा कल्याण होगा ।

श्रीकृष्ण के कहने में सभी ने हाँ में हाँ मिलाई । विदुर, भीष्म और द्रोण सभी ने दुर्योधन को समझाया । पर उसने किसी की न सुनी ।

तब स्वयं धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा:—

पुत्र ! कृष्ण हमारे बड़े आत्मीय और नीतिशास्त्र के पण्डित हैं । इनका कहना मान लो । इनकी बात का आदर करने ही में तुम्हारी भलाई है ।

लेकिन पिता के इतना समझाने पर भी दुर्योधन का विचार न बदला; वह अपनी पुरानी ही बात पर दृढ़ रहा ।

अन्त में उसने कृष्ण की ओर देख कर कहा:—

हे वासुदेव ! तुम्हें समझ भूझ कर बातचीत करनी चाहिए । हमने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया । फिर तुम पाण्डवों का पक्ष लेकर हमारी हानि क्यों चाहते हो ? और हमारी निन्दा क्यों करते हो ? हम तुम्हारी बातों पर डर जाने वाले नहीं । कुछ भी हो, हम पाण्डवों को उतनी भी ज़मीन न देंगे जितनी सुई की नोक से छिद्र सकती है ।

दुर्योधन ने यह कह कर हृदय कर दी । श्रीकृष्ण का क्रोध उबल उठा, वे कहने लगे:—

हे भरत-कुल के कलङ्क ! तुम अपने इस कहने का मज़ा शीघ्र ही चक्खोगे । हमने समझ लिया कि जब तक दुर्योधन, कर्ण, शकुनि और दुःशासन पकड़ कर पाण्डवों के हवाले न कर दिये जायँगे तब तक यह विवाद न मिटेगा और न सन्धि होगी ।

यह सुन कर दुर्योधन वहाँ से उठ कर चल दिया । पर उसका यह आचरण, और श्रीकृष्ण को इस भाँति क्रोधित देख

कर धृतराष्ट्र का कलेजा कांप उठा । वे व्याकुल हो उठे । उन्होंने विदुर से कहा:—

वत्स ! श्रीकृष्ण की बात न मानने से दुर्योधन का अवश्य ही अमङ्गल होगा । इससे तुम इस समय उसकी माता के पास जाओ । गान्धारी बड़ी दूरन्देश हैं, उन्हें तुम यहीं बुला लाओ । शायद माता के समझाने से दुर्योधन की बुद्धि ठिकाने आ जाय और यह कौरव-वंश नाश होने से बच जाय ।

विदुर महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा मान कर अन्तःपुर में गये और उन्होंने गान्धारी देवी से सब हाल कहा ।

दुर्योधन का कृत्य और पाण्डवों के साथ उसका व्यवहार देख कर गान्धारी को यों ही दुःख था । पर जब उन्होंने सुना कि दुर्युत्त दुर्योधन श्रीकृष्ण की बात का भी अनादर करने पर तैयार है, तब उन्हें यह समझना शेष न रहा कि कौरव कुल का अन्त भी अब निकट ही है । उन्होंने विदुर से कहा:—

“वत्स ! तुम्हारे कहने से और पतिदेव की आज्ञा से मैं दुर्योधन को समझाने की चेष्टा अवश्य करूँगी; पर वह समझ जाय और उसकी बुद्धि ठिकाने आ जाय इसकी आशा करना उसी तरह बेकार है जैसे बबूल के वृक्ष में खूब रसभरे आमों के फलने की आशा करना । जिसने सर्वशक्तिमान् यादव-कुल तिलक श्रीकृष्ण का कहना नहीं माना, उस पर एक अबला के कहने का प्रभाव ही क्या पड़ सकता है ?

यह कह कर वे अन्तःपुर से सभा-भवन में आईं । वहाँ

बार बार समझाना भी मंजूर नहीं । अब देवि ! तुम्हीं उसे समझाने की चेष्टा करना ।

यह कह कर श्रीकृष्ण तो चुप हो गये । पर धृतराष्ट्र ने कृष्ण की बात का समर्थन करते हुए गान्धारी से कहा:—

हे सुबल-राजपुत्री ! तुम्हारा पुत्र दुर्योधन बड़ा ही दुःशील है । वह बड़ों का सम्मान करना नहीं जानता । उस मूर्ख की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं रहा । अभी अभी श्रीकृष्ण के उपदेश-भरे वाक्यों को भी उसने विष ही के समान समझा, और श्रीकृष्ण सरीके नीतिज्ञ को भी उसने अनादर की दृष्टि से देखा । तुम जानती हो, इसका क्या फल होगा, और तुम्हारे पुत्र के भाग्य में क्या वदा है ? वह अशिष्ट, अशिष्टाचार के नियमों को तोड़ कर, मेरे और मेरे भी पूज्य भीष्म के हाते हुए भी सभा से चला गया है ।

गान्धारी ने कहा:—जानती हूँ महाराज ! भली भाँति जानती हूँ कि अब शायद कुरु-कुल का संहार होने वाला है । पर पतिदेव ! आप मुझे क्षमा करें, मेरी समझ में तो यह सब आप ही के हृदय की कमजोरी का फल है । जब आप जानते हैं कि दुर्योधन पापी और अशिष्ट है तो उसे समुचित दण्ड क्यों नहीं देते और क्यों बराबर उसका कहना मानते जाते हैं ?

धृतराष्ट्र ने कहा:—“क्या तुम यह नहीं जानती हो कि दुर्योधन को दण्ड देना मेरी शक्ति के बाहर है ?”

तुम्हारा कल्याण कर सकूँ, तो भी मेरा पैर पीछे न पड़ेगा । पर मैं निश्चय-पूर्वक तुमसे कहती हूँ कि तुम पर जो विपत्ति आने वाली है, तुम्हें जिस दुःख का सामना करना है उससे तुम्हारी रक्षा करना मेरी और तुम्हारे पिता की शक्ति के बाहर है । इस समय तुम स्वयम् ही अपनी रक्षा करना चाहो तो कर सकते हो । अन्यथा कहीं भी निस्तार नहीं ।

पुत्र दुर्योधन ! मैं तुम्हारे कल्याण के लिए जो बातें तुमसे कहती हूँ, उनकी उपेक्षा न करना, उन्हें ध्यान देकर सुनना और उन्हीं के अनुसार काम करना । ऐसा करने से निस्सन्देह तुम्हारा कल्याण होगा । तुम्हारे पिता, तुम्हारे पितामह भीष्म, तुम्हारे गुरु द्रोण और तुम्हारी कल्याणकामना करने वाले भाई श्रीकृष्ण ने तुमसे सन्धि कर लेने के लिए जो बात कही है वह धर्म-सङ्गत है । यदि तुम धर्म-सङ्गत कार्य करोगे तो हम सब को बड़ा ही सुख होगा । और तुम भी सुखी रहोगे ।

वत्स ! तुम्हीं सोचो कि यदि तुम धर्म-सङ्गत काम नहीं कर सकते और अपनी अधर्म-शुद्धि को भी नहीं जीत सकते, तो धर्म-युद्ध में धर्म-राज्य जीतने की क्योंकर आशा कर सकते हो । वेटा ! श्रीकृष्ण पाण्डवों के दूत होकर तुम्हारे पास सन्धि का प्रस्ताव ले कर आये हैं । इन्हें तुम पञ्चभूतों का पुतला ही न समझो, ये बड़े नीतिज्ञ हैं, आज के दिन भारतवर्ष में इनकी बराबर कोई नीतिज्ञ नहीं; ये ईश्वरीय शक्ति लेकर इस संसार में विराजमान हैं, इससे तुम इनका कहना मानो; इनकी बात मान

लेने ही में तुम्हारा कल्याण होगा । मैं तुम्हारी माता होकर तुमसे कहती हूँ कि कृष्ण कपट-रहित हैं, इनका हृदय स्वच्छ और छल-विहीन है । ये समदर्शी हैं, इनकी जितनी प्रीति पाण्डवों पर है उतनी ही तुम पर भी है; इसीसे ये तुम्हें समझाने आये हैं । धर्म इन्हें बहुत प्यारा है इसी से ये चाहते हैं कि तुम भी धर्म-पथ ही पर दृढ़ रहो । इनके प्रसन्न रहने से ही तुम्हारा दोनों का कल्याण होगा । बेटा ! सोचो तो, पाण्डवों को तुम्हारे कारण कितना कष्ट हुआ है । भीमसेन के बुरे व्यवहार का बदला अब पूरा हो चुका । तुम कहते थे कि द्रौपदी ने तुम्हें ताने मारे थे; वह भी अब उसका बदला पा चुकीं । अर्जुन और युधिष्ठिर से तो तुम्हें कोई शिकायत ही न थी । माद्री के पुत्र तो तुम्हें सदा ही बड़ा भाई समझते रहे हैं । इससे उदारता-पूर्वक पाण्डवों को उनके मांगे हुए पाँच गाँव दे डालो । उनकी सामान्य बात क्यों टालते हो । तुम्हें हठी होना ठीक नहीं, तुम्हें नीति-पूर्वक पाण्डवों की योग्यता स्वीकार करनी चाहिए । तुमने मूढ़ता के वश शायद स्थिर कर लिया होगा कि भीष्म, द्रोण इत्यादि वीर-गण तुम्हारे लिए प्राण-पण से युद्ध करेंगे, मैं कहती हूँ यह तुम्हारी भूल है और निरी भूल है । ऐसा कभी नहीं हो सकता । क्योंकि सब लोग जानते हैं कि इस राज्य पर तुम्हारा और पाण्डवों का बराबर अधिकार है इसी लिए सब वीरगण तुम पर और पाण्डवों पर बराबर प्रीति करते हैं । वीरों को यह भी विश्वास है कि पाण्डव लोग तुम्हारी अपेक्षा अधिक धर्म-

शील हैं; इसीसे तुम्हारे अन्न-द्वारा प्रतिपालित होने के कारण चाहे समर-क्षेत्र में वे जीवन भलेही विसर्जन करदे पर धर्म-शील युधिष्ठिर पर हथियार न छोड़ेंगे । पुत्र ! यही नहीं, एक बात और भी सोचने के योग्य है कि उनके पिता पाण्डु ने तुम्हारे पिता के साथ कैसा प्रशंसनीय व्यवहार किया है । फिर तुम्होंने कहा था कि तेरह वर्ष वनवास और अज्ञातवास करके लौटने के बाद उनका राज्य वापस दिया जायगा । अपने कहे हुए वाक्यों के पालन करने पर भी तुम्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए । तुम शायद सोचते होगे कि उन्हें जीत लेना बड़ा आसान काम है, पर यह न समझो, जिस ओर श्रीकृष्ण रहेंगे उस पक्ष से संसार भर में कोई भी वाज़ी नहीं ले जा सकता । इससे हे पुत्र ! लोभ को छोड़ दो, लोभो आदमियों को स्वप्न में भी सुख नसीब नहीं होता । मेरी खास इच्छा और मेरा अन्तिम उपदेश है कि तुम पाण्डवों से मेल कर लो ।

देवी गान्धारी इस भाँति उपदेश देकर चुप हो रहीं; पर जिस तरह पत्थर में बीज अङ्कुरित नहीं होता उसी तरह दुर्योधन के कठोर हृदय में माता के उपदेश भरे वाक्यों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा । उसने माता की बातें एक कान से सुन लीं और दूसरे से बाहर निकाल दीं । इतना ही नहीं वह माता की बातों का कुछ भी जवाब न देकर वहाँ से उठ कर चल दिया ।

यह सब दशा देख कर श्रीकृष्ण कहने लगे:—

महाराज धृतराष्ट्र ! और यशस्विनी गान्धारी ! हमें अब

सारी व्यवस्था मालूम हो गई । हमने समझ लिया कि आप स्वाधीन नहीं और दुर्योधन को मेल करना स्वीकार नहीं । यही हाल हम युधिष्ठिर से जा कर कह देंगे और यह भी जता देंगे कि युद्ध अवश्यंभावी है । अब हम आपको प्रणाम करते हैं । लीजिए, हम चले ।

यह कह कर श्रीकृष्णचन्द्र जी बाहर निकल आये और चलते चलते उन्होंने कर्ण से यह कह कर कि तुम कुन्ती के पुत्र हो उसे पाण्डवों के पक्ष में तोड़ना चाहा । पर जब उन्होंने देखा कि मनस्वी कर्ण के प्रशस्त हृदय पर प्रलोभनों का प्रभाव पड़ना असम्भव है तब यह कहते हुए रथ बढ़ा दिया कि “कर्ण ! हमारा तो यही अभिप्राय था कि यदि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ देते तो सन्धि शायद हो जाती । पर जब तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते तो सन्धि भी नहीं हो सकती । इससे तुम सबसे जा कर कह देना कि अब युद्ध के लिए रसद जमा करे और लड़ने के लिए तैयार हो जायँ । युद्ध का मैदान ही अब सारे भगड़ों को मिटा देगा ।”

हुए दुर्योधन ने भी समर-क्षेत्र जाने के पहले माता को प्रणाम किया और उनसे विदा माँगी ।

गान्धारी ने कहा:—

पुत्र ! ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें । जहाँ धर्म है, वहीं जय है । जाओ रण-क्षेत्र में वीर-धर्म का पालन करना ।

दावानल जिस भाँति जङ्गल को जलाने में अग्रसर होता है उसी भाँति समर भी वीरों का संहार करने में हाथ बढ़ाने लगा । महायुद्ध की अग्नि में कौरव और पाण्डव दोनों दलों के वीर स्वाहा होने लगे । दोनों ओर शोक और हर्ष की धारा प्रबल प्रवाह से बहने लगी । न जाने कितने सुकुमार शिशु, कितने नौजवान और कितने सफ़ेद बालों वाले बूढ़े उस आग में जल मरे और उस धारा में बह गये । दोनों ओर के अन्तःपुर पुत्र-हीना माताओं और पतिहीना रमणियों के करुण-क्रन्दन से गूँज उठे ।

भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि वीरों का निहत होना भी दूर्तों के द्वारा महाराज धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी के कानों तक पहुँचा । वे नित्य प्रति सुनने लगीं कि “आज आपका नौजवान पोता रण में मारा गया” “आज आपके बलशाली अमुक पुत्र ने इस नश्वर संसार से विदा ली” “आज आपके दामाद जयद्रथ को अर्जुन ने मार डाला” इत्यादि इत्यादि । पर क्या, ईश्वरेच्छा से उन्हें सब सहन करना पड़ा । उसे सहन करने के लिए वे पहले ही से तैयार थीं । इसी लिए उन्होंने अपना हृदय मजबूत कर

अनेक वीरों और उद्भट धनुर्धरों की आहुति लेने पर भी युद्ध शान्त नहीं हुआ । उसकी गति बढ़ती ही गई । जिस तरह अग्नि की ज्वाला आकस्मिक वायु का सहारा पाकर प्रचण्ड लपटों के रूप में परिणत होती है, वही हाल इस युद्ध का भी हुआ । आकस्मिक घटनाओं से यह युद्ध भी बढ़ता ही गया । एक दिन दुर्योधन की पटरानी भानुमती, अपनी सहेलियों के साथ देव-पूजा को जा रही थी; उसका रथ और उसके रथ का राजसी ठाठ दर्शनीय था । घोड़े हवा से बातें कर रहे थे, पर सूत की कुशलता से रथ के चलने का शब्द भी न सुन पड़ता था । भानुमती अपने पति की विजय के लिए देवदेव इष्टदेव को हृदय में स्मरण कर रही थी कि एकाएक उसकी एक सखी ने कहा कि देवि ! देखो पाँच पाण्डवों की पत्नी द्रुपद-नन्दिनी सामने रथ पर जाती हुई तुम्हें किसी ध्यान में लीन देख कर अपनी सहेलियों के साथ तुम्हारी हँसी कर रही हैं । तुम्हें वे उपहास की दृष्टि से देखती हैं; तुम तो किसी ध्यान में आँखें बन्द किये हो, पर वहाँ पर अपनी सहेलियों के साथ अटखेलियाँ करती हुई धृष्टद्युम्न की बहिन तुम्हारी नकल करने के लिए आँखें बन्द करती हैं ।

भानुमती ने आँखें खोल दीं । उसका ध्यान भङ्ग हो गया । उसने कहा:—

सखा ! भेदभाव बढ़ाने वाली ऐसी बातें क्यों कर रही हो ? द्रुपद-नन्दिनी मेरी बड़ी बहिन हैं । वे मेरा उपहास क्यों करेंगी ।

याद करके मुझे जो दुःख होता था उसका कहना व्यर्थ है । पर अब, जब यह प्रत्यक्ष देख रही हूँ कि तुम आनन्द में पुलकित हो रही हो—तो तुम्हें पुलकित देख कर मैं भी अपना कुशल-पूर्वक होना बोध करती हूँ ।

भानुमती का यह जवाब सुन कर द्रौपदी अवाक् हो गई । उसके मुँह से बोल न निकला; पर उसने अपनी प्रधान सखी की ओर निहार दिया, मानो उससे वह कह रही हो कि तू इस बात का उत्तर क्यों नहीं देती ।

अपनी मालकिन का रुख देख कर द्रौपदी की सखी ने कहा:—

देवी ! द्रुपद-नन्दिनी की बेणी मामूली नहीं । उसके लिए आप चिन्ता न करें । वह बेणी उसी समय बँधेगी जब एक सौ बेणियाँ खुल जायँगी, (यानी दुर्योधनादि १०० भाई मारे जायँगे)

जब भानुमती की सखी ने देखा कि द्रौपदी की सखी इस प्रकार प्रगल्भता से बातें कर रही है, तब उसने भानुमती की आज्ञा की प्रतीक्षा न की, वह इन बातों को सहन न कर सकी । उसने कहा:—

बहिन ! पाँचाली की बेणी की बात तो तुम तभी जानतीं जो विराटनगर में भी साथ रहतीं । वहाँ पर जिसने सैकड़ों रानियों की बेणियाँ चाँधी हैं वह बेणी खोले ही हुए शोभा पाती है । उसकी खुली बेणी तो इस बात की निशानी है कि

वह राज्य महलों में वेणी छोरने और बाँधने के काम में लगी रहती है। सच है; बिना एक सौ वेणियों को खोल कर बाँधे द्रौपदी की वेणी बाँध ही क्यों सकती है ? (अर्थात् जब तक महाराज दुर्योधन के महलों में उनके सौ भाइयों की रानियों की वेणी बाँधने वाली दासी बन कर द्रौपदी न रहेगी, तब तक उसका अभिमान ही दूर न होगा)।—

यह कह कर भानुमती की सखी ने फिर कहा:—

गान्धारी देवी से रानी भानुमती की बराबरी करना ठीक ही है। पर रानी द्रौपदी ने भी अपनी सास कुन्ती की बराबरी करने की खूब कोशिश की; यदि जङ्गल में देवताओं को बुला कर इनको भी पुत्र मिल जाते तब तो पूरी बराबरी थी। क्या कहें कुछ कसर रह गई।

इतने ही में देव-मन्दिर निकट आगया। रानी भानुमती का रथ रुक गया। पर द्रौपदी का रथ उसी राजपथ पर आगे की ओर चला गया।

मन्दिर में पूजा करने के बाद लौट कर भानुमती अपनी सास के पास पहुँची। उसने द्रुपद-सुता के परिहास की बात यथा-क्रम पतिव्रता गान्धारी को सुना दी। उसने द्रौपदी की इस हँसी पर शोक भी प्रकट किया। पर गान्धारी ने कहा:—

बेटी ! समय ही का फेर समझो। समय ही सब को अशक्त और सशक्त बनाता है। द्रौपदी का जो अपमान राजसभा में हुआ है, कुन्ती को उस अपमान से जो दुःख पहुँचा है; वह

णित कौरव-सेना आपकी आज्ञाकारिणी है । बड़े बड़े वीर और धनुर्धर आपके इशारे से रण में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं । आपके कितने ही भाई वीरधर्म का पालन करते हुए इस नश्वर संसार से चल बसे हैं । आपके माता और पिता अब प्रतिक्षण आप ही का ध्यान करते रहते हैं । अब बहुत हो चुका, अबभी कुछ नहीं विगड़ा, आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर आपस में सन्धि करलें । ऐसा करने से आपके माता-पिता बहुत सुखी होंगे ।

धृतराष्ट्र—पुत्र ! तुम्हें देख कर ही अभी तक हमारे प्राणों में प्राण बने हैं । गान्धारी भी तुम्हें देख कर ही जीती है । अब भी हमारा कहना मान लो । चाहे मेरे आदेश से समझो चाहे मेरा अनुरोध गानो; तुम पाण्डवों से सन्धि करलो । जब भीष्म, द्रोण और कर्ण के रहते युद्ध का अन्त नहीं हुआ तो अब अच्छे फल की आशा करना व्यर्थ है ।

गान्धारी—पुत्र ! अपने पिता का कहना मानो, नेत्र-हीन होकर भी ये कहते हैं कि तुम्हें देख कर ही ये जीते हैं । जिनके नेत्र नहीं होते वे रूप नहीं देख सकते; पर वे शब्द सुन सकते हैं, उन्हें शब्द सुन कर उतना ही आनन्द होता है जितना किसी नेत्रवाले को रूप देख कर । नेत्रहीन मनुष्य शब्द सुनना ही रूप देखना मानते हैं । तुम्हारे पिता तुम्हारा बोल (शब्द) सुन कर, तुम्हारी पीठ पर हाथ फेर कर (स्पर्श) और कभी कभी तुम्हारा मस्तक सूँघ कर सुखी होते हैं । यही इनका सच्चा

सुख है । तुम इन्हें इस सुख से वंचित न करो । यही हाल मेरा भी है, मैं भी तुम्हें देख नहीं सकती, पर शब्द, स्पर्श और गन्ध द्वारा सब सुख दुःखों का अनुभव करती हूँ । मुझे भी दुःखिनी न करो । हाय ! भीष्म, द्रोण और कर्ण का पतन सुन कर न जाने मेरे हृदय में किस प्रकार की एक आशङ्का सी हो रही है । पुत्र ! हमारी रक्षा करो । तुमसे मेरा अन्तिम अनुरोध है कि तुम पाण्डवों से सन्धि कर लो ।

महाराज दुर्योधन इन सब बातों को अविचल रूप से सुनते रहे । अन्त में उन्होंने कहा:—

माता ! मेरे बहुत से भाई मारे गये, जिसे मैं भाई से भी अधिक समझता रहा और जिसने मुझे भी भाई से अधिक समझा वह वीर विख्यात-कीर्ति कर्ण भी अब नहीं रहा; अब मैं सन्धि ही कर लूँ तो किस सुख के लिए । माता ! मुझे कायरता न सिखाओ । तुम्हारा उपदेश मैं गाँठ बाँधे हुए हूँ । मुझे वीर-धर्म से विमुख न कराओ । अब सन्धि करने की अपेक्षा मुझे लड़ कर मर जाने में ही सुख ज्ञात होता है । या तो मेरी यह गदा अपने भाइयों के निहित होने का प्रतिशोध ही लेलेगी या दुर्योधन का कथन पूरा न होने पाया था कि आवाज़ सुनाई दी “कहाँ है दुष्ट दुर्योधन ! किधर जा कर छिपा है ? कायर ! सामने क्यों नहीं आता ?”

यह आवाज़ भीमसेन की थी, इसे सहन करना दुर्योधन

सामने आओ, मेरे देखने मात्र ही से तुम्हारा शरीर वज्र सा हो जायगा । उस पर किसी अस्त्रशस्त्र का असर न होगा ।

यह कह कर उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर दो मनुष्य आ रहे हैं, तब उन्होंने सञ्जय से कहा कि तुम जाकर देखो वे कौन हैं ।

ज्यों ही सञ्जय उन्हें देखने गये, दुर्योधन ने अपने सैनिक वस्त्र उतार डाले, पर बिलकुल नग्न होकर माता के सामने जाने में उन्हें लज्जा आई, इससे गुह्य भाग को उन्होंने हाथों से ढक लिया । फिर उन्होंने माता के पास जाकर निवेदन किया कि मैं हाज़िर हूँ ।

गान्धारी देवी ने आँखों का पट खोल कर कहा:—वत्स ! माता के सामने पुत्र को नग्न आने में भी कोई लज्जा की बात न थी; पर भवितव्यता में किसका वश ! तुम्हारा सब शरीर तो वज्र का सा हो गया, पर जितना भाग तुमने लज्जा-वश हाथों से ढक लिया है और जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ सकी वह कच्चा रह गया ।

यह कह कर उन्होंने आँखों पर फिर पट्टी बाँध ली । इसी समय उनको मालूम हुआ कि सामने से श्रीकृष्ण और भीमसेन प्रणाम कर रहे हैं ।

इस समय श्रीकृष्ण का वहाँ पर आ जाना सबको खटका । गान्धारी ने तो समझ लिया कि श्रीकृष्ण दुर्योधन की रक्षा के इस रहस्य को जान गये यह अच्छा न हुआ ।

पर गान्धारी ने श्रीकृष्ण से कहा:—

वत्स कृष्ण ! मेरा अब भी विश्वास है कि यदि तुम सन्धि

की चेष्टा करो और हृदय से करो तो अब भी सन्धि हो जाय । तुम्हें सन्धि की चेष्टा करके दुर्योधनादि की रक्षा करनी चाहिए ।

श्रीकृष्ण बड़े चतुर थे उन्होंने कहा:—

देवि ! जब मैं हस्तिनापुर गया था और दुर्योधन ने मेरा कहना न माना, सन्धि की चेष्टा करने का विचार मैंने उसी समय त्याग दिया था । दुर्योधन को समझाने और उसकी रक्षा करने का भार मैंने तुम्हीं पर छोड़ा था । अब दुर्योधन को समझाना अथवा उसकी रक्षा करना मेरी शक्ति के बाहर है ।

इन बातों ने और भी स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण उस रहस्य को जान गये हैं ।

गान्धारी और कुछ कहना ही चाहती थीं कि भीमसेन ने दुर्योधन को ललकार कर कहा:—

क्या कायर की भाँति बैठा हुआ है ? चल कर युद्धक्षेत्र में वीर की भाँति अपना धर्म क्यों नहीं पालन करता ?

दुर्योधन के लिए यह बात असह्य थी । वह गरज उठा और उमने कहा:—

नराधम ! वृथा ही क्यों प्रलाप करता है । समझ ले कि मेरी यह गदा तुम्हे यमलोक को पहुँचावेगी ।

यह कह कर दुर्योधन और भीम दोनों गर्जन—तर्जन करते हुए रणक्षेत्र की ओर चले गये । श्रीकृष्ण ने भी गान्धारी देवी को प्रणाम किया और वे भी चल दिये ।

जाँघ पर गदा मारी है । मैं इस पापी को उसके पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए अभी दण्ड देता हूँ ।

यह कह कर वे अपना शस्त्र उठा कर भीम पर प्रहार करने के लिए झपटे ।

पर कृष्ण ने दोनों हाथों से उन्हें रोक लिया और बहुत समझाया, फिर भी बलरामजी का क्रोध शान्त न हुआ । वे बोले:—

कृष्ण ! तुम चाहे जितनी रँगी बातें करो । पर मैं भली भाँति जानता हूँ कि भीमसेन ने अधर्म किया है । मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हें इस अधर्म का मूल कारण हो । सारा संसार तुम्हें और भीम को, दोनों को अधर्मी कहेगा । कुछ भी हो, अन्तिम समय तक दुर्योधन ने वीर-धर्म का पालन किया है इससे उसे स्वर्ग ही मिलेगा । पर पापियों और भीम सरीखे अधर्मी दुष्टों के लिए नरक का द्वार ही खुला है । मैं अब इस पापी भीम का मुँह भी देखना नहीं चाहता । तुम मेरे भाई हो इससे तुम्हारे कहने से इसे प्राण-दान देता हूँ । नहीं तो मेरा यह शस्त्र कहते कहते बलरामजी के नेत्र लाल हो आये और रिस के मारे वे रथ पर सवार होकर द्वारका को चले गये ।

तब कृष्ण ने कहा:—

अब इस पापी को यहीं छोड़ कर हमें चलना चाहिए । यह दुर्योधन महा नीच है । हमने तो इसे उसी समय मरा समझ लिया था जब सन्धि का प्रस्ताव ले जाने पर इसने हमारी बात न मानी थी ।

जिस समय दुर्योधन ने प्राण-त्याग किये उस समय उन्होंने यह संवाद सुन लिया कि कौरवों की ओर, कृपाचार्य्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और पाण्डवों की ओर केवल पाँचों पाण्डव और शोकृष्ण जीते बचे हैं । बाकी वीर इसी समराग्रि में स्वाहा हो गये ।

वर देते हैं कि तुम आंखें बन्द किये रहने का व्रत करके भी अपने आत्मीयों के कुरुक्षेत्र में पड़े हुए शरीर देख सकोगी ।

तब गान्धारी ने कहा:—मैं पाण्डवों की बुराई नहीं चाहती, पर क्या करूँ ? पुत्र शोक से मैं बहुत ही व्याकुल हूँ ।

श्रीकृष्ण ने युद्ध में हथियार नहीं उठाये, उन्होंने केवल अर्जुन का रथ हाँका था । पर गान्धारी यह भली भाँति जानती थीं कि उन्हीं के कौशल से कौरवों की तरफ़ के सब वीर मारे गये हैं और पाण्डव लोग विजयी हुए हैं, इससे पाण्डवों की अपेक्षा वे श्रीकृष्ण पर ही अधिक कुपित थीं ।

रणक्षेत्र का दृश्य बड़ा भयङ्कर था, वहाँ चारों ओर अग्नित्ती मरे हुए और घायल लोगों के शरीर पड़े थे । किसी का कोई अङ्ग विदीर्ण हो गया था, किसी के हाथ पैर कट गये थे और किसी का मस्तक चूर्ण हो गया था । कोई कोई तकलीफ़ के मारे कराह रहा था और कोई कोई प्यास के कारण “पानी, पानी” कह कर चिल्ला रहा था । कोई कोई अपने बाप, माँ, भाई, बहन की बातें याद करके आँसू बहा रहा था । केवल सैनिकों की लाशें ही वहाँ न थीं, मरे हुए हाथियों और घोड़ों की देहों के भी स्तूप बन गये थे । कहीं कहीं लोहू की कीचड़ हो गई थी; उसमें कीड़े और मक्खियाँ भिन भिन करती थीं, चारों ओर से ऐसी दुर्गन्धि उठ रही थी कि किसी की ताव न थी कि वहाँ प्रवेश कर सके । जिन जन्तुओं को रक्त और मांस प्रिय होता है वे वहाँ पर एकत्रित होकर आनन्दपूर्वक लाशों का

कर भी मैंने कुछ शोक नहीं किया; पर अब बन्धु-बान्धव-विहीन बूढ़े महाराज की चिन्ता करके मुझे बड़ा शोक हो रहा है ।

यह देखो ! दुर्योधन की पटरानी भानुमती, मेरी जेठी पुत्र-वधू, महाराज भगदत्त की कन्या और युवराज लक्ष्मण की माता अपना माथा पीटती हुई कभी अपने पुत्र का मस्तक सूँघती है और कभी अपने पति के शरीर को अपने आँसुओं से धोने लगती है । हाय ! यह दृश्य देख कर भी जब मेरे प्राण नहीं निकलते तो मान लेना पड़ेगा कि मृत्यु के पहले कोई नहीं मरता । वासुदेव ! यह सत्य है कि मेरे पुत्र अधर्माचारी थे, परन्तु पहले उन्होंने चाहे जो कुछ किया हो, पर रणक्षेत्र में उन्होंने क्षत्रियोचित वीरधर्म का ही पालन किया है । वे पाण्डवों के सामने लड़ने से नहीं डरे । यदि शास्त्र सत्य है तो उन्हें स्वर्गलोक में अवश्य ही स्थान मिला होगा ।

माधव ! अपनी बहुओं की दशा देख कर ही मुझे मर्मान्तिक क्लेश हो रहा है । मेरे पुत्र विकर्ण की तरुणी स्त्री की ओर देखो; गृद्धों और शृगालों के आक्रमण से अपने स्वामी के शरीर की रक्षा करने के लिए, वह बार बार प्रयास कर रही है; पर हाय ! उसका कुछ वश नहीं चलता । देखो ! मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी कन्या दुःशला अपने स्वामी जयद्रथ का शरीर पाकर उसका शिर ढूँढ़ने के लिए पगली की तरह इधर उधर दौड़ रही है । माता होकर, और यह दृश्य देख कर मेरे मन में जो कुछ होता है वह तुमसे किस तरह कहूँ ? और तुम्हें किस

करते तो अवश्य सन्धि हो जाती और युद्ध रुक जाता । परन्तु तुमने इसकी अपेक्षा कर दी और चेष्टा न की । यदि तुमने चेष्टा न की थी तो तुम्हें उचित था कि तुम किसी का पक्ष न लेते । तुमने युद्ध में हथियार नहीं उठाये यह सत्य है, परन्तु तुम्हारी सलाहों ने हथियारों की अपेक्षा हजारगुना भयङ्कर काम किया है । हमारे पुत्रों को जब तुमने अधर्माचारी होने के कारण त्याग दिया था, तो जिस दिन पाण्डवों ने अधर्म-युद्ध में परम धार्मिक भीष्म को गिराया था, उस दिन तुमने उन्हें क्यों नहीं रोका ? तुमने जब जान बूझ कर अधर्मियों को सहारा दिया है तो उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा । तुम्हारे भी पुत्र, पौत्र और बान्धव-गण इसी तरह बन्धु-विरोध की आग में जल मरेंगे और जिस भाँति आज कौरव-रमणियाँ विलाप कर रही हैं उसी तरह तुम्हारी कुल-नारियाँ भी अपने पतियों, पुत्रों और बन्धुवों के शोक में सिर धुन कर रोयेंगी और कलपेंगी ।

गान्धारी को दुखी देख श्रीकृष्ण ने कहा:—

देवि ! आपने हमें बिना कारण ही शाप दिया । हमारा कोई दोष नहीं । खैर, और शोक न कीजिए । ब्राह्मणी तपस्या और शूद्रा सेवावृत्ति के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं । पर क्षत्राणियों की अभिलाषा यही रहती है कि हमारे पुत्र युद्ध में मरे ।

पर पुत्रों की मृत्यु की याद करके उनके आँसू बहा करते । उन्होंने अपना विचार जताने के लिए विदुर से कहा:—

वत्स ! अब हमें यहाँ शान्ति-सुख नसीब नहीं होता । युधिष्ठिर हमें माता-पिता के समान ही मान कर हमारी सेवा करते हैं, हमारी सेवा में उनसे कोई त्रुटि नहीं होती; पर पुत्र-शोक से हम इतने व्याकुल और दुःखित रहते हैं कि हमारा चित्त तनिक भी शान्त नहीं रहता । इससे हमारी इच्छा है कि हम वन में जायँ और वहाँ पर तपस्साधन करके कुछ शान्ति प्राप्त करें । इसके लिए तुम युधिष्ठिर से कह कर उनकी अनुमति माँग दो ।

दूसरे दिन विदुर ने युधिष्ठिर से जाकर सब हाल कहा । युधिष्ठिर पहले तो इस पर राजी न हुए । पर जब विदुर ने बहुत कुछ समझाया और धृतराष्ट्र तथा गान्धारी की वन को जाने की विशेष अभिरुचि देखी तो वे राजी हो गये ।

इसके अनन्तर धृतराष्ट्र, विदुर, संजय और पतिव्रता गान्धारी ने वन को प्रस्थान किया । कुन्ती देवी भी उन्हीं के साथ चलीं ।

इन सब का पयान देख कर कौरव-वंश की स्त्रियों ने बहुत विलाप किया । उस विलाप से अन्तःपुर गूँज उठा । द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा आदि रानियाँ भी रोने लगीं । सब लोग उन्हें पहुँचाने गये ।

द्रौपदी बहुत रोई । कुन्ती और गान्धारी के चरण पकड़ कर उसने बड़ा विलाप किया । तब गान्धारी ने कहा:—

अपने व्रत-पालन में लगे हुए उस भूमि को पवित्र कर रहे हैं ।
उन तपस्वियों से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा:—

हे तपस्वियो ! इस समय हमारे पूज्य चचा कुरुराज धृतराष्ट्र
कहाँ हैं ?

तपस्वियों ने कहा:—महाराज ! इस समय वे नदी में
स्नान करने, फूल तोड़ने और जल लाने के लिए गये हैं । आप
यदि इस मार्ग से जायँ तो शायद वे लौटते हुए मिल जायँ ।

तपस्वियों के कहने के अनुसार महाराज युधिष्ठिर उसी मार्ग
होकर गये । थोड़ी ही दूर पर चल कर उन्होंने देखा कि
महात्मा संजय, विदुर, कुरुराज धृतराष्ट्र, पतिव्रता गान्धारी और
कुन्ती सब लोग आ रहे हैं ।

युधिष्ठिर ने सब को प्रणाम किया और आशीर्वाद पाया ।
इसके पश्चात् वे लौट आये ।

एक दिन गान्धारी इत्यादि के साथ महाराज धृतराष्ट्र गङ्गा-
द्वार गये, वहाँ से लौट कर उन्होंने एक यज्ञ किया । यज्ञ समाप्त
होने पर याजकों ने यज्ञ की अग्नि निर्जन वन में छोड़ दी और
अपने अपने आश्रमों को चले गये । दैव-संयोग से वह आग बढ़
चली और सूखी लकड़ियों के संयोग से जङ्गल में चारों ओर फैल
गई । धृतराष्ट्र और गान्धारी कुटी में बैठे थे । कुन्ती संजय और
विदुर भी थे । अकस्मात् अग्नि का प्रचण्ड गर्जन और आश्रम-
निवासियों का आर्तनाद सुन कर, महाराज धृतराष्ट्र बहुत शङ्कित

सम्मति

हर्ष की बात है कि हिन्दी में स्त्रियोपयोगी एक अच्छी पुस्तक और प्रकाशित हो रही है । लेखक महाशय की कृपा से मुझे छपने के पहले ही उसे देखने का अवसर प्राप्त हुआ है । इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ ।

भारतवर्ष का सती-धर्म संसार में प्रसिद्ध है । इस देश की स्त्रियों ने जिस उच्चता और दृढ़ता से अपने प्रेम-धर्म का पालन किया है वह श्रद्धा-जनक भी है और आश्चर्य्य एवं कौतूहलजनक भी । पतिव्रता गान्धारी के चरित में यह बात और भी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है ।

गान्धारी के पति महाराज धृतराष्ट्र अन्धे थे । इसलिए उसने भी नेत्र रहते अन्ध-भाव से अपना जीवन बिता दिया । वह अपनी आंखों पर बराबर पट्टी बाँधे रही । पति देवता जिस सुख से वञ्चित रहे वह मेरे लिए त्याज्य है । उसके साधन रहें, पर मेरे किस काम के । त्याग की हद हो गई । इससे बड़ा और कौन सा आदर्श हो सकता है ?

ऐसी प्रातः-स्मरणीया देवी का चरितरूपी पवित्र रत्न जिन्होंने महाभारतरूपी समुद्र से उद्धृत किया है वे सचमुच प्रशंसा के

पात्र हैं । आशा है, हमारी गृह-देवियाँ इसे हृदय में धारण करके उसकी शोभा बढ़ावेंगी ।

पुस्तक की भाषा सरल और लिखने का ढँग मनोरञ्जक है । बीच बीच में टीका-टिप्पणी के तौर पर लेखक ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनसे अनेक स्थलों में पुस्तक की और भी शोभा बढ़ गई है ।

कार्तिक १-६७३]

मैथिलीशरण गुप्त ।

